

GOVERNMENT OF INDIA  
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA  
Central Archaeological Library  
NEW DELHI


Acc. No.

032

Call No.

808-349143/San

कन्द्राय हृदा नदशालय, शक्ति मन्त्रालय,  
भारत सरकार की ओर से भेंट





# दिवोदास

राहुल सांकृत्यायन

0 32



शिल्प विद्या निवेशालय  
भारत सरकार की ओर से मंजूल  
में

808. ८१११३



किताब महल [ होलसेल ] प्राइवेट लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस :—५६ ए, ज़ीरो रोड, इलाहाबाद  
कलकत्ता • बम्बई • दिल्ली • जयपुर • हैदराबाद • पटना

ग्रन्थ संख्या : १

आवृत्ति : प्रथम १८८४ शकाब्द

० ३२

प्रवापित संस्कार..... दिनांक...  
 निवेश तिथि १८८५. ३५१। ५३। १७।  
 नह दिल्ली  
 केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय

प्रकाशक :

किताब महल ( होलसेल डिवीजन ) प्राइवेट लिमिटेड  
 रजिस्टर्ड आफिस : ५६ ए. जीरोड़  
 इलाहाबाद

सुद्रक :

पियरलेस प्रिंटर्स, इलाहाबाद

आवरण सुद्रक :

इंगल आफरेट प्रिन्टर्स  
 १५, यार्नहिल रोड,  
 इलाहाबाद

## दो शब्द

‘दिवोदास’ लिखने का ख्याल बहुत बर्षों से था। मेरे ऋग्वैदिक आर्य ग्रंथ को इस ग्रंथ की बड़ी भूमिका समझिये। इसलिये यहाँ बहुत लिखना नहीं चाहता। स्वास्थ्य के कारण सुझे कार्य को कर डालने का ख्याल हुआ। इसलिये लघु उपन्यास लिखना पड़ा।


ऋग् वैदिकाल की घटनायें उपन्यास का विषय हो सकती हैं। शंख विजय और दाशराज युद्ध, शंवर विजय आदि रूप में। दिवोदास के पुत्र सुदास के समय आर्यों के भीतर दाशराज का यह-युद्ध हुआ। हो सका तो आगे लिखूँगा।

द्वावर भवन

कलकत्ता


३-७-६१

—राहुल सांकृत्यायन



## अनुक्रम

१.	सात पुरियों का ध्वंस	....	....	१
२.	सरस्वती तीर	....	....	१८
३.	अश्व-सग्न	....	....	२५
४.	भरद्वाज-कुल	....	....	५१
५.	दिवोदास राजा	....	....	६६
६.	“गंधर्व गृहीता कुमारी”	....	....	७६
७.	भुज्यु की मृत्यु	....	....	८०
८.	अतिथि गुह (महान अतिथि सेवी)	....	....	१०८
९.	अबला सेना	....	....	११८
१०.	पूर्वज पितर	....	....	१२५
११.	सारथी कृत्स आर्युनेर	....	....	१३०
१२.	ऋजिश्वा का युद्ध	....	....	१३८



## २. सात पुरियों का ध्वंस

[१२२० ई. प्.]

“सप्त यत् पुरः शर्म शारदीदर्दत् दासीः”

**स**प्तसिन्धु (पंजाब) की गर्भियाँ असह्य होती हैं। वहाँ के शरद के बारे में वह बात नहीं कही जा सकती, लेकिन वह कही जरूर होती है। लोग उसे बड़ा सुहावना मानते हैं। सप्तसिन्धु के आर्यों के पास जीवन के आनन्द लेने के लिए समय की! कमी नहीं थी। कृषि से उन्हें थोड़े से जौ पैदा करने की जरूरत थी, जिसमें सत्तू, अपूर (रोटी) का काम चल जाय। उनकी असली जीविका पशुओं पर निर्भर करती थी। वह कामना करते थे—“कल्याण हो हमारे घोड़ों, भेड़ों, बकरियों, नर-नारियों और गायों का!” (ऋक् १।४५।६)। इन्हीं अपने पशुओं को ले वह चराते रहते थे। राजा और उनमें इतना हीं अन्तर था कि जहाँ साधारण आर्य परिवार में पशुओं की संख्या कुछ सौ होती थी वहाँ राजाओं के पास हजारों हजार होती थी। पश्यियों के समृद्ध नगरों को आर्यों ने तीन शताब्दियों पहले जीता था। वहाँ के आर्य नागरिक जीवन के सुख के इच्छुक नहीं थे। उन्हें अरण्यों और देवों का खुला जीवन पसन्द था। इसीलिए वह नगरों में बसने के लिए तैयार नहीं हुए। ग्राम भी उन्हें बाँध नहीं सकते थे। (वस्तुतः ग्राम शब्द अभी परिवारों के झुण्ड के अर्थ में आता था।) अपने खेतों के पास उनके कुछ घर भी होते थे, पर घरों में बर्तकर वह अपने पशुओं का चारण कैसे कर सकते थे। वर्षा उनके लिये सबसे कष्ट

और भय का समय था, क्योंकि इस समय सातों सिन्धु ही नहीं, नव्वे स्त्रोत्या (छोटी नदियाँ) और हजारों नाले उमड़ पड़ते थे। आर्यों के घर वह जाते थे, पर उसकी उन्हें उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी कि अकस्मात् धारा के प्रबल हो जाने पर पशुओं के विनाश से। आर्य पुरोहित बरावर इन्द्र और पर्जन्य की स्तुति करते रहते थे। उनके लिए सोम (भाँग) और होम तैयार करते थे। पर देवता कब किसी के बश में हुए? एक और वर्षा में सारी भूमि को हरितवसना, सभी जगह पशुओं के चरने के लिये लम्बी-लम्बी धासों को देखकर उनके मन में खुशी होती थी, तो दूसरी ओर वरुण की लाल-लाल आँखें भी उनके सामने सदा रहती थीं। न जाने कब उनका इशारा पा नदियाँ मन-मानी करने लगें।

गर्भ में इस तरह का कोई भय नहीं था। पर वह अपने अन्तिम दो महीनों में अत्यन्त उत्त्र हो उठती थी। अपने ऊनी बख्तों, चमड़े के परिधानों को परीने से तर देखकर उन्हें दूर हटाने के लिए वह बाध्य होते थे। कभी-कभी नग्न होने का भी मन करता पर पूरी नग्नता उनके समाज में परान्द नहीं की जाती थी। शरद उन्हें बहुत प्रिय थी इसीलिए सौ शरद जीने की कामना करते थे। शरद विताने के लिये वह सबसे उपयुक्त स्थान ढूँढ़ते थे, जहाँ उनके पशुओं के लिए चरने का पूरा सुभीता, प्राणियों को शरद के आनन्द लेने का अवसर हो।

आर्यों के अब पाँच नहीं पच्चीसों जन हो गये थे। लेकिन मूल पाँच जनों—पुरु, यदु, द्रुहु और अनु—का अब भी मान ज्यादा था, अब भी वह अधिक शक्तिशाली थे। पुरु जन सतसिन्धु के पूर्वी अंचल पर पश्चिमी (रावी) से सरस्वती तक फैला हुआ। कुशिक, भरत, तृत्यु आदि उसकी कई शाखाएँ हो गयी थीं, तो भी मूल पुरु जन का सम्मान अधिक था। उसके नेता (राजा) का सभी वहा आदर करते थे। आर्य राजाओं और सूरियों (राजकुमारों) में उसको प्रथम स्थान मिलता था। पुरु राजवंश वीरता, निर्भीकता में सबसे आगे रहता

था। हरेक पौरव राजा अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहता था, जिससे पता लगे कि पुरु कुल की वीरता में अब भी कोई कमी नहीं आई। पुरु सतसिन्हु के पूर्वी अंचल पर बसे थे। यहाँ यमुना के पार अब भी कृष्ण-त्वत्तों (असुरों) की दुनिया थी। उसके उत्तर में दुर्दान्त किलात रहते थे। इस प्रकार उन्हें संघर्ष का अवसर बराबर मिलता रहता था। फिर उनकी ताँवि की तलवारें कैसे भोथी हो सकती थीं?

दृष्टिगती (धग्वर) के कछार में दोनों तरफ धासों का मैदान वहाँ तक फैला हुआ था, जहाँ से धना जंगल शुरू हो जाता था। ऐसी समतल भूमि को पाकर पश्चिमेतों का स्वप्न देखते, लेकिन पशुपालों को छेत्र से अधिक गोचर-भूमि पसन्द आती है। इसी मैदान में कहीं बड़े-बड़े सींग और बड़े ढील-ढौल वाली गायें महाकाय वृपमों के साथ फैली हुई थीं। घोड़ियाँ अधिकतर लाल, किन्तु कुछ सर्वश्रेष्ठ और दूसरे रंग के भी अश्व चर रहे थे। सुपुष्ट शरीर और पोरिसे भर-भर के अश्व अपने स्वामियों के सर्वप्रिय प्राणी थे। वरसातों में हप्तद्वती अवश्य विकराल रूप धारण करती थी, परन्तु यह शरद का समय था। धारा इतनी रह गयी थी, जितनी कि उसके आश्रित पशुओं और मनुष्यों के लिये आवश्यक थी। धारा के पास ही झोपड़ियों का एक समूह था, वह हाल ही में बनी थीं। जंगल से फूस और लकड़ियों को काट कर इन्हें तैयार किया गया था। रात में सिंहों और द्विपियों (वधेरों) का पशुओं के लिए ढर था, इसलिए झोपड़ियों के बाहर की दीवारों को मजबूत लकड़ियों से तैयार किया गया था। नदी की ओर छोड़कर इन झोपड़ियों की तीन तरफ दीवारें खड़ी की गयी-र्थी, जिनमें भी लकड़ी का उपयोग हुआ था। हप्तद्वती यद्यपि आगे चल कर दृष्टों (पत्थरों) वाली नहीं रह जाती थी; यहाँ वह सचमुच हप्तद्वती थी। इस स्थान से बहुत पर्वत बहुत दूर नहीं थे, पर पुरुओं को उनसे कुछ लेना-देना नहीं था।

पशुओं की संख्या और भोपड़ियों के विशाल ग्राम को देखने ही से मालूम हो जाता था कि यह साधारण आर्य कुलों का आवास नहीं है। यहाँ पुरुओं का राजा पुरुकुत्स रहने आया था। राजा पुरुकुत्स के साथ इतने अधिक पशुओं और पुरुओं का होना स्वाभाविक था। ग्राम में पुरुष अधिक थे, जिन्होंके संख्या अपेक्षाकृत कम थी। तरुण आर्य दाढ़ी रखना पसन्द नहीं करते थे। हाँ, अपनी सुनहरी मूँछों पर उनको गर्व था, पर प्रौढ़ होते ही सुनहरी दाढ़ियों का उन्हें शौक हो जाता था। दाढ़ियों का सम्मान कुछ अधिक था। तरुण उनके रोब में आ जाते थे, शायद यह भी कारण हो दाढ़ी बढ़ाने का। एक प्रौढ़ आर्य नेता ने स्वीकार करते हुए कहा था—“मेरा शरीर छोटा है, मुँह भी उसी के अनुकूल है, यदि रंग में अन्तर न होता, तो मुझे लोग किलात कहने लगते। दाढ़ी रखने से चेहरा भी जरा मालूम होता है।” हो सकता है, दाढ़ी बढ़ाने का यह भी कारण हो। फिर दाढ़ी रखने से आदमी वसा (हजाम) के फंदे से बच जाता है। इस बात का इस आयु में डर ही नहीं था कि कोई मुस्कराती युवती उसे देखकर भौंहें तान देगी। प्रौढ़ पुरुष को अब किसी तरुणी के हृदय चुराने की आशा नहीं हो सकती थी।

यद्यपि पुरुग्राम स्थायी ग्राम नहीं था, पर तो भी पशुओं-प्राणियों की सभी तरह की आवश्यकताएँ तो वहाँ निश्चित थीं, इसलिए भोपड़ियाँ निश्चित क्रम से बनी हुई हैं। थोड़ों के लिए अलग बाढ़े हैं गायों के लिए अलग। इसी तरह भेड़-वकरियों के लिए अपने-अपने बाढ़े थे। अन्धेरा होने से पहले ही वह अपने-अपने बाढ़ों में पहुँचा दिये जाते। सूर्योदय के साथ दूध दुहे जाने वाली गायों को छोड़ वाकी जंगल की ओर हाँक़ दिये जाते। धेनुएँ भी थोड़ी देर बाद उनका अनुसरण करतीं। उपा के आगमन की प्रतीक्षा हरेक ग्राम बड़ी उत्सुकता से किया करता। निशा का अँधेरा कितने अज्ञात भयों का बाहक होता है। मनुष्य-शत्रु के किसी समय आ पड़ने की आशंका रहती है। फिर

उनसे भी अधिक संख्या में भूत-प्रेत दृष्टदृती के तट पर धूमा करते हैं। कोई आर्य योद्धा रात को अकेले हाते से बाहर जाने की कामना नहीं करता। दो पर दस बहुत होते हैं।

लकड़ी की बाड़ों वाली मोर्चावन्दी से घिरी पुरुओं की पुरी में सर्वंत्र जीवन दिखाई पड़ता। कुछ लोग पशुओं के बाड़ों की सफाई में लगे थे। खियों ने घर सँभाला। तरण अखाड़े में उतरे। आर्य निर्वल को मृत के बराबर समझते। तुवि (मोटी) ग्रीवा, ऊँचा कंधा, चौड़ी छाती, पुष्ट पंजे सम्मानित थे। स्वभावतः ही वह दीर्घकाय होते। किलात और पणि उनके सामने बचे से दिखाई पड़ते। अपनी स्वाभाविक शरीर सम्पत्ति को और बढ़ाने की उनमें बड़ी कामना होती। इसलिए आर्य ग्रामों में सबेरे के बक्त अखाड़े में भीड़ हो जाया करती। सभी शारीरिक व्यायाम में लगते, मल्लयुद का अभ्यास करते, इससे शरीर ही पुष्ट नहीं होता, बल्कि दून्दयुद में भी बड़ी सहायता मिलती। प्रौढ़ और युद्ध मल्ल तरणों को अपना हरेक कौशल सिखलाये। वहाँ दसियों अखाड़े थे। पुरुओं का राजा स्वयं एक मल्लयोद्धा था। आयु २५-२६ से अधिक नहीं होगी। कुछ लालिमा लिए मक्कन जैसे श्वेत उसके मुख को देखते ही आदमी कह देता, यह आसाधारण पुरुष है।

पुरुकुत्स असाधारण कुल में पैदा हुआ असाधारण पुरुष था ही। पहले वह एक-एक करके सभी अखाड़ों में गया उसके शरीर पर बुटनों से जरा नीचे तक का आयोवस्त्र था, ऊपर चमड़े की द्रापि ऐसे बँधे हुए था, कि दाहिना हाथ बाहर निकला था। ऊनी द्रापि भी आर्य प्रसन्द करते, पर पुरुकुत्स को लाल चमड़े की द्रापि अधिक प्रसन्द थी। राजा के अनुरूप उसे सोने के तारों से संचारा होना चाहिए था। लेकिन पुरुकुत्स सादगी प्रसन्द करता था। उसके साथ चलने वाले सूरि (सूरमा, राजकुमार) भी उसकी ही तरह सुडृढ़-शरीर थे, पर वह सबसे अधिक लम्बा और उसी के अनुकूल आयताकार था। उसे देखकर

यदि लोग इन्द्र का नाम लेते हों, तो अचरज नहीं। जैसे देवों में इन्द्र वैसे ही मनुष्यों में पुरुकुत्स था। बल्कि वह इन्द्र से भी अधिक सुधङ्ग था, इन्द्र वपोदर (तुंदिल) है, जबकि पुरुकुत्स के उदर में चर्दी का नाम नहीं, बस पेशियाँ थीं। कमर कितनी ढीण और बक्ष कितना विशाल था? कन्धे तो मानों साँड़ के डील की तरह उभरे हुए थे। वह सरल गति से एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े में जा रहा था। उसकी गति में भी गम्भीरता के साथ साँदर्य था, यौवनसुलभ चंचलता उसमें नहीं थी। एक अखाड़े में वह द्रापि हटा अधोवस्त्र के स्थान पर छोटा कपड़ा बाँध उतारा। कसरत के बाद वह तरुणों के साथ मल्लयुद्ध करने लगा। पसीने-पसीने हो गया; लेकिन थकने का नाम नहीं लेता था। पुरु लोग अपने नेता के पौरुष को देखते आनन्दित हो रहे थे।

व्यावाम समाप्त हुआ। कुछ विश्राम कर पुरुकुत्स विशाल अग्निशाला में पहुँचा। ऋत्विज—जिनमें सफेद दाढ़ी-मूँछवाले कितने ही बृद्ध ऋषि भी थे—अग्नि की जोर से स्तुति करने लगे। वृत और जौ का होम होने लगा। पुरुकुत्स स्वयं अग्नि के पास कुशासन पर बैठा। चारों तरफ मिट्ठी और ताँबे के कलशों में सोम (भाँग) भर कर रखा हुआ था। अग्नि को सोम अर्पित किया गया। देवताओं को अर्पित किये बिना कुछ भी खाना आर्य पाप समझते। अग्नि के बाद इन्द्र का भी आवाहन होता। इन्द्र के पौरुष के साम गाये गये। प्रातः सवन इस तरह समाप्त हुआ, जबकि हवन के बाद सत्त् के साथ उपर्युक्त आर्य नर-नारियों ने अग्निशाला में सोमपान किया। यह कोई विशेष दिन नहीं था, दिन के काम पढ़े रहने के कारण इस समय सोमपान को अतिमात्रा में बढ़ाया नहीं जा सकता था।

★

★

★

सार्य सवन बीत चुका था। सभी आर्य रक्ताक्ष थे, सोमपान में

कोई सीमा नहीं होती थी, यद्यपि पुरुषुरी में सख्त हिदायत थी कि पान में अतिरेक से काम न लिया जाये। पुरुषुत्स पान की होड़ में किसी से पीछे नहीं रहने वाला था, पर उसमें स्वाभाविक संयम था। कभी उसे सोम द्वारा भी बुद्धि खोये नहीं देखा गया। आधी रात होने में कुछ देर थी, जबकि वह अपने सात मित्रों के साथ किसी गम्भीर मंत्रणा में लगा हुआ था। एक मन्त्री ने कहा—

किलात यहाँ से एक योजन से अधिक दूर नहीं हैं। उनके पास हजारों पश्चु हैं। नरम ऊन वाली मोटी-मोटी मेड़ों से सात जंगल भर गया।

—लेकिन, अभी तो किलातों के पहाड़ से नीचे उतरने का ठीक समय नहीं है।

—ठीक समय न हो, पर शरद का आरम्भ हो गया है, इसलिए हिम के भय के मारे उन्हें ऊपरी पर्वतों को छोड़ना ही पड़ता है।

तीसरे प्रौढ़ ने कहा—अबके साल सर्दी जल्दी आयी है इस साल वर्षा भी बहुत और लगातार चार महीनों तक होती रही। कहते हैं, जब हमारे यहाँ वर्षा होती है, तब ऊपर के पहाड़ों पर हिम पड़ जाती है शायद इस कारण किलातों ने नीचे आने में जल्दी की हो।

प्रथम पुरुष ने और बातों का पता देते हुए कहा— किलात अभी अपने पुर (मोर्चाबन्दी) को सुव्यवस्थित नहीं कर सके हैं।

पुरुषुत्स ने कहा—पर उनके आदमी तो सभी आ चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं। हमें इन देवदेवियों कृष्णत्वचों की गायों और अजाअजवियों की आवश्यकता है। इन्द्र की आशा है कि देव-देवी के पास धन नहीं होना चाहिए। हम कई साल से सोच रहे हैं, लेकिन देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सके। \*

तीसरे मंत्री ने मंत्रणा दी—अभी तक हम पणियों और बनचरों (निषादों) को ही अपना शत्रु बनाये हुए थे। पर्वतीय किलात दूसरी ही तरह के हैं। यह बड़े दुर्दान्त और युद्ध करने में निपुण हैं। शरीर में

ये हमसे अवश्य खर्ब होते हैं, पर युद्ध में नहीं। हमारे पूर्वजों ने एकाध बार इनसे छेड़-छाड़ की। उन्हें मालूम होते देर नहीं लगी कि वह न पश्चियों की तरह युद्धोचित स्वभाव से बंचित हैं और न निषादों की तरह निरे साधन-हीन वन्य प्राणी। इसीलिए आयों ने किलातों से अभी तक गम्भीर छेड़-छाड़ नहीं की।

दूसरे मंत्री ने कुछ सहमति प्रकट करते हुए कहा—पण और निषाद को हम दास बनाकर अपने पास रख सकते हैं, पर किलात को दास बनाना अभी तक संभव नहीं हुआ, जैसा कि गवय (नील गाय) को हम पालत् नहीं बना सके। मृग की जाति का यह जन्तु मांस में उससे कई गुना अधिक होता है। दूध भी बड़ी बकरी से कहीं अधिक दे सकता है, यह उसके विशालकाय से मालूम होता है। यदि हम उसे पालत् बना सकें, तो वह हमारे बड़े काम का होगा। परन्तु गवय बच्चे को पकड़कर भी हम उसे पालत् बनाने में कभी सफल नहीं हुए।

कुत्स—हम किलातों को दास भले ही न बना सकें, पर उनके पशुओं को तो पा सकते हैं।

पहला मन्त्री—और उनकी गोचरभूमि की भी हमें आवश्यकता है। हमारे स्तोक-तनय (परिवार) बढ़ रहे हैं, पशु बढ़ रहे हैं। हमें और भी गोचरभूमि की आवश्यकता है।

कुत्स—इन्द्र पर विश्वास होना चाहिए। इन्द्र अजेय है। उसकी आशा पालन करना हमारा कर्त्तव्य है।

क्षीर जैसे श्वेत शमशु (दाढ़ी) वाले पुरोहित अब तक मन्त्रणा में भाग नहीं ले रहे थे। अब उन्होंने राजा की बात का समर्थन करते हुए कहा—कुत्स ठीक कह रहा है। मधवा कई बार कह जुका है कि मैंने इस विस्तृत मही को आयों को दिया। इसीलिए वह हमारे हरेक संग्राम में साथ होता है। उसने चेतावनी दी—“यदि पुरु लोग

इन्द्र-शत्रुओं से इस भूमि को मुक्त नहीं करेंगे, तो मैं उनका साथ छोड़ दूँगा ।”

अब और विचार करने की आवश्यकता नहीं थी । इन्द्र पहले ही दासों (किलातों) की सात पुरियों को ध्वंस करने का वचन देखा था ।

चारों ओर अन्धकार था । उषा के आने में अभी देर थी । इसी समय पुरुषुरी में गर्गरा बजी । एक ज्ञण में सभी जग उठे । पुरु तरण और प्रौढ़ विशालकाय लाल-लाल घोड़ों पर सवार हो गये । पुरुकुत्स सबसे पहले अपने अरुण अश्व पर सवार हुआ । उसके सिर पर अयःशिप्र (ताँचे का शिरस्त्राण) था । शरीर पर द्रापि यद्यपि लाल चमड़े की थी, पर उस पर सुनहला काम दिया हुआ था । बायें कंधे से धनुष लटक रहा था और दाहिनी कमर से असि पीठ पर इषुधि (तुण्णीर) के साथ दो हाथ लम्बा डेढ़ हाथ चौड़ा चर्म (दाल) बँधा हुआ था । रह-रह कर अपनी बड़ी-बड़ी सुनहली मूँछों पर उसका हाथ चला जाता था । उसने मेघ गम्भीर स्वर में कहा—

सूरियो, उषा की स्तुति हमें दासों की पुरी में पहुँच कर करन है, जल्दी ।

सारी पुरु सेना उत्तराभिमुख रखाना हुई । संख्या पाँच सौ से कम न होगी । पर, देखने में वह उससे कहीं अधिक मालूम होती थी । सभी चुने हुए सुपुष्ट दीर्घ शरीर वाले योद्धा थे । उनके घोड़े भी असाधारण लम्बे ऊँचे थे । सभी लाल रंग के थे । योद्धाओं के शरीर पर भी लाल ही रंग की द्रापियाँ थीं । अँधेरे में चलते बक्त सिर्फ घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई पड़ रही थी, आकृति अन्धकार से मिल कर एक ही गई थी वह जंगल से बाहर-बाहर क्षणद्वयी के तट के समीप दौड़ रहे थे । पत्थरों की कड़ कड़ाहट से बचने के लिए नदी की सूखी धार में से चलना नहीं चाहते थे । दास पुरी के पास तो उन्हें और सावधानी बरतनी पड़ी । इन्द्र और अपने ऊपर पुरुओं को

पूरा विश्वास था, किलात असाधारण शत्रु थे। उनको दबाना बहुत कठिन काम था।

दास पुरी धोर जंगल में थी, पहाड़ वहाँ से बिल्कुल समीप था। बल्कि कह सकते हैं, वह पहाड़ के चरणों में ही बनायी गयी थी। पुर शत्रु को बिना सजग किये उसके पशुओं पर दृट पड़ना चाहते थे। अभी उषा की हल्की किरणों पूर्व में छुलकने लगी थीं, जबकि आर्य शुद्धस्वार लकड़ियों के प्राकार के पास पहुँच गये। वह चुपचाप गायों के बेड़े के पास पहुँच जाते, पर किलातों के कुत्ते असावधान नहीं थे। उनके भोकते ही एक लैण में सारी किलातपुरी सजग हो गयी। गर्गरा और गोधा की आवाज से कान फटने लगे। जरा देर में किलात योद्धा बेड़ों के पास थे, जहाँ कुत्ते पहले ही पहुँच चुके थे। दोनों दल एक-दूसरे के इतने नजदीक थे कि बाण चलाने का अवसर नहीं था। उनके खड़ग पास नहीं पहुँच सकते थे, सिर्फ़ भालों से युद्ध जारी हुआ। इसी बीच किलात लियाँ किलकारी मारते पहुँचीं, और पत्थरों की वर्षा करने लगीं। कुछ ही समय बाद प्राची में सूर्य का लाल गोला निकल आया। अब अन्धकार का कहीं पता नहीं था। पुर एक बार तो किलातों के प्रचण्ड प्रहार से निराश हो गये, पर उनके हाथों के लम्बे भालों ने बड़ी सहायता की। किलात मोर्चे से पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। इसी समय कुछ पुरुषों ने घोड़े से उतर कर लकड़ी की भीत को हटा दिया। शुद्धस्वार उसी से भीतर धुसे। थोड़ी देर तक किलात स्तब्ध-से हो गये। पर, उन्हें अपनी अजेयता का अभिमान था। वह अनन्त काल से जाड़ों को बिताने के लिए पशु-प्राणियों के साथ यहाँ आया करते थे। पर्वत से दूर हटना उनके लिए अप्रिय बात थी। पर जाड़ों में ऊपर के पहाड़ों पर जब कई हाथ बर्फ़ पड़ जाती तो पशुओं और प्राणियों को बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता। आदमी को हड्डी चीरनेवाली सर्दी सताती, और पशुओं के लिए घास-चारा दुर्लभ हो जाता। इससे बचने के

लिए वह यहाँ बृहत् पर्वत (हिमालय) के चरण में अपनी पुरियों बसाते, मोर्चाबन्दी करते। एकाघ चार आर्यों से संघर्ष होने में यद्यपि जय-पराजय का निर्णय नहीं हो सका था, पर बृहत् पर्वतों के निवासी सारे किलात यह समझते थे कि पीतकेशों को हमने बुरी तरह से हराया, वह हमारे नाम से भी भय खाते हैं। कितनी पीढ़ियों से यह भावना उनके हृदय में छढ़ हो चुकी थी, इसलिए पुरी के घेरे के दूट जाने के बाद भी किलात हिम्मत हारने वाले नहीं थे।

पुरी का विशाल हाता दोनों ओर के युयुत्सुओं से आकीर्ण हो गया था। आर्यों के कितने ही धोड़े चौट खाकर गिर चुके थे, कितने ही योद्धा मर गये थे। किलातों को भी ज्ञाति हुई थी। इसने दोनों के क्रोध को और उद्दीप्त कर दिया था। दोनों दल एक-दूसरे के भीतर छुस गये थे। भाले के उपयोग का भी अवसर नहीं रह गया था। पुरुष अपनी तलबार और चर्म निकालकर धोड़ों से कूद पड़े। किलात तलबारों, पत्थर की गदाओं से प्रहार कर रहे थे। किलात नारियाँ भी पत्थर के टुकड़ों को बढ़े वेग से फेंक रही थीं। पर, आर्य सभी सुशिप्र (शिरस्त्राणवद्ध) थे। उनके केवल शरीर पर ही चौट लग सकती थी। पुरुकुत्स का रण-कौशल इस बक्त देखने लायक था। शायद ऐसे ही आर्य वीर को देखकर इन्द्र की आकृति की कल्पना की गयी। वह इन्द्र की तरह कुछ देर तक रोहिदश्व (लाल धोड़े वाला) रहा, और जहाँ भी किलातों को प्रबल देखता, अपने खड़ग के प्रहार से वहाँ पिल पड़ता। उसका प्रहार ही प्राण लेने के लिये काफी था। पर किलात संख्या में कहीं अधिक थे, इसलिए अधिक ज्ञाति होने पर उनके प्रहार का वेग कम नहीं होता था। पुरुओं को पहले-पहल ऐसे भीषण संघर्ष से पाला पड़ा था जो धायल और बेकार हो चुके थे, उन्हें तो निराशा होने लगी थी। शायद इन्द्र किसी दूसरे काम में लगे रहने से हमारी सुध भूल गये—चार-चार यही उनके मन में आता था।

हाता रुधिर से लाल हो गया था। एक और गोरे लम्बे-लम्बे पुरु-

वथा पीतांग खर्बकाय किलात एक-दूसरे की पंक्ति में छुसकर ताँबे की तलवारों और पत्थर के बज्रों (गदाओं) को चला रहे थे। दूसरी ओर निर्जीव या सिसकते गोरे-काले एक-दूसरे के पास पड़े अपनी रक्तधारा को मिश्रित कर रहे थे। पुरुओं का कुत्स धमासान होते युद्धस्थल में अपनी लम्बी असि चला रहा था, दूसरी ओर किलात सरदार भी उससे पीछे रहने वाला नहीं था। वह आकार में भले ही पुरुकुत्स के कन्धे तक पहुँचता हो, पर उसका शरीर बहुत गठा हुआ, छाती असाधारण चौड़ी और भुजदंड अत्यन्त दृढ़ थे। उसने कई पुरुओं को धराशायी किया। पुरुकुत्स को मालूम होने लगा कि उसको खत्म किये बिना किलातों की कमर नहीं तोड़ी जा सकती। पर, वह ऐसे हार खानेवाला नहीं था। कितने ही साध कर मारे हुए दाँव को विफल करके वह पुरु राजा के ऊपर प्रहार कर रहा था। कुत्स की जाँघ पर उसने असि का एक ऐसा बार किया, जिससे उसके गिर जाने में कोई संदेह नहीं था। इसी समय कुत्स ने अपने एक असि धात से किलात-सरदार का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ खण्डों तक उसका कबंध इधर-उधर हाथ मारता रहा। उसके गिरने के साथ बचे-खुचे किलात पहाड़ की ओर भागे। पुरुओं ने उनका कुछ दूर पीछा किया। पहाड़ पर चढ़ने में वह किलातों का मुकाबिला नहीं कर सकते थे। उन्हें लौटना पड़ा। कुछ देर तक पत्थर और बाण फेंके जाते रहे। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुँच गया।

पुरी में लौटने पर देखा कि पुरुकुत्स जमीन पर गिर पड़ा है। कुछ पुरु उसके पास बैठे हैं। उसके धाव पर कपड़ा बाँधा गया, पर खून बंद होने का नाम नहीं लेता था। कुत्स संशाहीन था। किलातपुरी पर पुरुओं की विजय हुई, किन्तु उन्हें भारी दाम चुकाना पड़ा। पहले तो यहीं जान पड़ता था, कि कुत्स अब नहीं बच सकेगा। पर, कुछ घड़ी बाद उसने आँखें खोलीं, पानी का संकेत किया। पानी पीते ही उसको पूरा होश हो गया। इसी बक्त लोगों ने हन्द्र की जय मनायी।

पुरुषकुल्त्स को बधाई देते हुए कहा—“किलातों पर हमने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। रण में धायल किलातों में से किसी को हमने जीता नहीं छोड़ा। बाकी खी-पुरुष-बच्चे पहाड़ के ऊपर भाग गये। उनकी सारी गाएँ, सारी भेड़-बकरियाँ अब हमारी हैं। यह इन्द्र की महिमा है।”

# \* \*

किलातों के पहाड़ की ओर भागते ही पुरुषपुरी में सन्देश भेज दिया गया था। अन्धेरा होने से पहले ही वहाँ से सैकड़ों खी-पुरुष घोड़ों पर चढ़े किलातपुरी में पहुँच गये। पुरुषकुल्त्स एक बार होश में आकर फिर मूर्खित हो गया था। पुरुषकुल्त्सानी अपने पति को इस अवस्था में पाकर बड़ी कठिनाई से कन्दन रोके सिर को गोद में लिए। अपने आँसुओं से पति के मुँह को धो रही थी। बृद्ध सान्त्वना दे रहे थे—“वीर-पत्नी, चिन्ता मत करो। इन्द्र अपने यजमान का रक्षक है। उसी के प्रताप से यह विजय हाथ लगी। उसने कहा है, मेरा भक्त दासों की सात पुरियों को नष्ट करेगा। अभी तो यह पहली पुरी है।” तुर्वश-पुत्री पुरुषकुल्त्सानी बड़ी गम्भीर प्रकृति की महिला थी। अपने वीर पति के अनुरूप ही उसने दृढ़ संकल्प पाया था। गुलाबी रंग, सुनहरी आँखें, भरा चेहरा, पीले लम्बे केशों के साथ वह असाधारण स्वस्थ मुन्दरी थी। सारे आर्यजनों में उसके लावण्य की प्रसिद्धि थी। तुर्वशों के साथ पुरुओं का उस समय मेल नहीं था, पर पुरुषकुल्त्सानी ने पुरुषकुल्त्स को ही बरा। वह जानती थी, आर्यवीर का काम है, युद्ध में लड़ना, शत्रुओं को मारना और समय पढ़ने पर मृत्यु को आलिंगन करना। आर्य पत्नी का काम है अपने पति को प्रोत्साहित करना, उसके काम में सहायता देना। वह जानती थी हमारे पितर आकाश में बड़ी उत्सुकता से रण में अपनी सन्तान के पराक्रम को देख रहे हैं। वह कायर को कभी ज्ञान नहीं करते। वीरों की दो गति हैं—विजय प्राप्त करके शत्रु के पशुधन—गो, अजा, द्यवि को पाना या मरकर पितरों के पास चला जाना। सारी दृढ़ता के होते भी पुरुषकुल्त्सानी का दृढ़य

भीतर से विदीर्ण हो रहा था। दोनों में असाधारण प्रेम था। कर्तव्य का स्वाल करके ही वह कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग रहते, नहीं तो उन दोनों के शरीरों में एक ही प्राण था।

आधी रात के बाद सर्दी ज्यादा हो गयी; लोगों ने द्रापियों से अपने शरीर पूरी तरह आच्छादित कर लिये। पुरुषकुत्सानी को सर्दी का कोई पता नहीं था। उसका सारा ज्यान अपने पति की ओर था। चर्ची के दीप के प्रकाश में वह एकटक पति के मुख की ओर देख रही थी। साँस एक रस चल रही थी। विशाल बज्ज नियमपूर्वक उठ-बैठ रहा था। रक्त का बहाव कुछ देर पहले रुक चुका था। एकाएक पुरुषकुत्स की आँखें खुलीं। ऊपे हुए चेहरे से उसके मुँह पर इसी समय दो बूँदें टपक पड़ीं। पुरुषकुत्सानी के बदन से कितनी करुणा बरस रही होगी, इसे पूरी तौर से न देखते भी पुरुषकुत्स समझता था। उसने अपने दायें हाथ को उठाकर पुरुषकुत्सानी के कपोलों को बड़े स्नेह से स्पर्श किया। पूरा प्रकाश होता, तो पुरुषकुत्सानी का मुँह इस समय देखने लायक था। वह 'प्रियतम' कहकर पति की छाती पर गिर पड़ी। कुछ देर तक दोनों इस अनुपम स्पर्श-सुख का अनुभव करते रहे। इसी समय बायाँ पैर हिला। पुरुषकुत्स ने एक हल्की सी आह भरी। उसे अब तक अपने घाव का पता नहीं था। लेकिन, घाव के लिए कातरता दिखलाना आर्यवीर के लिए लज्जा की बात थी। उसने इतना ही कहा—“मेरी जाँघ में घाव है।” फिर यह भी, कि “किलात हमसे दीरता में किसी प्रकार कम नहीं हैं, वह किलातसूरि तो पौरुष और पराक्रम में अद्वितीय था।” फिर उसने उसके शब के बारे में पूछा। पुरुषकुत्सानी ने कहा—“हमारे लोग सारे शबों को जलाने में अब भी लगे हुए हैं। आर्य शबों को वह जला चुके हैं। अब किलातों को जला रहे हैं।”

किलातों की पुरी—मोर्चाबन्दी—अब पुरुओं की समति थी। उसके आस-पास इतने मुदों का रहना दो-चार दिन में भारी सर्दाँध

पैदा करता। जंगल में चटक और सियार यद्यपि शबों की सद्गति करने के लिए तैयार थे, पर वह एक-दो दिन में यह काम नहीं कर सकते थे। पुरुकुत्स की बड़ी हच्छा थी कि अपने प्रतिद्वन्द्वी किलातसूरि का शब-संस्कार विशेष सम्मान के साथ हो, पर वह अब तक जलाया जा चुका था।

इस महान् विजय के उपलक्ष में वृद्ध ऋषि ने गद्गद हो प्रार्थना की। अग्निदेव के मुख में भूत की आहुतियाँ दी गईं। इन्द्र के लिए किलातों के वृषभों (सौङों) में से ३५ मारकर पकाये गये सोम के किटने ही कलश प्रदान किये गये। लोगों ने यज्ञशेष खाया जरूर, पर उस रात उनके मन में कोई उत्साह नहीं था। उनका सेनानी पुरुकुत्स विजय से भी अधिक मूल्यवान् था। सभी यही प्रार्थना कर रहे थे—“इन्द्र, यह विजय व्यर्थ की होगी, यदि हम कुत्स से बंचित हुए।” इन्द्र ने ऋषि के मुख से उसी समय कहलाया—“इन्द्र पर विश्वारु रखो मुझे पुरुकुत्स सबसे अधिक प्यारा है।”

रात को ही पुरुकुत्स को प्रकृतिस्थ देखकर लोगों को सन्तोष हो गया। प्रातः उन्होंने दिन की दुहिता उषा की प्रार्थना की। पुरुकुत्सानी ने उसके लिए विशेष प्रार्थना और हवन किये।

\* \* \*

इन्द्र का चन्चन सत्य निकला। पुरु दासों (किलातों) की सातों पुरियों को ध्वस्त करने में सफल हुए। उन्हें अपार पशुधन मिला। किलातों का पशुधन ही धन था। पशुपालन और आखेट यही दो उनकी जीविका के साधन थे। जंगलों के फलों को भी वह एकत्रित करते और कुछ को सुखाकर रख भी लेते पर, वह उनके लिए पर्याप्त नहीं थे। सेती का एक तरह उनमें प्रचार ही नहीं था। नीचे के पहाड़ों में देखा-देखी कहीं-कहीं अनाज बो देते थे। पर उसका उपयोग मनुष्यों के खाने की अपेक्षा पशुओं के चारे के तौर पर अधिक होता। यद्यपि अपनी छुहों पुरियों को किलातों ने आसानी से नहीं छोड़ा,

पर प्रथम पुरी के घ्वंस ने उनके उत्साह को कम कर दिया था। पुरुष-कुत्स को पूरी तरह स्वस्थ होने में महीने से अधिक समय लग गया था। लोग नहीं चाहते थे, कि उसी शरद में और कोई संघर्ष छेड़ा जाय, पर पुरुष-कुत्स उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। दृष्टिकोण के पूर्व आपया (माकंडा), सरस्वती और यमुना के पास किलातों की तीन शारदी पुरियाँ थीं। दृष्टिकोण से पश्चिम सतलुज तक भी तीन पुरियाँ थीं। पुरियाँ क्या प्रतिरक्षा के उपयुक्त मोर्चाबन्दी तथा रात को रहने के लिए पशुओं के बाड़े और विल्कुल मामूली सी फूस की भोपड़ियाँ थीं। विजय में प्राप्त होने वाला धन पशु के रूप में ही था। आयों के पास भी भेड़ें थीं, लेकिन किलातों के भेड़ों की ऊन की द्रापि बहुत कोमल और सुन्दर होती थी।

सतलुज से जमना तक पहाड़ की तराई पुरुषों के प्रवत्न से किलातों से खाली हो गयी। किलात के बाल सर्दियों के ब्रिताने के लिए यहाँ आया करते थे। पुरुषों से पराजित हो वह अपने हजारों आदमियों से हाथ धो असंख्य पशुओं को खो अपनी शारदी गोचर भूमियों से बंचित हो गये। पुरुषों के चरिष्णु ग्राम अब तराई तक फैल गये। कभी-कभी दूर पहाड़ पर से अपनी इस भूमि में आयों के धोड़ों और गौओं के मुण्डों को देखते, किलातों के हृदय में ठीस-सी उठती। एकाध बार उन्होंने छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुरुषों ने अपनी पुरियों को सुहड़ कर रखा था। पहाड़ का चरण दोनों की सीमा बन गया।

पुरुष-कुत्स सप्तसिन्धु का महावीर माना जाने लगा। सप्तसिन्धु में कहीं पर भी आयों ने अपने उत्तरी पहोसी पहाड़ी किलातों के ऊपर ऐसी विजय नहीं प्राप्त की थी, न उनकी शारदी चरिष्णु (चलायमान) पुरियों पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। जंगल में चरती गौओं को भेले ही आर्य कभी-कभी छीन ले गये हों, पर यह वीर के तौर पर नहीं, बल्कि दस्यु के तौर पर ही, जो आयों के लिए शोभा

की बात नहीं थी। सातों पुरियों के लिए संघर्ष तीन वर्ष तक चलता रहा। दूसरे वर्ष में पुरुकुत्सानी ने एक पुत्र जना। पिता दस्युओं को ब्रस्त करने में लगा था, इसी उपलक्ष में पुत्र का नाम ब्रसदस्यु रखा गया। सारे आर्य जनों में पुरु ज्येष्ठ !थे। पुरुओं का ज्येष्ठ पुरुकुत्स था। उसकी ज्येष्ठ सन्तान ब्रसदस्यु अपने पिता का योग्य उत्तराधिकारी होगा, इसे समय ही बतलाने वाला था। पर, ब्रसदस्यु के जन्म पर सारे पुरजन में ऐसा आनन्द उत्सव मनाया गया, मालूम होता था कि प्रत्येक घर में प्रथम सन्तान पैदा हुई हो। पुरुकुत्सानी को देर से यह पहली सन्तान मिली, इसलिए वह इन्द्र के लिए कृतशता प्रकट करते नहीं थकती थी। पुत्र को देखते उसे अपने पति का ओजपूर्ण शरीर याद आता। वह यही कामना करती और इसी प्रवल्म में रहती कि ब्रसदस्यु भी पिता की तरह ही दस्युओं को त्रास देने वाला हो।

## २. सरस्वती-तीर

[१२१७ ई० पू०]

“इयमदाद दिवोदासं ब्रह्मश्वाय सरस्वती” १

**स**प्त-सिन्धु की सबसे पूर्व की प्रसिद्ध नदी सरस्वती अपनी अन्य छः बहिनों—सतलुज, विपाश (व्यास), परम्परी (रावी), असिकनी (चिनाव), वितस्ता (जेलहम) और सिन्ध—की तरह हिमगतित स्रोतों-वाली सदानीरा नहीं थी। जाङ्गों और गर्भियों में उसकी धारा अत्यन्त क्षीण हो जाती। पर, शतांचिद्यों तक आयों को अपने सीमान्त पर इस जगह ढटे रहने का उसने अवसर दिया था, इसलिए वह उसके प्रति बाकी छः बहिनों से भी अधिक कृतज्ञ थे। परम्परी सप्तसिन्धु के बीच में थी। आर्य मानते थे, इन्द्र की उसके ऊपर महती कृपा है, तो भी, सरस्वती का वह विशेष आदर करते थे। सरस्वती से पूर्व कुछ योजन पर यमुना एक विशाल नदी थी, पर उसे आर्य अपनी नहीं कह सकते थे। दुर्दान्त दस्यु उसके तट पर अधिकार रखते थे, यदि सरस्वती ने अन्न और शरण देकर सहायता न की होती, तो दस्युओं के सामने आयों के पैर उखड़ जाते। परम्परी से ही पुरुजन की भूमि आरम्भ हो जाती थी, पर पुरु अब स्वयं कई जनों में विभक्त हो गये थे। मध्य सारित्वत देश कुशिकों का था। उसके उत्तर भरत पूर्व से परिचम परम्परी तक फैले हुए थे। परम्परी के तट पर उन्हीं की एक

१इस सरस्वती ने ब्रह्मश्व के लिए दिवोदास को दिया।

शाखा तृत्सु, जन रहता था। विग्रह होने पर एक जन दूसरे जन को अपने भीतर गोचारण—जीविका करने—की आशा नहीं दें सकता था। पर, शान्ति के समय कोई बाधा नहीं थी। आर्यों के भीतर जब संघर्ष होने लगता, तो दूसरे जन किसी पक्ष की ओर से मैदान में उत्तर पड़ते। यदि दस्युओं से संघर्ष होता, तो सभी आर्यजन एक होकर उनसे लड़ने के लिए तैयार थे।

सरस्वती बाला प्रदेश—सारस्वत देश—अत्यन्त समृद्ध था। देश के ही प्रताप से वैसा हो, यह नहीं कहा जा सकता, पर तो भी सारस्वत भूमि की गाँवें सबसे अधिक दूध देती थीं, वहाँ के वृषभ सबसे बलिष्ठ होते थे। धोड़े-धोड़ियों के पैदा करने में यद्यपि वह पीछे नहीं था, पर तो भी उसमें दूसरे जन भी मुकाबला कर सकते थे। अवियों (मेहों) के लिए गन्धारि आर्यजन प्रसिद्ध था, जो सिन्धु से पश्चिम में चारण करता था। सारस्वत भूमि हरे-भरे अरण्यों से—अश्वत्थ (पीपल), खदिर (खेर), विभीषक (मेला), हरिद्रु, किशुक (पलाश) आदि बृक्षों और मुंज, काष्ठ, कुश, दूर्वा आदि तृणों से ढँकी थी। वहाँ के स्वाभाविक और कृत्रिम जलाशयों में पुंडरीक जब गर्भियों में फूलते, तो दिशाएँ सुगन्धि और सौन्दर्य से भर जाती थीं।

सारस्वत निवासी भरत हों या कुशिक, इन्द्र और अग्नि की सेवा में सदा लग्न रहते। घर-घर में अग्नि अखंड जला करती, जिसकी सायं-प्रातः परिचर्या करने में प्रत्येक आर्यकुल लगा रहता। सबेरे या सायंकाल को यदि इन गाँवों में कोई पहुँच जाता, तो प्रत्येक घर से हवन का धूम आकाश में फैलता दिखाई पड़ता, उसकी सुगन्धि मन को तृप्त करती, कानों में गायत्री, रथन्तर-साम (गीत) के मधुर स्वर सुनाई देते। दस्युओं की भूमि के पास होने से भरतों और कुशिकों को सदा हथियारबन्द रहना पड़ता, पर यह उनके लिए अचिन्ता नहीं, प्रसन्नता की बात थी। भरत और कुशिक अपने को सौभाग्यशाली समझते थे कि इन्द्र ने अपनी विजय के लिए हमें छुना है। यसुना

पार के कृष्ण-त्वचों के लिए वह अपने को पर्याप्त समझते थे, आवश्यकता पढ़ने पर पुरुओं के सारे जन ही नहीं, बल्कि दूसरे आर्य जन भी साथ देने के लिए तैयार थे। यमुना पार दस्युओं की संख्या अधिक थी, वह साधनहीन भी नहीं थे। आखिर पश्चियों के दिये हुए हथियारों के बल पर ही तो आर्य सफलता की आशा रखते थे। ताम्र, सुवर्ण, मणि, मुक्ता सभी के स्वामी पश्चि थे। धन के अधिक लाभ तथा नागरिक जीवन ने पश्चियों को निर्बल बना दिया था, पर तो भी वह सर्वथा पौरुषहीन नहीं थे। यमुना के पूर्व पहाड़ के जड़ से भी दूर तक अनास (चिपटी नाक वाले) किलात रहते थे। यदि पश्चि और किलात मिलकर प्रहार करते, तो सरस्वती का तट उजाड़ हो जाता। पर, उनमें आपस में संघर्ष रहता था।

पुरुओं का हरेक जन असाधारण सूरियों (सूरमाओं) को पैदा करने में सफल हुआ। इन्हीं में वसिष्ठ पैदा हुए। इन्हीं में कुशिकों ने गाधिपुत्र विश्वामित्र को पैदा किया। भरतों ने देवश्रवा, देववात जैसे सपूत देकर सारस्वत भूमि को दस्युओं के आकमण से बचाया।

मित्रों, बन्धुओं का समागम सबको अन्धा लगता है, पर, आर्य-जन उसके लिए तो विशेष रूप से लालायित रहते थे। अपनी जीविका के लिए उच्चके अपने गौ, अश्व, अजा, अवि पर्याप्त थे। पर उनकी तो मान्यता थी—“केवलाधी भवति केवलादी” (केवल अपने आप खानेवाला केवल पाप खानेवाला होता है)। एक पिता के ही पाँच पीढ़ी में कितने परिवार हो जाते हैं। पुरुओं की तो पन्द्रह-बीस पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं, इसलिए उनका अनेक जनों, ब्राजों, कुलों में बैठना स्वाभाविक था। पर, अपने रक्त के साथ वह बहुत स्नेह रखते थे। कोई भी पौरव उनके लिए अपने घर का जैसा था, वैसे, आर्यमात्र के लिए घर का न्द्रवाजा खुला रहता था। अतिथि सचमुच उनकी हटि में देव था। उसकी उसी तरह श्रद्धा से परिचर्या करते, जैसे अग्नि की। इसीलिए हरेक आर्य-परिवार का अपनी शक्ति से अधिक दूध,

दधि, सत्त्, माँस का व्यय था। इसीलिए इन भोगों को अपनी जाति से मिन्न लोगों से छीनकर लाना वह धर्म समझते थे। जो सप्तसिन्धु के बीच में बसते थे, वह और न मिलता, तो दूसरे आर्यजनों की गायों को ही लूटते। बुलावा आने पर वह सीमान्त पर भी पहुँच जाते।

पुरुकुत्सानी और उनकी ननद—पौरवी में सभी बहिनों से भी अधिक स्नेह था। पौरवी अब तृत्सु जन के राजा वश्र्यश्व की रानी थी, इसलिए अपनी भाभी के साथ बराबर कैसे रह सकती थी? पर यह असमर्थता थी। दोनों का सौभाग्य उदय हुआ, जो भरतों की भूमि में उन्हें साल भर से अधिक रहने का अवसर मिला। यमुना पार के पणि, अज, शिशु और यजु—अभी आयों के सामने नतमस्तक नहीं हुए थे। पीत-केशों के पराक्रम को वह अच्छी तरह जानते थे, इसलिए भरसक संघर्ष करने से बचते थे। लेकिन, आर्य उन्हें शान्त रहने देना परान्द नहीं करते थे। फलतः उन्हें भी तैयार होना पड़ा। तीनों पणिजनों के सम्मिलित आक्रमणों को अकेले भरत रोक नहीं सके, इस पर पुरुओं के सारे जन उनकी सहायता के लिए पहुँचे।

सरस्वती के दोनों कक्ष तथा यमुना के पास के अरण्य में अब पुरुओं और तृत्सुओं के गोष्ठ थे, पणि टक्कर खाकर यमुना पार भाग चुके थे। उनकी गंगा (नदी) के किनारे के नगरों को भी आर्यजन लूट ले गये थे। पर, आयों के लिए यमुना के पूर्व की दुनिया अक्षात् थी। उन्हें नहीं मालूम था कि वह कितनी दूर तक है और पणियों की संख्या कितनी है। इसलिए यमुना से आगे पैर बढ़ाना उन्हें परान्द नहीं था। पणियों का भय बराबर था क्योंकि आयों के अत्याचारों का बदला लेना यह आवश्यक समझते थे। आर्यजनों के लिए अपनी भूमि से बाहर बरस-छु: महीने रह जाना कोई बात नहीं थी। उन्हें अरण्य की आवश्यकता थी। सत् और अपूप (रोटी) भी उनके खाद्य थे; पर थोड़ी ही मात्रा में; जिसका मिलना दुर्लभ नहीं था। इसीलिए

इस भूमि में पुरुषों के भिन्न-भिन्न जन और उनके जननायक पड़े हुए थे। एक-एक के पास हजारों पशु थे, इसलिए उनके डेरे दूर-दूर थे। अश्व जैसे शीघ्रगामी बाहन उनके पास थे, इसलिए पाँच-सात योजन उनके लिए कुछ घंटों की दूरी थी। आर्य नारियाँ पुरुषों की तरह ही बुद्धिमत्ता में दब थीं और शत्रु का सामना भी निर्भीकता से कर सकती थीं। इसी कारण कभी पौरवी व व्रियश्व के साथ पुरुषों के गोत्र (गोष्ठ) में पहुँचती और कभी छुँवर्ष के कशोजु एवं अपने पति को लिए पुरुषकुलानी ननद के गोत्र में पहुँचती।

त्रसदस्यु का नाम अब कशोजु पड़ गया था। पिछले साल की बात है। एक दिन शाम को सरस्वती के टेढ़े-मेढ़े तट के भीतर एक तरण सिंह छिपा हुआ था। त्रसदस्यु को कोडा लेकर बछुड़े-बछुड़ियों के पीछे दौड़ना बहुत पसन्द था। वह वैसे ही दौड़ रहा था कि आदमी की आबाज पा सिंह अपने छिपने की जगह से निकला। त्रसदस्यु ने इस नये जन्तु को देखा, और कशा (कोडा) लिए उसके पीछे दौड़ा। सिंह भागा जा रहा था, और बालक उसका पीछा कर रहा था। लोगों की नजर पही। डर गये। पुरुषों का भावी राजा काल के गाल में जा रहा था। लोगों ने दौड़कर उसको पकड़ा। उसके साहस से पुरुजन बहुत प्रभावित था और पारितोषिक के रूप में अब उसे लोग कशोजु, (कोडा लिए दौड़ने वाला) कहने लगे। माता-पिता पुत्र के इस बाल-पराक्रम पर मुग्ध थे।

बुद्धा कशोजु की कहानी अनेक बार सुनकर भी तृत नहीं हुई थी। दानों ननद-भाभियों में अभी एक ही सन्तान थी, इसलिए दानों का स्तोह उसी पर केन्द्रित था। उनको काम भी क्या था? आर्यजनों में कोई भी काम करना राजा-रानी और साधारण प्रजा में एक समान था। पुरुषकुलानी और पौरवी भी कलशों को लेकर अपनी गायों को दुइ लेतीं, उन्हें जंगल में हाँक ले जाती थीं। दूध गरम करना, दही-मक्कलन बनाना, जौ या दूसरी चीजों को दूध में डालकर अशिर तैयार

करना, यही नहीं गोष्ठों के कूड़े-कर्कट फेंकना भी उनके लिए त्वाज्य नहीं था। काम करने वालों की कमी नहीं थी। साधारण आर्य-परिवारों में भी पणि या निषाद जाति के दास-दासियाँ रहते थे। पुरुकुत्स और ब्रह्मश्व के कुल के बारे में तो पूछना ही क्या? पुरुकुत्सानी के पास किलात दासी आश्चर्य की चीज थी, क्योंकि अभी तक आयों के धरों में किलात दास नहीं देखे जाते थे। सात पुरियों के युद्ध के समय कोई बच्ची पढ़ी मिली। सैनिक उसे भी मारने के लिए उद्यत थे, इसी समय घोड़ा दौड़ाती पुरुकुत्सानी वहाँ पहुँच गयी। उसने उसे उठा लिया। अब वह आठ-नौ वर्ष की हो गयी थी, अधिकतर कशोजु के साथ खेलना उसका काम था। अबोध बालिका अभी समझ नहीं रखती थी कि उसके साथ कैसा वर्ताव किया जा रहा है। कभी-कभी शवला (काली) कहकर उसको भिङ्का जाता, तो उसे यह अवश्य मालूम होता कि मेरी गणना पीतकेशों में नहीं, कृष्णत्वचों में है। यह वर्ण (रंग) की रेखा को नहीं मिटा सकती थी, पर पुरुकुत्सानी का किलाती (किलात-पुत्री) पर वात्सल्य था। कशोजु और किलाती अपने खेल में लगे थे। ननद-भाभियाँ एक अश्वत्थ (पीपल) के नीचे बैठी मन बहलाव कर रही थीं।

वसन्त का समय था, कुछ बृक्षों के पत्ते गिरने लगे थे। कितने ही तो नंगे हो चुके थे, कितनों में नये पत्ते आ गये थे। अश्वत्थ के पत्र वैसे भी कोमल और बहुत चिकने होते हैं, नवीन पत्र तो शुक्रों के पंखों जैसे सुहावने मालूम होते थे। आयों के शरीर पर बारहों मास चमड़े या ऊन की पोशाक रहती थी, इसलिए जाड़े से उन्हें क्यों भय होने लगा। अपराह्न में गर्मी भी नहीं थी। दोनों सज-धज कर आयी थीं। ननद अभी किशोरी थी, भावज उसे सजाने में छानन्द अनुभव करती थी। पौरवी के पिंगल केशों को चार कपदों (वेणियों) में गूँथ-कर दो पीछे और दो कपोलों पर लटका दिया था। उसकी बड़ी-बड़ी नीली आँखें हर्षोत्सुल्ल हो अपनी भाभी की ओर स्नेह से देख रही

थीं। भाभी और भी स्नेह प्रतिदान करती हुई बोली—ननद, तू कितनी सुन्दर है?

—भाभी, तुम किससे कम हो? तुम्हारे लावण्य का बखान तो सारे सतसिन्धु में हो रहा है।

—पर मैं तो पुत्रबती हो चुकी हूँ, तू तो अभी कलोर है।

—पुत्रबती होना तो बड़े सौभाग्य की बात है, फिर तुम्हें कशोजु जैसा पुत्र मिला है।

—नहीं ननद, तू भी पुत्रबती होने ही वाली है।

—तब मैं भी पुरानी हो जाऊँगी।

—तेरी जैसी का सौन्दर्य इतनी जल्दी पुराना नहीं हो सकता। पैजवन (वध्यश्व) सचमुच बड़ा भाग्यशाली है, जो उर्वशी जैसी पत्नी उसे मिली।

—भाभी उर्वशी कैसी रही होगी, जिसके पीछे पुरुषवा पागल बना फिरा।

—बिलकुल तेरी जैसी। देखती नहीं, जहाँ पौरबी पहुँच जाती है, नर-नारी उसी की तरफ एकटक देखने लगते हैं। आर्यनारी का सौन्दर्य तेरे रूप में निखरा है। केशों को देखें या तुंग नासिका को, नीले नेत्रों को देखें या लाल अधरों को, चन्द्रखण्ड जैसे कपोलों पर दृष्टिपात करें या उन्नत श्वेत ललौट पर, शक्तिसम्पन्न सुधर बाहुलताओं को देखें या उनकी कोमल पतली अँगुलियों और आरक्ष करतल को। वह, कीट, जानु, जंघा (पिंडली) पादतल सभी इतने सुन्दर हैं, कि तेरी उपमा तू ही हो सकती है।

—इसीलिएँ मैं द्वितीय उर्वशी हूँ, क्यों?

—हाँ, पर वह उर्वशी नहीं है, जो पुरुषवा को खलाती रही।

—अपने प्रियतम से ऐसा निष्ठुर वर्ताव वह कैसे कर सकी?

—वह मानवी नहीं थी।

—पर दानवी भी तो नहीं थी। अप्सरा थी, देवांगनाओं में श्रेष्ठ थी।

—ननद तेरे मुँह से कितनी बार मैं उर्वशी का गीत सुन चुकी हूँ, पर तृप्त नहीं हेती। एक बार और सुना।

—लेकिन मैं तभी गाने के लिए तैयार हूँ जब तुम भी उस गान में साथ दो।

—कैसे?

—पुरुषवा की बातें मैं गाऊँगी और उर्वशी की तुम।

—नहीं प्यारी, तू उल्टा कहती है। उर्वशी लायक तू ही है। नारी सुलभ कोमलता का मुझमें अभाव है।

—भाभी, ऐसा क्यों कह रही हो। शौर्य और सौन्दर्य का अद्भुत गिरण तुम्हारे भीतर है, इसे सभी कहते हैं और तुम भी जानतो हो।

—अच्छा तो शौर्य की एकाधिकारिणी होने के कारण मैं ही पुरुषवा के गीत गाती हूँ।

दोनों ने उस स्थान से पुरुषवा की गाथा शुरू की जबकि उर्वशी तीन साल तक पास रह अपने पुत्र भरत को पैदा कर उसे छोड़ कर जाना चाहती है। पुरुषकुत्सानी ने पुरुषवा के करण स्वर में गाया—

हे जाया, हे धोरे (निष्ठुर) मन इधर कर, ठहर, हम आपस में बात करें। यदि हम दोनों मंत्रणा न करेंगे तो आने वाले हमारे दिन सुख के नहीं होंगे।

पुरुषकुत्सानी (उर्वशी)—इस हमारी बात से क्या प्रथम उषा-सी मैं तेरे पास नहीं आई?

हे पुरुषवा, अपने घर चला जा। वायु की तरह मैं दुर्लभ हूँ।

पुरुषवा—तेरे बिना मेरे तृणीर से बाण नहीं पैका जाता, श्री नहीं मिलती, सैकड़ों गौओं को मैं जीत कर नहीं ला सकता, बीरों-रहित मेरे कार्य शोभते नहीं। न (मेरे) योद्धा नाद करने की सोचते हैं।

उर्वशी—हे उषा, यदि वह उर्वशी श्वसुर का धन देने की इच्छा

करती तो पास के घर से शयन-घर में जाती और दिन-रात आराम से रहती। हे पुरुषवा, दिन में कै बार सुझे तू दरड से पीटता था। मेरा किसी सौत से भगड़ा नहीं था।

मेरे ही घर में तू आता था, तब हे सुबीर, तू मेरा अंग था।

पुरुषवा—जब पुरुषवा मानुष होकर अमानुषियों का सेवन करने के लिए बढ़ा, तो वह हरनी की तरह या रथ में जोते अश्वों की तरह भयमीत होकर भागी। जब (उसने) मरणधर्मा होते अमृताओं से सम्पर्क करने के लिए उसके पास जाने का प्रयत्न किया, तो वह अन्तर्धीन हो गयी, शरीर को नहीं दिखाया।

कीड़ा करते अश्वों की तरह भाग गयी।

पुरुषवा—विजली की तरह चमक धारण करती जो उर्वशी मेरी कामनाओं को पूरा करती थी। जिसने (मेरे लिए) सुजात मानुष-पुत्र जना, वह उर्वशी उसे दीर्घायु करे।

उर्वशी—हे पुरुषवा, तूने रक्षा के लिए ऐसे पैदा किया, मेरे में आज धारण किया। जानते हुए मैंने तुम्हे कहा था।

उस समय मेरी बात तूने नहीं सुनी, (अब) क्यों व्यर्थ बोलता है।

पुरुषवा—पैदा हुआ पुत्र (तेरी) इच्छा करेगा। क्या जानते हुए वह आँख नहीं गिरायेगा?

त्वेहयुक्त पति-पत्नी को कौन वियुक्त करेगा?

जो श्वसुर के घर में आग जल रही है, उसे कौन बुझायेगा?

उर्वशी—मैं तुम्हे बतलाती हूँ। वह (शिशु) तेरे पास आँख नहीं गिरायेगा न रोयेगा। मैं उसका कल्याण करूँगी, उसे मैं तेरे पास भेज दूँगी। तू घर लौट जा, तू सुझे नहीं पा सकता।

पुरुषवा—सूर (पुरुषवा) आज गिरेगा, अत्यन्त दूर जाके (वह) किर नहीं लौटेगा? वह आपदाओं के नीचे दबेगा, उसे भेड़िये बलात्-रक्षा जायेगे।

उर्वशी—हे पुरुषवा तू नहीं मर, नहीं गिर, न अशिव भेड़िये

नुक्ते खायें। स्त्रियों की मित्रता नहीं हुआ करती, (उनके) ये हृदय (नहीं) ये तो, शालाबृकों (मेडियों) के हृदय होते हैं।

दोनों के मधुर कंठ से भी निकले गीत के स्वर चारों ओर फैल रहे थे। पुरुखा-उर्वशी के वियोग का गान क्यों उन्हें पसन्द आया? वह बहुत करण था। गाते-गाते दोनों के नेत्र गोले हो गये, और पौरवी ने मानो अपने हृदय के विषाद को हटाने के लिए ही कहा:

—यह नहीं हो सकता। जियों के हृदय की उपमा भेड़िए से नहीं दी जा सकती जिसे एक बार हृदय अर्पित कर दिया, उसके साथ ऐसी निष्ठुरता नहीं बरती जा सकती।

पुरुकुत्सानी बोली—लेकिन, उर्वशी मानवी नहीं देव-कन्या, अप्सरा थी। वह देवलोक को कैसे छोड़ सकती थी?

—यदि किसी नारी को अपने लोक और प्रेमी में एक को चुनना हो, तो वह प्रेमी को ही छुनेगी।

पुरुकुत्सानी—देवों में हमारी तरह का एकान्त समर्पण नहीं है।

—मैं एकान्त समर्पण की बात नहीं करती। समर्पण दोनों तरफ से होता है। यदि दूसरी तरफ वैसा भाव न हो, तो मैं नारी को नारी बनने के लिए नहीं कहती। अच्छा भाभी, उर्वशी के पुत्र का क्या हुआ?

उर्वशी का पुत्र भरत था, जिसकी सन्तान भरत जन हैं।

—अर्थात् हमारे तृत्सु उसी भरत की सन्तान हैं। तो क्या वह अर्धदेव और अर्धमानव हैं।

—अर्धदेव और अर्धमानव कोई नहीं हो सकता। तृत्सु भरत पूरे मानव हैं। पुरुखा भी मनु की सन्तान।

किलाती के साथ खेलता त्रसदस्यु दूर चला गया था। शायद गाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, वह दौड़ा-दौड़ा आया। मैं से पहले ही बुआ ने गले से लगा लिया। बुआ के गीतों को वह बहुत

पसन्द करता था। उसने कहा—“हुआ, एक बार फिर गाओ!”

उसका आग्रह टाला नहीं जा सकता था। लेकिन, गीत को दोहराने से पहले पौरवी ने अपनी भाभी से कहा—

—भाभी, इसका नाम अर्धदेव क्यों न रखा जाय?

—कितने नाम रखोगी? क्या त्रसदस्यु और कशोजु पर्याप्त नहीं हैं।

—पर, मुझे अर्धदेव पसन्द आता है, मैं तो इसे, इसी नाम से पुकारूँगी।

पौरवी ने फिर एक बार पुकरवा की गाथा को अकेले गाकर सुनाया।

\* \* \*

पैजवन-केत (कुल) में आज आनन्द-उल्लास फैला हुआ था। वृद्ध श्रृतिविज, इन्द्र-अग्नि, इन्द्र-सोम, इन्द्र-वरुण की स्तुति गा रहे थे। प्रज्ज्वलित अग्नि में हवन हो रहा था। खियाँ मधुर करठ से गीत गा रही थीं। वश्र्यश्व को प्रथम पुत्र प्राप्त हुआ था। सरस्वती की गद्गद होकर वह बन्दना कर रहा था—सरस्वती ने पैजवन कुल को यह पुत्र प्रदान किया।

पुरुकुत्सानी पहले कशोजु के साथ आ गयी थी। पुत्रजन्म के दिन पुरुकुत्स भी पहुँच गया। बालक त्रसदस्यु चारों ओर के उल्लास को देखकर जानने की कोशिश करता था। पुरुकुत्सानी उसे यह कह कर समझाती थी—तेरा भैया आ रहा है। लेकिन, बालक की जिज्ञासा इतने से तृप्त थोड़े ही हो जाती। वह प्रश्नों को झड़ी लगा रहा था—कहाँ है मेरा भैया, दिखा? कहाँ से आया?

त्रसदस्यु बचपन ही से इन्द्र की महिमा सुनता था। महान् इन्द्र भैया को भेजू रहा है, यह उत्तर उसे पर्याप्त मालूम हुआ। लेकिन, वह बड़ी अधीरता से नये भैया के देखने की प्रतीक्षा में था और नये शिशु को देखने वालों में वह पहला था। सफेद गोल-गोल लोंदा-सा देखकर

उसे पहले सन्तोष नहीं हुआ। शिशु की आँखें मुँदी हुई थीं। जिसे वह समझने लगा, शायद उसकी आँखें नहीं हैं। पर, माँ और फुआ ने समझाने की कोशिश की—तू भी जब महान् इन्द्र के पास से आया था, तो ऐसा ही था।

सरस्वती-तट पर रहते ही त्रसदस्यु ने नवजात शिशु की खुली आँखें देखीं, जो उसकी माँ की तरह नीली थीं। त्रसदस्यु की माँ सुवर्णची थी, पर फुआ नीलान्धी। खड़े होने तक के लिए पुरुजन सरस्वती के किनारे नहीं रह सका, पर त्रसदस्यु ने अपने नवागत भाई को आँखें खोलते गूँगाँ करते देखा। चेहरे का आकार-ग्राकार अब वही नहीं था। उसका नाम दिवोदास रखा गया। दिवोदास बेचारा अभी समझता भी न था, पर त्रसदस्यु दिन में पचास बार दिवोदास कहकर पुकारता था। उसकी गोद में शिशु को देना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी-कभी किलाती की गोद से लेकर वह अपना वात्सल्य प्रकट करता। बालक-सुलभ भाषा में कहता—दिवो, कोई बात नहीं, तू भी बढ़ा हो जायेगा, मेरे जैसा। फिर हम दोनों खेला करेंगे। बछेड़ों को पकड़ेंगे, मुँह में लगाम देकर उनकी पीठ पर चढ़ेंगे। डरने की बात नहीं। मेरी नना (माता) खूब धोड़ा दौड़ाती है। उसका धोड़ा बहुत बढ़ा है। मैं तो उसके पेट को भी नहीं छू सकता। देखा, वह कैसे कूदकर उस पर चढ़ जाती है। मैं भी चाहता हूँ। मुझे बछेड़ा पहचानता भी है। हाँ, वह, मेरा मुँह सूँधता है, उसी तरह जैसे नना। समझ रहा है ना?

दिवो के 'भूँ' को त्रसदस्यु ने समझा, हूँ कर रहा है। फिर वह उससे बातें करने लगा—इम दोनों बड़े हो जायेंगे, तो जानता है क्या करेंगे? खूब अश्व दौड़ाएंगे। कैसा अश्व पसन्द करेगा? लाल या सफेद? हम दोनों के धोड़े एक ही रंग के होने चाहिए!

दिवो ने फिर 'भूँ' किया, त्रसदस्यु ने; अपनी बात जारी रखी—हाँ, ठीक कहा। हम दोनों के अश्व एक ही रंग के रहेंगे। पुरुओं के पास

बहुत अच्छे-अच्छे घोड़े हैं ! मैं उन्हें पसन्द करूँगा । बछड़े का रंग लाल । खेलते-खेलते वह हमारे दोस्त बन जायेंगे । फिर उन्हीं पर हम सवार होंगे ।

दोनों के बार्तालाप में विध्न ढालने के लिए मातायें तैयार नहीं थीं ।

पुरुषों के उत्तर जाने के कुछ दिनों बाद तृत्सु भी पश्चिम की ओर चले गए । पौरवी को पुरुषों का वियोग दुःखदायक लगा और जब सरस्वती को छोड़ने का दिन आया, तो उसका दिल भारी हो गया । सरस्वती ने उसे पुत्र प्रदान किया था । सरस्वती के लिये हवन करते उसने हृदय से कृतशता प्रकट करते कहा—माता सरस्वती, तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूँगी । दिवोदास मेरा नहीं, तुम्हारा पुत्र है । इसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है । पैजवन कुल के गौरव को कायम रख सके, इसके योग्य बनाना ।

उस दिन भरतों की ओर से भोज हुआ । दैववात भारत ने सैकड़ों वृषभ पकाये, सोम की तो मानो नदी वहा दी । सायं सवन के बाद जो भोज और नाच-गाना आरम्भ हुआ तो भिनसार तक वह चलता रहा । तृत्सु और भरत नर-नारी भारी संख्या में इस भोज में सम्मिलित हुए । सबेरे सूर्योदय के होते ही तृत्सु चले गये । उनके गोष्ठों का सूनापन कितने ही दिनों तक भरतों को उदास करता रहा । पर आयों का जीवन सदा एक जगह रहने का नहीं था । उसमें संयोग-वियोग होते ही रहते थे । बन्धु-प्रेम और अतिथिपरायणता ऐसी बातें थीं, जो उन्हें मिलने का प्रायः अबसर दे दिया करती थीं । युद्धों के कारण भी वह प्रायः एकत्रित हो जाया करते थे । साल भर की प्रतीक्षा के बाद मालूम हो गया, बमुना के पार के पश्चि फिर भरतों की भूमि पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं रखते, इसीलिए अब सरस्वती के किनारे आगन्तुक जनों के रहने की आवश्यकता नहीं थी ।

बीस महीने से परम्परा का तट वध्र्यश्व पैजवन देख नहीं पावा था । सरस्वती के लिए उसके हृदय में स्नेह और भक्ति थी । पर

परुष्णी (रावी) उसकी अपनी माता थी। सरस्वती को वह स्नेहमयी मौसी का स्थान दे सकता था, यद्यपि वह यह कह कर सरस्वती देवी को रुष्ट नहीं करना चाहता था। पर, कहाँ परुष्णी और कहाँ सरस्वती। परुष्णी की धार गमियों में भी बढ़ जाती थी, जाङों में भी वह विशाल थी, जिसके स्वच्छ निर्मल जल के भीतर बालुका-कण फिलमिल फिलमिल चमकते थे। उसमें तैरने में विशेष आनन्द आता था। सरस्वती की क्षीण धार को, तो जान पड़ता था, आदमी कूद कर भी पार हो जाये। परुष्णी की धार में तैर कर पार करने में पूरा व्यायाम हो जाता था और पार जाना सभी के वश की बात नहीं थी। वध्र्यश्व को यह भी भली-भाँति मालूम था कि परुष्णी पर इन्द्र की बड़ी कृपा है। उषा देवी से छेँड़छाड़ करते एक बार इन्द्र ने उसके शक्ट के चक्के को परुष्णी के किनारे गिरा दिया था। सरस्वती के किनारे जब हजारों गाय-घोड़े आ जाते, तो डर लगता, वह कहीं सारे पानी को न पी जायें, पर परुष्णी का जल क्या कभी कम होने वाला था? इतने दिनों के बाद परुष्णी के जल के स्पर्श से वध्र्यश्व को विचित्र आनन्द मालूम होता था।

दिवोदास छः ही महीने का था, जब वह सरस्वती की गोद छोड़ कर चला आया था। उसकी उसे क्या याद आ सकती थी? पर नना सरस्वती के प्रति बड़ी कृतज्ञ थी। वह अपने पुत्र के कानों में बराबर सुनाती रहती थी—“सरस्वती तेरी माता है, उसने तुझे हमें दिया।” इसके साथ सरस्वती सम्बन्धी कुछ श्रुचाएँ भी वह बड़े मधुर स्वर से गाया करती। दिवोदास को सरस्वती नदी के तौर पर नहीं बल्कि देवी के तौर पर याद रह गयी। पर, उससे बढ़ना परुष्णी के किनारे था।

मातुलपुत्र त्रसदस्यु कितनी ही बार अपनी ही माँ के स्थान पैजवन केत में आता। इस समय दोनों ही बालक साथ खेला करते, पर दोनों की आशु में सात वर्षों का अन्तर था, इसलिए वह एकता स्थापित नहीं हो सकी थी जो समवयस्कों में होती है। त्रसदस्यु ने

पाँच वर्ष की आयु में कशोभु की उपाधि प्राप्त की, तो दिवोदास भी निर्मीकता में कम नहीं था। शरीर के आकार और बल में वह अपनी आयु के लड़कों से सदा दो साल बड़ा मालूम होता। नना को इसके लिए बड़ा अभिमान था। जिस तरह उसका पुत्र बढ़ता जा रहा था, उसी तरह नना की देवताओं में भक्ति भी बढ़ती जा रही थी। यद्यपि तीन साल बाद पौरवी को एक और पुत्र सुमित्र पैदा हुआ, पर वह दिवोदास से माता के स्नेह को बढ़ाने में सफल नहीं हुआ। शायद इसका कारण दिवोदास का अधिक शरीर-सौन्दर्य, बल और प्रतिभा-शाली होना था।

त्रिदस्तु और दिवोदास अपने लिए बछेड़ों को नहीं चुन सके। पर दिवोदास का बछेड़ों से बहुत शौक था। चार वर्ष की उम्र में ही वह एक बछेड़े की पीठ पर चढ़ गया और दौड़ने पर जब जमीन पर गिर पड़ा, तो जरा भी नहीं रोया। पिता को हथियार बाँध कर बाहर जाते देख दिवोदास भी मचल पड़ा और उसका हठ इतना जबर्दस्त था कि उसे पूरा ही करना पड़ता। उसके लिए छोटा-सा अयःशिप्र (ताँबे का शिरस्त्राण), छोटा सा धनुष और इषुधि, यहाँ तक कि छोटी-सी असि भी बना देनी पड़ी थी। उन्हें पहन कर वह लघु ब्रह्मशब्द बन जाता। ब्रह्मशब्द यद्यपि पुरुषों के मुख्य जन का नायक नहीं था। वह सौभाग्य तो उसके साले पुरुषकुत्स को प्राप्त था। परवैयक्तिक शौर्य के कारण वह सप्तसिंहु में एक ऊँचा स्थान प्राप्त कर चुका था। युद्ध में एक कुशल सेनानी था। एक बड़े योद्धा के कारण ही उसकी प्रसिद्धि नहीं थी, बल्कि सभी जनों की समृद्धि की कामना करते हुए वह सबके लाभ के लिए प्रयत्नशील था, और आपसी भगड़े को मिटाने में सदा सफल रहका। उसके पहले तृत्सु जन और पैजबन राजकुल की स्थिति बहुत कँच्ची नहीं थी। परम्परी के तट की उर्वर भूमि—जो द्वेषों और महान् अरण्यों से ढँकी थी—ने उसके गो-अश्वों को बड़ा कर समृद्ध बनाने दिया था; तो भी ब्रह्मशब्द के अपने निजी गुण यदि अधिक न

होते तो उसका प्रताप इतना न बढ़ता। इस उत्कर्ष से पड़ोसियों को ईर्ष्या भी कमी-कमी होती थी। पुरु नहीं चाहते थे कि हमारी एक शाखा (तृत्सु) हमसे समानता का दावा करे। तुर्बंसु, यदु, अनु, द्रुष्टु भी तृत्सुओं और उनके राजा को पुरानी दृष्टि से देखना चाहते थे। पर, वश्र्यश्व उनकी ईर्ष्या को आगे बढ़ने नहीं देता था। यदि वह अपने योद्धापन का अभिमान करता, तो अवश्य पड़ोसियों के कोप का भाजन बनता। परन्तु वह तो सबका मित्र, सबका बन्धु था। उसके गोत्र में सब का दिल खोलकर स्वागत होता। आर्यजनों के सैकड़ों अतिथि प्रति दिन उसके साथ भोजन-पान करते। अपनी स्वाभाविक बन्धुता के कारण वह शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता। दिवोदास पिता के इस जीवन का अंग होते बढ़ने लगा।

जाहों में वश्र्यश्व का गोत्र उच्चर में ऐसे स्थान में चला जाता, जहाँ से उच्चर के बृहत् पर्वत दूर नहीं रह जाते। दिवोदास अपने पिता से इनके बारे में पूछता। वस्तुतः पर्वतों के देखने का उसे कई सालों तक अवसर नहीं मिला था। भरतों की भूमि में पर्वत नहीं थे। मातुलकुल के उच्चरी छोर पर बृहत् पर्वत अवश्य थे, पर उन्हें देखने का उसे अवसर नहीं मिला था। पहले-पहल उन्हें देखकर उसे मालूम हुआ कि यह भी मेघ है। नना ने बतलाया—“मेघ नहीं, यह पर्वत हैं। मेघ पानी के बने होते हैं और यह पत्थर के बने हैं।” पीछे तो हर साल उसे पर्वतों के पास जाना पड़ता। कमी-कमी उसकी इच्छा पर्वतों में बुसने की भी होती, लेकिन पिता-माता भना कर देते। वहाँ क्या भय की चीज हो सकती है, यह दिवोदास की समझ में नहीं आता था। फिर कहा जाता—जहाँ इन बृहत् पर्वतों में देव, गंधर्व और अप्सराएँ रहती हैं। पर, दिवोदास के लिए वृक्षभय की वस्तु नहीं थी। वह उनको सम्मान दिखाने के लिए तैयार था। वह भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, यह उसे मालूम था। फिर माता ने बतलाया वहाँ पिशाच रहते हैं, जो आदमी को पकड़ कर खा-

जाते हैं। बहुत बर्धों तक उसे समझ में नहीं आया कि पिशाच क्या चीज़ है? आर्यों से भिन्न शरीर के वर्ण-आकृति वाले आदमी उसने देखे थे। भूरे पणि और काले निषाद तो उसके अपने घर में दास-दासियों की तरह रहते थे। अपने मातुलकुल में उसने दासी किलाती को भी देखा था, जो अब तरुणी हो चुकी थी। लेकिन, पिशाच मानव नहीं है, यह भी वह सुनता था। इसलिए वह उनके आकार-प्रकार को अपनी आँखों के सामने चित्रित नहीं कर सकता था। पिशाच के देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी। हमारे आसपास में भी रात-बिरात वही पिशाच आ जाते हैं, यह उसे नहीं बतलाया गया था। माता-पिता अपने पुत्र को निर्भीक रखना चाहते थे, इसलिए भयभीत होने का कोई अवसर उपस्थित नहीं होने देते थे।

उस छोटी आशु में दिवोदास को मृगया में जाने का कहाँ मौका मिलता? पर, वह अपने धनुष-बाण को बराबर लिए धूमता, और जब सियार, लोमड़ी अन्धेरे-उजाले में कभी दिखलाई पड़ते, तो तीर छोड़े बिना नहीं रहता। उसका तीर ऐसा सधा होता, कि ठीक लक्ष्य पर जाता। उसके तीर के फल न तेज थे, न उसके धनुष में इतना बल या कि लक्ष्य का कोई नुकसान होता, पर अपनी इस सफलता पर उसे बड़ी प्रसन्नता होती।

## ३. 'अश्व-समन'

( १२०५ इ० पू० )

"धन्वना गा धन्वनावि जदेय"

**ब**सन्त की श्रृंगु थी । परम्परी का जल नीले रंग का था । धारा यद्यपि वर्षा की तरह विस्तृत नहीं थी, पर काफी चौड़ी थी । दोनों तटों पर कितनी ही दूर तक बालुका थी । फिर तुणांच्छादित समतल भूमि और उसके बाद घना जंगल था । समन ( मेले ) के लिये खास तौर से जंगल साफ करके एक योजन लम्बा और कोस से अधिक चौड़ा यह मैदान बनाया गया था । इसी साल के लिये यह खास तौर से नहीं तैयार किया गया था, तुसुओं को हर साल इसकी आवश्यकता पड़ती थी । क्योंकि यही उनका वार्षिक अश्व-समन होता था । उसमें सौर पुरु-सम्बन्धी जनों और पुराने पंचजनों में बाकी चार—यदु, तुर्वश, अनु, द्रुष्टु भी सम्मिलित होते थे । छोटे बड़े आर्य जन की यात्रा बिना अपने पशु-घन के नहीं हो सकती थी । वही उनके पाथे थे और उन्हीं के बदले आवश्यक चीजें वह प्राप्त करते थे । इस साल सप्त-सिन्धु के सभी जनों को वश्रयश्व ने आमंत्रित किया था । समन का स्थान यद्यपि वही लम्बा-चौड़ा मैदान था, पर हरेक जन और उसके ब्राज अरण्य में दूर-दूर तक डेरा डाले हुये थे । समन का मुख्य कार्य मध्यैन्दिन सधन के बाद अपराह्न में होता था, जब कि कहीं मल्ल युद्ध और मुष्टियुद्ध होता, कहीं रथों की दौड़ होती और कहीं तरुणा-तरुणियाँ रृत्य भी रुचाते थे । प्रातःकाल यद्यपि उषा के आगमन के साथ सभी तरुण नहीं

उठ बैठते थे, पर उषा की स्तुति करनेवालों की संख्या कम नहीं थी। सारे आर्य जानते थे, कि यहीं पश्चणी (रावी) के बायें तट पर छेड़-छाड़ करते इन्द्र ने उषा के शकट के चक्र को गिरा दिया था। वह स्थान उनके लिये अल्पन्त पवित्र था, क्योंकि उषादेवी अपने भग्न चक्र के लिये बहुत स्नेह रखती थी। सूर्य के रोहित गोलाधि के बाहर आते ही सविता की स्तुति से सारी स्थली प्रतिष्ठनित हो जाती। फिर अपने-अपने साथ लाये अग्नि को प्रज्ज्वलित कर प्रत्येक कुल हवन करता, अग्नि की प्रार्थना करता। अग्नि के लिये प्रस्तुत किये गये पुरोडाश और सोम का यज्ञशेष-ग्रहण करते। फिर लोग दूसरे-दूसरे कामों में लग जाते। पशुओं के चरने के लिये विशाल जंगल थे। जहाँ लाखों पशु एकत्रित हों, वहाँ कुछ का एक रेवढ़ से दूसरे रेवढ़ में मिल जाना आसान था। इसीलिये हरेक कुल और ब्राज ने अपने पशुओं के नितम्बों पर विशेष चिह्न दाग रखे थे।

वैसे तो आर्यों के सभी पशु सुपुष्ट और बड़े-बड़े थे। पर, गौओं के बारे में भरत और कुशिक सबसे आगे बढ़े हुये थे। अश्वों के लिये पश्तों और भलानसों, मंधारि और अलिनों के रेवढ़ दर्शनीय थे। उनके कितने ही थोड़े तो इतने महाकाय थे कि जिन्होंने नहीं देखा, वह विश्वास भी नहीं कर सकते थे। इनके देखने के लिये लोगों की भीक लगी रहती।

यह सारे सप्त-सिन्धु के आर्यों का समन था। पर सप्त-सिन्धु में केवल आर्य ही नहीं रहते थे। वहाँ पश्यियों के स्थायी नगर और गाँव थे। साधारण-से-साधारण पीतकेश (आर्य) के सामने भी आद्य-से-आद्य पश्यियों को सिर झुकाना पड़ता था। वह राह चलते, बिना कारण भी पिट जाते थे, पर प्रतिवीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह आर्यों के शासन के अधीन थे। आर्य पश्यियों से बहुत मिल जाते हुये थे। पश्यि ऋतु के अनु-सार अपने कपड़े को बदल कर पहनते थे। गर्मियों में वह सूती कपड़े पहनते, जिसे आर्य बड़ी तुच्छ हाथि से देखते थे। जाड़ों में पश्यि गन्धारि

मेहों के कोमल ऊन के बने कंचुक पहनते। पश्यियों में अधिकांश अत्यन्त गरीब और निरीह थे। उनकी काफी संख्या आयों के कुलों में दास-दासी के तौर पर रहती थी, जिनकी स्थिति पशुओं से बेतहर नहीं थी। किसी भी धनिक पश्यि के सोने-चाँदी, अन्न-धन को छीन लेने का अधिकार आयों को था, पर वह सर्वनाश नहीं करते थे। क्योंकि तब पश्यि अपने व्यापार-न्यवसाय को नहीं कर सकते। पश्यियों के पश्यन (व्यापार) से सबसे अधिक लाभ उनके स्वामियों (आयों) को था। आर्य यद्यपि अपनी जीविका के लिये पशु-पालन और युद्ध को ही उचित मानते थे, पर उनमें सोने-चाँदी, मणि-मोती पहनने का रवाज हो चला था, विशेष कर उनके राजा और सूरि कानों भैं बहुमूल्य कर्णशीभन पहनते, हिरण्य वज्र होते थे। पश्यि शिल्पकारों ने बतला दिया था कि सोने के तारों से खचित और मोतियाँ लटकी उनकी बनाई ऊनी या चमड़े की द्रापि अधिक सुन्दर होती है। आर्य श्रांगनाये मणिमुक्ता और सुवर्ण के ओपश (मथटीका) बहुत पसन्द करती थीं, यद्यपि उनके पहनने का सौभाग्य बहुत कम को था। आमृषण के अतिरिक्त भातुओं के पात्र, अख-शख, नाना प्रकार के ऊनी बज, तथा पचासों शौकीनी की चीजें पश्यियों से ही प्राप्त होती थीं। अवसर पढ़ने पर पश्यियों के पशुओं के रेवढ़ भी आयों के थे। इसलिये आयों का इसमें स्वार्थ था, कि पश्यि इस तरह न लुट जायें कि अपने कारबार से हाथ इटा लें।

आर्य यद्यपि अपने ही भोजन-परिधान को पसन्द करते थे, पर स्वाद बदलने के लिये उन्हें पश्यियों के भोजन से भी परहेज नहीं था। यहाँ समन में पश्यियों की हाट में नाना प्रकार के भोजन बिक रहे थे। सबसे अच्छी सुरा बहीं मिलती थी। आर्य सुरा पीने से नहीं इन्कार करते थे। पर उनका सबसे पसन्द पेय सोम (माँग) था। इसमें संदेह नहीं कि सोम तैयार करने में जितनी आर्य-छियाँ निपुण थीं, उन्हीं पश्यियानियाँ नहीं। सोम के साथ इतना पक्षपात और सुरा के प्रति इतनी अवहेलना क्यों? असल प्रयोजन तो नशा से था, जो दोनों ही

में था, बल्कि सुरा थोड़ी मात्रा में भी अधिक नशा देने वाली थी। शायद सुरा का स्वाद कट्ठ होना भी उसकी अवहेलना का कारण था। सुरा की कडवाहट को बहुत अभ्यास से दूर किया जा सकता था, पर मधु और क्षीर मिश्रित सोम पीने के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वभावतः स्वादिष्ट और मदिष्ट था। आर्य अपने धन का विक्रय नहीं करते थे, यह बात नहीं थी, पर वह बहुत सीमित था और आर्य-आर्य के लिये तो उसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी। पश्चियों की बीथियों में किसी चीज को खरीदने के लिये वह अपने गाय या घोड़े नहीं ले जाते थे। इससे बदलने की तभी आवश्यकता पड़ती थी, जब भारी मात्रा में चीजों को खरीदना पड़ता। ऐसा अवसर समन के अन्तिम दिनों में आता। छोटी-मोटी वस्तुओं के लिये यहाँ ताम्रखंडों का उपयोग होता, जिनका भार और मूल्य निर्धारित था। यह निर्धारण पश्चियों ने ही पहले से कर रखा था, जिसको आयों ने भी सीख लिया। आयों के वहाँ दस की संख्या प्रधान थी। दस तक गिन कर फिर वह एकदम द्वादश और दोबारा दसको दिशा, तीन बार दसको दिशा आदि गिनते शत और सहस्र तक पहुँचते, पश्चियों में दूने चौगुने, अथवा एक सोलह के क्रम से नाप और गिनती प्रचलित थी। क्रय-विक्रय सिखलाने वाले उन्होंने अद्वा-पौवा की गिनती भी आयों को सिखलाई। समन यद्यपि पीतकेशों का ही था, पर क्रय-विक्रय के आपण पश्चियों के थे, जो आयों के लिये कम आकर्षण नहीं रखते थे।

त्रसदस्यु अठारह वर्ष को पारकर अब उन्नीसवें वर्ष में था। अपने फूफा की ओर से होते इस समन में वह आये बिना कैसे रह सकता था? उसके पिता पुरुकुत्स को यद्यपि अपने भगिनीपति के उच्च उत्कर्ष से प्रसन्नता नहीं थी। पुरुषों का राजा होने से वह अपने को सत्स-सिन्धु का सबसे बड़ा पुरुष और सबसे ऊँचे सम्मान का अधिकारी समझता था। लेकिन, देख रहा था, लोग वन्द्र्यश्व की उससे कम प्रतिष्ठा नहीं करते। यदि वन्द्र्यश्व ने सब मित्रता का गहरा पाठ न पढ़ा होता, तो साले-

बहनोई में अवश्य ठन जाती। वश्र्यश्व अपने साले के पुत्र पर उतना ही स्नेह रखता, जितने अपने ज्येष्ठ पुत्र दिवोदास पर। त्रसदस्यु अब तरुण था वह आर्य सूरि के सारे कर्त्तव्यों को पूरा कर सकता था। पर, दिवोदास अभी बारह वर्ष का बालक था। शरीर से चाहे वह अधिक मालूम होता, पर था तो बालक ही। त्रसदस्यु सदा उसे साथ लिये फिरता। दोनों को अश्वों का बड़ा शौक था। उन्होंने मुना, पख्तों, (पठानों) के अश्व सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वह एक पख्त सूरि (राजकुमार, सरदार) के आवास को खौजने निकला। आवास मीलों तक पढ़े हुये थे, पर पख्त सूरि के डेरे का पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दोनों ही लाल रंग के धोड़ों पर चढ़े पख्त आवास में पहुँचे। भाड़ी के साथ उन्होंने अपने धोड़े बाँध दिये। दोनों की वेष-भूषा से ही पता लग जाता था, कि वह कोई सूरि है। सूरि हो या साधारण पुरुष, आर्यों में सम्मान आदि में एक तरह की समानता देखी जाती थी। राजकुमार भी आयु में अपने से बृद्ध को सिर नवाता था। त्रसदस्यु के पूछने पर मालूम हुआ, यह पख्त सूरि रोहिदश्व का आवास है। रोहिदश्व ने दोनों पख्तों को काफी भीड़ से साथ आते देखा तो स्वागत के लिये तैयार हो गया। त्रसदस्यु ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन करते हुये त्रसदस्यु कुत्स पौरव के नाम से वश्र्यश्व-सूनु पैजबन के नाम से अपना और दिवोदास का परिचय दिया। रोहिदश्व ने त्रसदस्यु को पहले अपनी बाँहों में पकड़ कर गाढ़ालिंगन करते हुये ललाट का आघाण्य (सूँधना) किया, फिर दिवोदास को गोद में उठाकर उसका कितनी बार चुम्बन और आघाण्य किया। त्रसदस्यु ने कहा—

आर्य, अपने पख्त आर्य के दर्शन के लिये हम आप के पास आये हैं।

पैजबन के तो हम यहाँ अतिथि हैं, हमें ललाट अपके सामने कहना पड़ता है, कि भ्राता वश्र्यश्व ने हमारी सुख-सुविधा का पूरा प्रबंध किया है। यहाँ हमारे गो-अश्व वैसे ही स्वच्छन्दतापूर्वक विचर रहे हैं, जैसे पख्तों की भूमि में। हमारे नर-नारी भी तृत्यु भूमि को

अपनी भूमि जैसा ही सुखद पाते हैं ।

तो आर्य, परल भूमि भी भरतों की भूमि जैसी ही है ।

रोहिदश्व ने खड़े-खड़े बात करना पसन्द नहीं किया । वह दोनों का हाथ पकड़े अपनी पर्णशाला में ले गया, जो हाल ही की बनी थी । अभी भी उसके पत्ते और लकड़ियाँ हरी थीं । शाला के भीतर पहुँचने पर रोहिदश्व की पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र और एक पुत्री ने स्वागत किया । दिवोदास ने भी अग्रज का अनुगमन किया । उसदस्यु ने रोहिदश्व पत्नी का चरण स्पर्श कर नाम-गोत्र बतलाते हुये नमस्कार किया । दिवोदास ने भी अग्रज का अनुगमन किया । पत्नी ने दोनों को उपाधारण कर आशीर्वाद दिया । वह बिछु कम्बल पर बैठ गये । शाला में जितने आ सकते थे उतने दूसरे परल नर-नारी भी बैठ गये । उसदस्यु और दास जानते थे कि परल भी हमारी तरह आर्य हैं, परलों के बाल भी उन्हीं की तरह सुनहले थे । हाँ, उनमें सभी की आँखें नीली थीं । केशों में किसी-किसी के रुपहले भी थे । उनको मालूम नहीं था कि यहाँ उने हुये परल आये हैं, नहीं तो अतिशयोक्ति करते हुए न समझते कि सभी परल पुरुओं से अधिक हीर्घकाय होते हैं । परल भी उसी तरह अधोवस्थ, द्रापि तथा सिर पर उष्णीष पधारण करते थे, जैसे की पुरु, पर उनमें अधिक सादगी थी । रोहिदश्व की द्रापि में कहीं सोने का स्पर्श नहीं था, न उसके उष्णीष में श्वेत ऊनी पट से लपेटे रहने के सिवा कोई दूसरी चीज थी । रोहिदश्व की आयु पचास के करीब रही होगी । उसकी लम्बी दाढ़ी के पीले केशों में कुछ सफेद हो चले थे पर, स्वास्थ्य और शरीर की पुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं थी । परलनियाँ दोनों तरणों को एकटक नेत्र रही थीं । दोनों बहुत सुन्दर थे, इसमें सन्देह नहीं । साथ ही वह भी जानती थी, कि यह प्राची (सप्त-सिंधु) के दो बड़े-बड़े राजाओं के पुत्र हैं । पुरुओं का नाम परल भी बड़े सम्मान से लिया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि पश्चियों को असुरों के विशाल

क्रूर जगत से पुरुषों को ही मुकाबिला करना पड़ता है। रोहिदश्व ने फिर बात शुरू की।

परत जन यहाँ से बहुत दूर रहता है।

लेकिन, स्नेह दूरी को दूर कर देता है।

हाँ, हमारी नसों में एक ही अधिक बह रहा है।

हम, आर्य भूमि के पूर्वी अन्त पर रहते हैं, और आर्य उसके पश्चिमी छोर पर। रोहिदश्व ने बीच में बात काटते हुये कहा—नहीं पुत्र, पूर्व में शायद पुरुषों के बाद आर्य-भूमि समाप्त हो जाती है, पर पश्चिम में परतों के साथ सप्तसिन्धु भले ही समाप्त हो जाये पर आर्य-भूमि समाप्त नहीं होती।

तो क्या उसके और आगे तक आर्य पाये जाते हैं?

हाँ, हमसे दूर उत्तर में कुछ रहते हैं, और पृथु-पशु जो सप्तसिन्धु में आ बसे हैं, उनका बड़ा भाग हमसे पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रहता है। पृथु पशुओं की भूमि में मैं एक-दो बार गया हूँ। कुछओं में जाने का मुक्ते अधिक अवसर मिला है।

तो प्राचीन (पश्चिम) में सुदूर भूमियों में रहने वाले आर्य भी हमारी ही तरह के हैं।

देश-मेद से कुछ अन्तर तो सभी में हो जाता है।

हाँ, हम सभी पुर सन्तान हैं, पर हमारे तुलस्त्रों, भरतों, कुशिकों में भी कुछ अन्तर अवश्य है, जिसके कारण हम एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। कुछ अपने कपर्द (जूँड़े) अलग ढंग से बांधते हैं। कोई दक्षिणातः कपर्द है, कोई वामतः कपर्द और कोई ऊर्ध्व-कपर्द।

यही बात है। जितना ही पश्चिम जायें, उतना ही आर्य अधिक सीधी-सादी पोशाक धारण करते हैं। उनके कपर्द हमारी तरह उनी होते हैं, पर वह अधिक मोटे होते हैं। उसका अर्थ रुखा-खूला या अभद्र नहीं। भरतों और पुरुषों की भूमि में प्रति वर्ष हिम-पात नहीं

होता है, यदि कभी हुआ भी तो वह नहीं के बराबर। पर, ऊपरी पख्त भूमि में प्रति वर्ष हिमपात होता है, हाथ-दो-हाथ जमीन हिम से आच्छादित हो जाती है। कुरुओं की भूमि का तो नाम ही तुषारभूमि है। वहाँ चार-पाँच मास के लिये बुज्ज नंगे हो जाते हैं, धरती दूध-सी सफेद हिम की मोटी तह से ढैंक जाती है। अधिक सर्दी के कारण ही वहाँ के आर्य नहाने-धोने में बहुत संकोच करते हैं। यहाँ के लोग तो यही समझते हैं कि वहाँ पख्त कभी शरीर पर पानी नहीं पड़ने देते। उनके शरीर से दुर्गन्ध आती है।

नहीं आर्य, आप क्या कह रहे हैं? हम ऐसा नहीं समझते।

मधुर भाषी का अर्थ द्रोघवाच (भूठे) न समझें आर्य!

रोहिदश्व ने दाँत की सफेद बत्तीसी दिखाते हैं सकर कहा—हमारे प्राची के आर्य बड़े मधुर-भाषी होते हैं।

रोहिदश्व ने समझ लिया, तरण को मेरे वचन से कुछ दुःख हुआ है, इसलिये उसने अधिक स्नेह दिखाने के लिये उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा—

—नहीं सूतु, आर्य सदा और सर्वत्र अद्रोघवाच होते हैं। उनके लिये द्रोघवाच कहने से बढ़कर कटुवचन नहीं हो सकता। मेरा आर्यथा, प्राची के आर्य सुनृतवाक् होते हैं। वह वचन सच बोलते हैं और मीठी भी। पख्त चाहें जाड़ों में स्नान न करें, पर गर्मियों में नहाते खूब हैं। हाँ, हम से पश्चिम के कुरुओं और दूसरों के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती।

आर्य, पख्त अश्वों की हम बड़ी प्रशंसा सुनते हैं। क्या कुरुओं के और पृथुपशुओं के अश्व भी ऐसे ही होते हैं।

रोहिदश्व ने त्रसदस्यु का हाथ पकड़ कर उठते हुये कहा—चलो, मुँह से प्रशंसा करने की जगह हम तुम्हें कुरुओं के अश्व दिखलायें।

त्रसदस्यु और उससे भी बढ़कर दिवोदास के लिये इससे अधिक खुशी की कोई चीज नहीं हो सकती थी। वह शाला के बाहर निकल

आये। जंगल की ओर कुछ दूर बढ़े थे कि देखा कुछ परत माँस के बड़े-बड़े टुकड़े काट रहे हैं। रोहिदश्व ने दोनों तरणों की ओर मुँह करके कहा—अब तो मांसभिक्षा ( धोड़े का मांस-भोजन ) है। हम इधर आ इसे नहीं पसन्द करते, क्योंकि अश्वों के खाने से उनके बेचने में अधिक लाभ है, पर यह लँगड़ा हो गया था। मध्याह्न भोजन तुम्हें भी यहीं करना होगा।

आर्य की आशा शिरोधार्य है।

रोहिदश्व उन्हें दूर जंगल के बीच एक घास के मैदान में चरते हुये धोड़ों के रेवड़ की ओर ले गया। आवाज देने पर एक विशालकाय लाल धोड़ा दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। रोहिदश्व उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरने लगा, अश्व स्वामी का सिर-सूँघने लगा।

त्रसदस्यु ने पूछा—क्या यह कुरुओं का अश्व है?

नहीं, यह कुरुओं का नहीं, यह हमारा परत अश्व है। इसका बाप जरूर कुरु-अश्व था। वह दोनों तरणों के लिये और नजदीक गया और कान के पास छोटे काले धब्बे वाले दो अश्वों को दिखला कर बतलाया—यह हैं कुरु अश्व।

उनमें एक विशालकाय होते कुछ स्थूल था, पर उतना नहीं, जितना की परत अश्व। और दूसरे का शरीर बहुत छरहरा था। दोनों तरण मुग्ध हो कितनी ही देर तक उनकी ओर देखते रहे। रोहिदश्व समझ गया, उन्हें ये धोड़े बहुत पसन्द आये। उसने कह दिया—

ये दोनों अश्व तुम्हारे हैं। अपने पुत्रों के लिये मैं और दूसरा क्या उपहार दे सकता हूँ?

त्रसदस्यु ने नम्रता प्रकट करते हुये कहा—आर्य, आपका स्नेह ही हमारे लिये पर्याप्त है।

तो इन्हें मेरे स्नेह का प्रतीक समझ लो। हमें बहुत बात बनाना नहीं आता, उसमें मेरे बच्चे हम तुमसे नहीं जीत सकते। अब तुम

दोनों निश्चय कर लो कि कौन किसको पसन्द है। ब्रह्मस्थु को कृतज्ञता प्रकट करने के लिये कोई शब्द नहीं सूझा। उसने और देर करने में असमर्थता देख अपने साथी से कहा—दिवो, तुम मेरे अनुज हो। तुम अपने लिये जो पसन्द करते हो, उसे ले लो।

दिवोदास जो पहले ही बारी-बारी से दोनों घोड़ों को देख रहा था, बोल उठा—मैं कनिष्ठ हूँ, इसलिये मैं यह छोटा लूँगा, और ज्येष्ठ को ज्येष्ठ।

रोहिदश्व यह बात सुनते ही दिवोदास को गोद में उठा उसके केशों का आग्राण करने लगा—वत्स, तुम्हारी बुद्धि की में दाद देता हूँ। इस उमर में अश्व की इतनी परख ! बड़ा अचरज है।

दिवोदास ने कुछ लज्जा अनुभव करते हुये कहा—नहीं, मैया को जो पसन्द हो, वही उनका।

ब्रह्मस्थु ने दिवोदास के सर पर हाथ फेरते हुये कहा—नहीं वत्स, तुमने बिल्कुल ठीक पसन्द किया है, और इसमें स्वार्य की कोई गम्भीर नहीं है। मैं अब जबान हूँ। मेरे योग्य यह घोड़ा है।

रोहिदश्व अपने दोनों अतिथियों को लिये शाला में लौटा। कुछ देर तक पश्चिम के आर्य देशों की बात होती रही, जिसको सुनकर दिवोदास के मुँह में पानी भर आता। कभी पूछता—वह कितने दिनों के रास्ते पर है ? कभी कहता—हमारे लिये वहाँ जाना संभव है ?

रोहिदश्व ने उसको बतलाया—

पश्चिम में जहाँ तक के बारे में मैंने सुना है, सभी जगह हमारे ही लोग बसते हैं। सभी हमारी तरह की भाषा बोलते हैं। योड़ा अन्तर अवश्य है, लेकिन उसके कारण समझने में कठिनाई नहीं होती। सभी इन्द्र, अग्नि, वरुण, नास्त्य, ( श्रीशिवनी कुमारों ) की उपासना करते हैं। सभी अतिथि-सेवी हैं। राहों की कठिनाइयाँ अवश्य हैं। जंगलों में हिस पशु भी मिलते हैं।

दिवोदास ने बेपरवाही से कहा—मार्ग की कठिनाइयाँ तो होती ही

हैं, और मैं समझता हूँ, कठिनाई न हो, तो उस यात्रा में मजा ही क्या ?

भोजन का समय हो गया था। रोहिदश्व की पल्ली और पुत्री ने अतिथियों तथा घर के लोगों के सामने काष्ठ और ताङ्ग पात्रों में भोजन परोसा। धी में तले और कुछ आग में मुने अवर्तों मांसखंड, कुछ धृत पकव जौ के अपूप भी थे। और चमड़े के चषकों के साथ सोमपान भी पास रखा था। रोहिदश्व-पुत्री ओजा बीच-बीच में सोम से चषक को भर देती थी। चौदह वर्ष की उस तरुणी में यौवन अभी तिरोहित था, पर उसके स्वस्थ सुन्दर मुख और शरीर को देखने के लिये त्रसदस्यु बहठात आकृष्ट हो जाता था।

भोजन समाप्त हुआ। तीन-चार धड़ियों के ही परिचय से अतिथि और गृहपति में इतना धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया। सबको अभिवादन करके विदाई ली। दोनों अश्व दो दास उनके साथ ले चले, वह चिर परिचित ही नहीं बल्कि एक ही कुल के थे।

समन समाप्त होने को आया। जिसके कारण वह अश्व समन कहा जाता था। उसका सबसे उत्कृष्ट परिदर्शन आज होने वाला था। आधे योजन के घेरेवाले मैदान के एक क्षोर पर अपार नर-नारियों की भीड़ थी। बीच-बीच में भी कहीं-कहीं लोग दिखाई पड़ते थे जिनमें पश्यियों की संख्या अधिक थी। आज चुने हुये अश्वों की दौड़ होनेवाली थी। पिछले बारह दिनों में हजारों की परीक्षा होकर बीस घोड़े चुन लिये गये थे। आज इन्हीं को दौड़ना था और पंचजनों में सर्वविजयी की विजय-घोषणा होने वाली थी। बीस घोड़े पाँती से जहाँ खड़े थे वहीं भीड़ अधिक थी। घोड़ों के पास वश्र्यश्व, पैजवन, पुरुकुत्स, पौरव तथा दूसरे आर्य राजा और सूरि खड़े थे। हरेक नर-नारी नजदीक से देखना चाहता था। जान पड़ता था, भीड़ मर्यादा तोड़कर समन-क्षेत्र में छुस आयेगी। पर ऐसा करना शिष्टाचार के विशद्ध होता। इसलिये भीड़ का दबाव एक सीमा तक ही था। सभी

बड़ी उत्सुकता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब घोड़े छूटेंगे। यह समन के सबसे सुन्दर क्षण थे, जब कि वह अश्वों को उड़ते देखेंगे। उन्हें बतलाया गया था कि समन के अन्तिम घोड़े दौड़ते नहीं, उड़ते हैं, वह भूमि पर नहीं बायु में चलते हैं। एक-एक करके प्रतीक्षा के क्षण भी समाप्त हो गये। ब्रह्मश्व के मुख से निश्चित संकेत शब्द के निकलते ही गर्गरा (नगाड़े) पर लकड़ी पड़ी और पाँती से खड़े बीसों घोड़े आगे की ओर कूदे। सभी लोगों की हृषि भी घोड़ों के पीछे-पीछे दौड़ रही थी।

करीब साठ हाथ अश्व आगे बढ़े होंगे कि बाइं बगल से दर्शकों की पंक्ति को चीरता २१वाँ अश्व उनमें सम्मिलित हो गया। एक क्षण तक वह सबसे आगे वाले पाँच घोड़ों की पंक्ति में रहा। फिर वह बायु की तरह आगे निकला और जितने ही क्षण बीतते गये, उतने ही हाथ वह दूसरों से आगे होता जा रहा था। सबको यही कौतूहल था कि यह कौन घोड़ा है, इस पर कौन चढ़ा है! दूर जाने पर यह बतलाना मुश्किल था, पर जहाँ से पंक्ति चीर कर वह भी तर छुसा था, वहाँ के लोगों ने साफ देखा था कि उस पर कोई लड़का सवार है। यह बात कानों-कान यद्यपि राजा और सूरियों तक पहुँच गई, पर कोई नहीं समझ सका कि वह लड़का कौन हो सकता है।

यह अश्व-समन के नियम के विरुद्ध था। सभी अश्वों को एक स्थान से दौड़ शुरू करनी चाहिये और वही अश्व इसमें शामिल हो सकते थे, जो परीक्षा करके पहले से चुन लिये गये थे। किसी काम में भी नियम 'तोड़ने पर असफल अपराधी होता है, पर सफल का दोष छुमा कर दिया जाता है। नियम-उल्लंघन करनेवाला अश्व एक बार जो आगे हुआ, तो फिर कोई उसके पास भी नहीं पहुँच सका। दौड़ का अंत जितना समीप आता जाता था, उतना ही अश्व का बेग बढ़ता जाता था। सबार उसकी पीठ से चिपका हुआ था। उसका मुँह घोड़े के उड़ते हुये अयालों में छिप गया था। जान पड़ता था,

अश्व का ही वह अभिन्न अंग है। छोर पर खड़े दर्शक उसको अपने नजदीक देख रहे थे। सीमा रेखा के पास पहुँचते-पहुँचते अगले सवार नजदीक से देख रहे थे। सीमा रेखा के पहुँचते-पहुँचते पुरुषकृत्स्व स्वयं घोड़े और अश्वारोही का स्वागत करने के लिये दौड़ा। घोड़े के खड़े होते ही सवार ने मुँह ऊपर कर दिया। पुरुषकृत्स्व ने देखते ही कहा—‘दिवा?’ उसके बाद उसने उसे गोद में उठा लिया। वश्रीश्व ने दिवोदास का नाम सुनते ही हर्ष-विहळ हो उधर पैर बढ़ाया। लेकिन, दिवो की इष्टि अपने अश्व की ओर थी। एक ही क्षण में घोड़ा खड़ा का खड़ा ही भूमि पर गिर गया। उसके मुँह और नाक से रक्त की धार छूटी। दिवोदास हाथ छुड़ाकर ‘हा दग्धिका’ कहते हुये घोड़े के मुँह पर गिर पड़ा और उसके अंगों और कानों से चिपक कर फूट-फूटकर रोने लगा—‘मेरे दग्धिका, तुम मुझे मत छोड़ो। बारह दिनों में तुमने देख लिया मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। हाय, यदि यह जानता कि विजय का परिणाम यह होगा तो गुरुजनों की आज्ञा-भंग का अपराध करते तुम्हारी हत्या के महापाप को न करता।’

लोगों के देखते-देखते कुछ ही क्षणों में दग्धिका का शरीर स्थिर हो गया। उसका सिर एक ओर छुड़क गया। दिवोदास का धैर्य टूट गया। अब तक रोहिदश्व भीड़ चीर कर वहाँ पहुँच गया था, जहाँ दिवोदास अब भी दग्धिका को पकड़े बैठा था। उसने बलपूर्वक उसे उठाया, बार-बार क्षमा और सान्वना देते कहा—पुत्र, अब शोक से कोई लाभ नहीं। दग्धिका ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। युद्ध में जैसे वीर वीरगति को प्राप्त होते हैं, वैसे ही सच्चे अश्व के लिये भी यह स्वाभाविक है। कुरुओं की भूमि में जन्म ले इस अश्व ने अपनी जाति का नाम प्रसिद्ध किया। ऐसे अश्व के लिये अँगू बहाने की आवश्यकता नहीं। क्या युद्ध में निष्पाण हुये वीर के लिये शोकाश्रु बहाया जाता है?

रोहिंदश्व की जगह यदि कोई दूसरा ऐसे सान्त्वना वाक्यों को कहता, तो दिवोदास पर उतना प्रभाव न पड़ता। पर, वह जानता था कि कितने अनमोल रत्न को रोहिंदश्व ने यों ही उसे अर्पित किया था। दधिका उसके लिये कम प्रिय नहीं था, यह रोहिंदश्व के मुख के देखने ही से मालूम हो जाता था। उसकी आँखें प्रयत्न करने पर भी छलछल हो आयी थीं। आर्य अपने सम्बन्धियों से भी अधिक अपने अश्वों को प्यार करते थे।

दिवोदास ने फिर एक बार करुणाभरी दण्ड से दधिका को देखा। फिर बलात् गुरुजनों द्वारा वह वहाँ से हटने के लिये मजबूर हुआ। भारी भीड़ में चिजली की तरह यह खबर दौड़ आयी। इस साल के समन का विजेता कुरुचश्व और उसका सवार दिवोदास है। दिवोदास वश्र्यश्व का पुत्र तृत्सुओं का भावी राजा था। पर, वह अभी बारह वर्ष का भी नहीं हो पाया था। बारह वर्ष के आर्य बालक या बालिका का घोड़ा दौड़ाना कोई अचरज की बात नहीं थी। लेकिन सारे सप्त-सिन्धु के चुने हुये घोड़े जहाँ भाग ले रहे हों, वहाँ बारह वर्ष के सवार की यह सफलता अविश्वसनीय थी।

धीरे-धीरे सारी बातों का पता लगा। बारह दिन पहले दिवोदास के पास कुरुओं का अश्व आया था। दोनों में उसी दिन इतना मेल हो गया कि जान पड़ता था, दोनों चिरपरिचित हैं। दिवोदास ने अपने प्रेम को शब्दों में प्रकट करते हुये अगले ही दिन उसका नाम दधिका—एकड़ने पर दौड़नेवाला रख दिया। कभी उसको हरे तृण अपने हाथों से काटकर खिलाता, कभी हरे जौ को मँगवा कर उसके सामने रखता और दिन में दो-चार बार उसकी पीठ पर बैठकर थोड़ी दौड़ भी लगाता। उसके रखभाव और गति से परिचित हो जाने पर दिवोदास को स्मरण आया, दधिका समन की दौड़ में भाग ले सकता है। पर, बारह वर्ष के लड़के को परीक्षा के लिये भी तो कोई दौड़ में शामिल नहीं होने देता। शायद पिता की ओर से विरोध न होता,

लेकिन पौरवी अपने को मल पुत्र को ऐसा कैसे करने देती ? उसने सुना ही नहीं देखा भी था, समन के घोड़े सवार कभी-कभी गिरकर प्राणों से हाथ धोते। उसे कैसे विश्वास होता कि दिवोदास एक सिद्धहस्त अश्वारोही है। सवार भी कभी घोड़े के साथ ही धराशायी हो जाते, जिसका अर्थ दोनों का प्राण खोना था। दिवोदास ने अपने बालबुद्धि से सब तरह से विचार कर देख लिया, कि मुझे समन के क्षेत्र में किसी भी दिन सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जायेगा। लेकिन, उधर धीरे-धीरे उसे विश्वास होने लगा कि दविका दूसरों से पीछे नहीं रहेगा। (उत्तर) कुरुओं के नाम का भी उसके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। अन्त में उसने यही निश्चय किया, कि किसी को बिना खबर दिये ही मुझे दौड़ में शामिल होना है। उसने इसका पता अपने अत्यन्त स्नेहभाजन त्रसदस्यु को भी नहीं होने दिया। दविका से जरूर वह बातें करता था। उसे विश्वास था कि वह रहस्य का उद्घाटन नहीं करेगा। उस दिन पिता और माता ने अपने साथ चलने का बहुत आग्रह किया था, और एक बार तो दिवोदास को मालूम होने लगा कि शायद मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकूँगा। पिता-माता के साथ जाने पर वह दर्शकों की पाँती चौर कर दौड़ में कैसे शामिल हो सकता था।

दिवोदास को अपनी इस प्रथम महान् सफलता के लिये प्रसन्नता न हो, यह कैसे हो सकता है। पर, दविका की हानि को वह जीवन भर नहीं भूल सका। इसी कारण वह अपने हरेक प्रिय अश्व का नाम दविका रखता रहा। सप्त-सिन्धु में वध्र्यश्व की बीरता और दूसरे गुणों पर लोग मुग्ध थे। पर, एक ही क्षण में और इतनी कम उम्र में पुत्र पिता से भी आगे बढ़ गया। यदि वध्र्यश्व का नाम पहले से प्रसिद्ध नहीं होता, तो शायद लोग दिवोदास-पिता कहकर वध्र्यश्व का परिचय दिया करते।

उस दिन शोकाभिभूत दिवोदास के पास आते ही पौरवी ने उसे

गोद में चिपकाकर छाती से लगा, अँख से अशुं बहाते उसके एक-एक अंग को टटोलने लगी। दिवोदास समझ गया, मेरे अंग में कहीं चोट ढूँढ़ रही है। उसने कहा—

—नना, मुझे कहीं चोट नहीं आई। दविका मुझे चोट नहीं दे सकता था। जब तक विजय के बाद मैं उसकी पीठ से उतर नहीं गया, तब तक उसने अपनी मृत्यु को रोके रखा।



० ३२

## ४. भरद्वाज-कुल

[१२०४ ई० पू०]

'स्वादिष्टया मदिष्टया पवस्व सोम धारया' ( शृङ्‌कृ द१११ )

**सा**त सिन्धुओं में सरस्वती को छोड़ बाकी सभी से विपाशा (ब्यास) छोटी है। पर वह भी अपनी पाँच बहिनों की तरह हिमालय की हिमानियों से निकलती सदानीरा नदी है। छोटी होने पर भी उसकी महिमा छोटी नहीं है। आर्जिकिया उसका दूसरा नाम है। आर्जिकिया अपने सोम (भाँग) के लिये बहुत प्रसिद्ध थी। पत्त्य, शर्यरावत में पैदा होने वाले सोम से वह किसी तरह कम मदिष्ट नहीं होता था। सप्तसिंधु का हरेक भाग जंगलों से भरा या जिनमें सिंह, व्याघ्र आदि श्वापद रहते थे। पर मनुष्य अपने को छोड़कर किसी का अधिकार पृथ्वी पर नहीं मानता। इसमें शक नहीं उस समय सप्त-सिन्धु भारत के और भागों से अधिक आवादी रखता था। दस्युओं (पश्चियों और किलातों) की संख्या आयों से अधिक थी। पर और प्राशियों की उपेक्षा करके, आर्य केवल अपने को सप्त-सिन्धु भूमि का स्वामी मानते थे। बृद्ध शृंखियों ने सप्त-सिंधु में जगह-जगह अपने गोत्र (आश्रम या कुल) स्थापित कर लिये थे, जिनका उपयोग केवल उनके वंशवालों तक ही सीमित नहीं था बल्कि यहीं आयों के बीर और विद्वान् तैयार किये जाते थे। आदिम आयु में ब्रह्मचर्य और सारी आयु में तप एवं दान श्रीर्य शृंखि अपना कर्तव्य मानते थे। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इन्द्रिय निग्रह नहीं, बल्कि ब्रह्म-वेद या ज्ञान के अर्जन के करने के लिए श्रम करना

था। विपाश जहाँ शुतद्रु (शतलुज) से मिलती है, उससे कुछ कोस ऊपर नदी के दाहिने तट पर भरद्वाज का कुल रहता था। विपाश पुरुषों के जनों, भरत, तृत्सु और संजय की सीमा पर थी। जहाँ यह गोत्र था, निरब्रह्मच्छु आकाश रहने पर वहाँ से हिमवन्त के श्वेत शिखर दिखाई पड़ते थे। गोत्र स्वावलम्बी था। भरद्वाज ऋषि के लोग हजारों अश्वों और उनसे भी अधिक सुन्दर गायों को भी लूट ले जाया करते थे। पर भरद्वाज का सम्मान आर्य-जनों में था। सप्तसिंहु के दूसरे भागों में रहने वाले पार्थवों के सम्राट तनु-पुत्र अभ्यावर्ती चायमानने बधुओं (दासियों) सहित दो रथ और बीस गायें भरद्वाज को प्रदान की थीं। भरद्वाज ने विपाश के पूर्व में रहने वाले आर्य-जन के राजा संजय-पुत्र महीराघ से यश कराया था। नाना जन और उनके सूरि भरद्वाज पर श्रद्धा रखते थे।

यद्यपि भरद्वाज से पहले भी आयों में ऋषि हुये थे। बल्कि कहना चाहिये, देवताओं को देखने वाले ऋषियों के बिना आयों का कभी गुजारा नहीं हो सकता था। पर, पूर्व ऋषियों में बहुत योङ्गों का नाम लोगों को याद रहा, और उनके काम के बारे में तो और भी अज्ञान छाया हुआ था। इस दृष्टि से भरद्वाज को आदिम ऋषि कहा जा सकता है।

ब्रह्म्यश्व पुरुषों की शाखा भरतों के एक गुमनाम से जन तृत्सुओं में पैदा होकर सारे आर्यजनों में सबसे प्रभावशाली पुरुष माना जाने लगा। ऐसा संयोग कम ही होता है, जब कि योग्य पिता का पुत्र भी योग्य हो। पर, ब्रह्म्यश्व के पुत्र दिवोदास ने १२ वर्ष की आयु में अश्व-समन जीतकर सारे सप्त-सिंहु में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। “ब्रह्म्यश्व को” तब से और भी अधिक ख्याल होने लगा कि उसकी शिक्षा-दीक्षा योग्यतम ऋषि के हाथों हो। उसी वक्त उसको ध्यान अंगिरा-गोत्री बृहस्पति-पुत्र भरद्वाज की ओर गया। उसको यही अफसास था, कि दिवोदास को पाँच-सात वर्ष पहले ही ऋषि के पास नहीं

भेजा जा सका। और देर करना उचित न समझकर अश्व समन के बाद की वर्षा के समाप्त होते ही वश्र्यश्व ने अपने पुत्र को ले भरद्वाज के पास प्रस्थान किया। उसके साथ कितने ही सूरि और दूसरे आर्यों द्वारा थे। साथ ही सैकड़ों गायें, बृषभ, अश्व, अश्वतर (खज्जर) भी। कुछ उनमें पाथेय के लिये थे और कुछ ऋषि को प्रदान करने के लिये। चरने के स्थान में बीच-बीच में ठहरते दो सप्ताह बाद वह भारद्वाज की गोचर भूमि में प्रविष्ट हुये। वश्र्यश्व के दूत ने पहले ही से ऋषि को सूचना दे दी थी।

वर्षा का डर दूर हो गया था, इसलिये भरद्वाजों के दम (धर) विपाश की धारा के नजदीक तक बने हुये थे। वहीं आसपास खेतों में जौ बोये हुये थे, जौ अभी पाँच अंगुल से अधिक नहीं थे। वह उनकी सिंचाई का समय था। ऋषि अपने शिष्यों तथा अनुचरों के साथ उसी में लगे हुये थे। विपाश की एक कुल्या (नहर) ने उनके काम को आसान कर दिया था। वश्र्यश्व अपने आधे दर्जन सूरियों के साथ घोड़े पर सवार हो भरद्वाज के पास पहुँचा। वह कुल्या के ऊपर बैठे कृषिकर्म का निरीक्षण कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से पहले ही परिचय रखते थे। यद्यपि भरद्वाज और वश्र्यश्व की आयु में आठ-दस वर्ष से अधिक का अन्तर नहीं था, पर अपने गुणों और महिमा के कारण, जान पड़ता था, भरद्वाज, वश्र्यश्व के पिता की आयु के हैं। ऋषि के पास आकर वश्र्यश्व और उनके सारे साथी घोड़ों से उतर गये। उन्होंने नमस्कार किया।—ऋषि ने अतिथि को अधिक पूज्य समझकर उनके लिये उपयुक्त आसन और दूसरी बातों से स्वागत किया। यहाँ लम्बी बातचीत करने का अवसर नहीं था। वश्र्यश्व ने यह निवेदन कर दिया कि दिवोदास आपका अन्तेवासी होने के लिये आया है। ऋषि ने बड़ी खुशी से स्वीकृति दी और बतलाया: दिवोदास इन्द्र का परम कृपापात्र है। इन्द्र उससे बड़े काम कराना चाहते हैं।

सारी मरणली शृंखि के ग्राम की ओर गई, जो वहाँ से दिखाई पड़ रहा था। ग्रामों के घर सभी फूट की भोपहियों के थे, जो लकड़ी पर लकड़ी की गई थीं। यद्यपि उनको चिरस्थायी रूप में नहीं बनाया गया था, पर वह इतनी दृढ़ थीं कि माध-पूस की वर्षा को बर्दाश्त कर सकती थीं। उनके बनाने में कला और सौंदर्य की उपेक्षा नहीं की गई थी। सैकड़ों वृषभ चर्म वहाँ विछेहुये थे, जिनमें से कुछ ताजे थे। अतिथि कहकर भरद्वाज ने वश्र्यश्व को कुछ ऊँचा आसन देना चाहा, पर, भरतों का राजा इसके लिये तैयार नहीं था। शृंखि विद्या और वय दोनों में उससे बृद्ध थे। वश्र्यश्व की आयु पचास के करीब होगी और शृंखि ४५-५६ के। राजा का शरीर भरा हुआ था, जबकि शृंखि का शरीर इस आयु में भी छुरहरा था। यदि उनके मुख पर भी सुनहली दाढ़ी के कुछ सफेद बालों ने सहायता न की होती, तो भरद्वाज आयु में छोटे ही मालूम होते। कुशल-प्रश्न और शिष्टाचार की बातें होती रहीं। इसी बीच अतिथि के लिये मधुपर्क तैयार हो गया। चमुओं (बड़ों) में क्षीर मधु मिश्रित सोमरस और वत्सरी का भुना मांस लाया गया। पलाश के पत्तलों, दोनों या लकड़ी के चपकों में सामने रखकर मधुपर्क परोसा जाने लगा। शृंखि ने अपने हाथ से वश्र्यश्व और दिवोदास के सामने भोजन रखा। इन्द्र की स्तुति की गई। सोम की स्तुति करते भरद्वाज ने कहा—“सोम, अत्यन्त स्वादु और अत्यन्त महान धारा के साथ तुम हमें पवित्र करो। हमारे शरीर पत्थर जैसे हों (अश्मां भवतु नस्त्वनः शृंख ६।७५।१२)। सोम के लेते ही सारा समाज मुखरित हो उठा। सोमपान आनन्द का सबसे बड़ा साधन माना जाता था। उसके नशे से जब आँखें आरक्ष होने लगीं तो बन्धन और भी ढीले हो गये। आर्य नर-नारी हास-परिहास करते चपक (प्याले) पर चपक उड़ेल रहे थे। शृंखि भी उनके साथ थे। पर उनके मुँह से निकली वाणी असाधारण और गम्भीर थी। सायंकाल से आरंभ हुई मधुपर्क विधि आधी रात के बाद तक चलती रही। वृत्त्य

और गान तो उसका एक अभिन्न अंग था ।

+ + +

भरद्वाज के पास उपनीत हो दिवोदास आयों की पीढ़ियों से अर्जित विद्या सीखने लगा । वह मानो उसी के लिये पैदा हुआ था । इसलिये बुड़दौड़ जीतनेवाला बालक हर बात में अपने सहपाठियों से आगे रहता था । श्यालपुत्र भुजयु तौग्य, कुत्स आयुनेय, पुरुकुत्स, कुरुविंद से उसका अनन्य स्नेह यहीं स्थापित हुआ जो जीवन भर अच्छुरण रहा । उसके साथी ऋषिकुल में कई सालों पहले आये थे । पर उन्हें नवागत दिवो के साथ कुछ ही समय में आत्मीयता स्थापित करने में आनन्द आने लगा । प्रातःकालीन अग्निपरिचरण के बाद ऋषि अपनी और पूर्वज ऋषियों की ऋचायें पढ़ाते । गुरु के मुख से निकली वाणी को शिष्य दो-दो बार दोहराते । पूर्वज ऋषियों की भी वाणी कम नहीं थी, पीछे सबका संग्रह नहीं किया गया । इसलिये अधिकांश छुप्त हो गई । उन्हीं वाणियों में से किसी अज्ञात ऋषि की बनाई पुरुरवा और उर्वशी संवाद है । ऋषि के साथ-साथ दोहराते-दोहराते ऋचायें (पद्म) शिष्यों को याद हो जातीं । दिवोदास याद करने में तेज था, घोड़े की सवारी में दिवोदास को कोई बात सीखनी नहीं थी । धनुष-बाण चलाने में भी वह सर्वोत्कृष्ट लक्ष्यवेधी था । तो भी अकेला व्यक्ति धनुष-बाण असि-धर्म (तलवार-दाल), परशु, बज्र तथा घोड़सवारी में निष्पात होकर भी बहुसंख्या में शत्रुओं पर विजयी नहीं हो सकता । योद्धा के अतिरिक्त कुशल सेनानी होने की विद्या सीखनी थी । पहिले देखादेखी बातें दिवो ने सीखी थीं । अब गुरुमुख से विधिपूर्वक उसे सारी विद्याओं को सीखना था । दिवो की मेधा और तत्परता को देखकर ऋषि को बड़ी प्रसन्नता होती, वह भविष्य के बारे में बराबर सोचते रहते । १५-१६ की संधि में पहुँचकरौ दिवो का शरीर २४-२५ वर्ष के सुपुष्ट आर्य तरण जैसा मालूम होता था । ऋषि के प्रमुख शिष्य भुजयु, कुत्स आदि उसे अपना स्वाभाविक

नेता मानते। यद्यपि दिवोदास उन्हें सगा भाई और समान मित्र के तौर पर ही स्वीकार करता था।

विद्या और शस्त्र-शिक्षा के अभ्यास के साथ कृषि के शिष्यों को बहुत मनवहलाव के साधन प्राप्त थे। सोमपान, सामगान और वृत्य तो रोज के विनोद की बातें थीं। अश्वों और गायों के चारण, दुग्धदोहन तथा कृषि कार्य में भी दिवोदास और उसके साथी सहकारी होते थे। आखेट भी उनके मनोविनोद का एक साधन था, उसके द्वारा वह युद्ध के दाँव-पैंच का व्यावहारिक अभ्यास करते थे।

मुज्जु, कुत्स और दूसरे सहपाठियों के साथ दिवो एक बार उत्तर की ओर बढ़ते-बढ़ते बस्तियों से बहुत दूर घोर जंगल में पहुँच गया। वहाँ पश्यों का एक विशाल गोष्ठ था। पणि ज्येष्ठ ने आर्य सूरियों का बड़ा सम्मान स्वागत किया। यह विधि चल रही थी, इसी बीच एक दास दौड़ा-दौड़ा पणि ग्रामणी के पास पहुँचकर बोला—सिंह ने हमारे रोहित वृषभ (साँड़) को मार डाला। वह वृषभ ग्रामणी को बहुत प्रिय था। सिंह गायों और वृषभों को मौका पाकर कभी-कभी मार डालते थे। यहपति को अफसोस करते देखकर दिवोदास ने कहा, हम उसको मारकर बदला लेंगे। पणि-ग्रामणी ने उन्हें बहुत कहा—यह सिंह बहा ही खतरनाक है। पहले तो आँखों के सामने नहीं आता और यदि कभी मिल जाता है, तो उसका बार खाली नहीं जाता।

आर्य सूरियों के लिये यह खुली ललकार थी। ग्रामणी के मधुपके की समाप्ति के बाद ही वह अपने घोड़ों पर सवार हो उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ जंगल में वृषभ मरा पड़ा था। सिंह छुस हो चुका था। लेकिन अपने शिकार को खाने के लिये वह जरूर आयेगा इसका उन्हें निश्चय था। जिस जगह वृषभ मारा गया था, वह एक छोटे से नीले के सिरे पर थी। नाला विपाश की ओर जाता और गहरा होता गया था। उसके ऊपर खड़े जामुन और दूसरे वृक्ष इतने धने थे कि दिन को भी अँधेरा मालूम होता था। सिंह कहीं लुपा था।

साथी की सलाह मान कर सभी पास के पेहों में छिप गये। घने पत्तों में सिंह उन्हें देख नहीं सकता था। पर, डर या कि उसे आदमियों की गन्ध न मालूम हो जाय। दिन अभी दो घंटे से अधिक बाकी था। इतने समय को चुपचाप काटना तरणों के लिये बहुत कठिन था। वह आपस में संकेत से ही कुछ कह सकते थे, अधिकतर उनकी आँखें पत्तों की आड़ से सामने जाते खोहे की ओर लगी थीं। वर्ष के सबसे छोटे दिनों का यह समय था, इसलिये सर्दी बढ़ती जा रही थी। सूर्य की सफेद किरणों पीली पड़ गई, फिर लाल हो चली। सूर्य का गोला न्यूतिज पर उनकी पीठ की ओर था। धीरे-धीरे दिन और रात की संधि आ गई। तिमिर काले बादल की तरह चारों तरफ फैलने लगा। तरणों को एक बात की आशंका हो रही थी। बड़ी रात तक के लिये चाँदनी की संभावना नहीं थी। ज्यादा अँधेरा होने पर वह सिंह को कैसे देख सकेंगे ? पर, आशंका निर्मल साबित हुई। अभी अँधेरा मुट्ठ-पुट्ठ था कि नाले की सिरे की ओर से कोई चीज बहुत धीरे-धीरे आगे कोसरकती दीख पड़ी। उसका सरकना इतना आहिस्ते-आहिस्ते था, कि बहुत ध्यान देने पर भी उसे जाना जा सकता था। पर, यह मालूम होते देर नहीं लगी कि सिंह अपने शिकार की ओर आ रहा है। वह चीच-बीच में ठमककर चारों ओर आँखें फैलाकर देख लेता। पत्तों की आड़ से एक दर्जन आँखें झाँक रही थी, सन्देह होने लगता कि किसी को उसने जल्द देख लिया है। पर; वह अब जमीन से मुँह सटाये बारी-बारी से एक-एक पैर को सरकाता आगे बढ़ता, तो सन्देह दूर हो जाता। मानों युगों बाद वह शिकार के पास पहुँचा। शरीर से मांस के बड़े-बड़े खंड काटकर खाने लगा। पर जब भी वह संशक था। दिवोदास और उसके साथी निशाना साधने को बोच रहे थे इसी समय कहीं सखा पत्ता खड़खड़ाया, और सिंह पीछे की ओर लपका। जान पड़ता था, दोनों किया एक ही चश्मा में हुई। दिवोदास ने अपने बाण को साधकर सिंह के पंजर में मारा और परिणाम की प्रतीक्षा

किये बिना उसी क्षण ललकारते हुये वह पेड़ से नीचे कूद पड़ा । सिंह धायल था पर मनुष्य की ललकार को वह कैसे बरदाश्त कर सकता था । वह लौट पड़ा दिवोदास इसके लिये तैयार था । उसके बायें हाथ में लम्बा चर्म (ढाल) और दाहिने में असि थी । सिंह छलाँग मारकर झपटा । दिवोदास तुरन्त अपने स्थान से दाहिने कूदा और उसके साथ ही उसने सिंह की गर्दन पर बड़े जोर से प्रहार किया । उसकी नजर सिंह की आँखों की ओर थी । उसे मालूम था कि उसका शब्दु इस स्थान पर झपटा मारेगा । दोनों घाव गहरे थे, तो भी उनकी परवाह न कर सिंह कूदा । दिवोदास को उसने अपने गर्दन के बाईं और प्रहार करने का अवसर दिया । अब तक दूसरे साथी भी कूदकर सिंह के पास आ गये । दिवोदास के मना करने पर भी उन्होंने अपने कुत्तों से सिंह का काम समाप्त कर दिया । इसमें तो शक ही नहीं, कि दिवोदास सिंह के लिये अकेला पर्याप्त था । उसका मन विल्कुल स्थिर था, जान पड़ता था, अखाड़े में अभ्यास करते दाँव-पेच चला रहा है ।

मरा सिंह उनके लिये बहुत बड़ा उपहार था, उसे यहाँ छोड़ जाना कैसे पसन्द करते ? उसके दम तोड़ते देर नहीं हुई और सबने अपने-अपने त्सरुओं (मियानों) से शृंगियाँ (छरें) निकाल लीं । चमड़ा निकालने का अभ्यास था । कितने ही बृषभों, वत्सतरियों और जंगली हरिनों के चमड़े उन्होंने अपने हाथ से निकाले थे, और इतनी सफाई के साथ कि उपयोगिता में जरा भी क्षति न होने पाये । चमड़ा उनके आसन और बर्ब का काम देता । सिंह चर्म तो बहुत महार्घ समझा जाता था । सिंह शरीर में असाधारण विशाल था, जो और भी आकर्षण की बात थी । सिर धड़ से जरा-सा ही लगा था इसलिये उसके गीले चमड़े को अलग कर लिया गया । मांस और हड्डी को अलग कर देने पर भी उसका भार बहुत था । दिवोदास ने आग्रह-पूर्वक सिर को अपने धोड़ों पर, ग्रामणी के आदमियों को सुपुर्द कर वह अपने-अपने धोड़ों पर चढ़े ।

याम या रात जाते-जाते वह पश्चिमाम में पहुँचे। यह वास्तविक ग्राम था, झोपड़ों का समूह नहीं। ग्रामणी का मकान पबकी ईटों का तीन मंजिला था। दूसरों के घरों में कुछ ईटों का और कुछ मिट्टी की दीवारें थीं। छतें कढ़ियों पर बिछी लकड़ियों और मिट्टी से पाट कर बनाई गई थीं। आर्य प्रभुओं की ओर से निषेध था, तो भी ग्राम की प्रतिरक्षा का कुछ प्रबंध मकानों को सटाकर बना के किया गया था। ग्राम के प्रधान दरवाजे भी थे। आरक्षा के इन साधनों द्वारा सामान्य लूटेरों को ही रोका जा सकता था आयों के लिये वह तिनके के बराबर थे।

ग्रामणी को आशंका हो रही थी कि आर्य तरणों के ऊपर कोई आफत आयी। यह उसके लिए डर की बात थी। कहीं यह न समझा जाये कि इसमें उसका भी हाथ है। सबसे भय की बात यह थी कि इनमें भरतों का भावी राजा तथा सप्त-सिन्धु के महावीर वश्रेष्ठ का पुत्र भी था। वह निराश होकर अपने आदमियों को मेजना ही चाहता था कि ग्राम के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। आवाज से मालूम हो रहा था, कि वह ग्राम के उत्तरी छोर पर जमा हुए हैं। ग्रामणी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचा। तब तक आर्य सूरि भी आ पहुँचे थे। जिनके साथ सिंह का मुख भी था। यात्रा की सफलता के बारे में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं थी। और छओं आर्य तरण अद्वत शरीर थे। ग्रामणी ने हर्ष प्रकट करते हुये देवताओं को धन्यवाद दिया।

पश्चियों की आयों की बीरता और युद्ध-कौशल के बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं थी। दिवोदास की सफलता को देखकर उनका आश्चर्य और बढ़ गया। रात्रि में ग्रामणी ने अपनी छबसे अच्छी सुरा सामने रखी, लेकिन आर्य तरणों को अपनी सफलता के लिये इन्द्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी थी, जिसके लिये सोम और वृषभ

मांस ही सबसे उपयुक्त साधन थे । सिंह के मारे वृषभ को हवि बना उस रात उन्होंने इन्द्र को सौमपान प्रदान किया ।

ऋषियों के सामने यद्यपि अत्यन्त विनम्रता दिखलाते दिवोदास ने बहुत नहीं कहा था, पर उसके साथियों ने दिवोदास के अतिमानुष पराक्रम को बिना अतिशयोक्ति के बतलाया । अश्व समन का विजेता कठिन संकट के समय भी बिना विचलित हुए अपनी बुद्धि और पौरुष का उपयोग कर सकता है । भुज्यु और कुत्स अपने मित्र की सफलता को अपनी ही समझते थे, इसलिये उन्होंने कई बार भरद्वाज कुल के नर-नारियों के सामने सिंह युद्ध का सजीव वर्णन किया ।

भरद्वाज ऋषि अपने शिष्यों में आर्य-पूर्वजों के पराक्रम को बैठाना चाहते थे । उनके मेधावी शिष्य भी जिज्ञासा करने से बाज नहीं आते थे, एक बार कुत्स आर्जुनेय ने पूछा—आयों की उत्पत्ति कैसे हुई ? ऋषि ने कहा आयों की उत्पत्ति इन्द्र से हुई । इन्द्र के सबसे प्रिय पुत्र आर्य हैं, क्योंकि वह उनके अनन्य भक्त हैं । इन्द्र ने ही पणियों, किलातों और निषादों को भी पैदा किया । पर वह कृतज्ञ हैं, इन्द्र से द्वेष करते हैं । इसलिये इन्द्र उनको पसन्द नहीं करते ।

हमारे केश सुनहले, हमारी आँखें नीली या सुनहली हैं । कद भी हमारा अधिक लम्बा है । यह इन्द्र की ही कृपा से है, यह तो हम समझते हैं । पर, दूसरों के वर्ण भिन्न क्यों हैं ? अब के भुज्यु ने पूछा ।

यह भी इन्द्र ही का काम है । उन्होंने पणियों की मदगुरु लघि (मांगुर के रंग का) बनाया, निषादों को कोयले की तरह काला और किलातों को अनास (चिपटी नाकवाला) तथा श्मशुविहीन इन्द्र की यह इच्छा थी, कि वर्ण द्वारा अपने भक्तों और अभक्तों को पृथक कर दिया जाये ।

क्या एक ही देश और काल में इन्द्र ने चारों जातियों को बनाया ?

१ मोहन जोड़ोवासी लोग, किनार : मोनरेस्मेर : ३, भील आदि ।

इसके बारे में कुछ कहना कठिन है, ऋषि ने कहा पर, आर्य सप्तसिन्धु में पश्चिम की ओर से फैलते आये। देखते हो निषाद और किलात सबसे निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। उन्हें मनु की संतान न होने के कारण मनुष्य कहना भी नहीं चाहिये। ये दोनों जातियाँ जंगलों या पहाड़ों में रहती हैं। शिकार उनकी जीविका का प्रधान साधन है। अब भी उन्हें पाषाण-अस्त्रों का ही अधिक सहारा है।

पर पश्चि तो वैसे नहीं हैं—दिवोदास ने कहा।

पश्चि वस्तुतः हम से किसी काम में कम नहीं हैं। पर, वह इन्द्र के भक्त नहीं हैं, इसीलिए। इन्द्र ने उनकी भूमि आयों को प्रदान की।

तो आयों के आने से पहले यहाँ इन्द्र का यजन नहीं होता था?

—इसीलिये तो इन्द्र ने पाँचों जनों को बुलाया। पश्चियों के साथ बड़े-बड़े संघर्ष हुये। सौभाग्य से आयों को मनु जैसा सेनानी मिला था। पर पश्चियों का सेनानी विष्णुप्रभ भी कम नहीं थी। कृष्ण-त्वचा पराजित नहीं होते, यदि इन्द्र स्वयं सुख में नहीं आते। पश्चियों के बड़े-बड़े स्थायी पुर थे। उनके पास ताँबि के तीक्ष्ण हथियार थे। यद्यपि हमारी तरह उनमें बड़े योद्धा नहीं थे, पर उनके योद्धाओं की संख्या कम नहीं थी।

—इतना होने पर भी वह पराजित हुए?—दिवोदास ने पूछा।

—सबसे बड़ी बात यह थी, कि इन्द्र हमारे साथ थे। उन्हीं की कृपा से हमें अश्व मिले थे, जिनको पश्चियों के पास अभाव था। फिर हमारा हरेक युवा और प्रौढ़ बीर योद्धा था। आयों को मनु जैसा नेता मिला था।

—और साथ ही पश्चि अपने सुखपूर्ण नगरों में बसकर आलसी और युद्धदेवी हो गये यह भी कहना चाहिये—कुत्स ने कहा।

—हाँ, यह भी एक बड़ा कारण उनके विनाश का हुआ इसीलिये सुखसमृद्धि-सम्पन्न पश्चि नगरों को जीतकर भी हम उनमें नहीं रहते। हमें पौरुष का जीवन पसन्द है। अपने गो-अश्वों, अज-अवियों को चारण

करते खुली कछारों, खुले जंगलों में हम रहते हैं। यहाँ हमारे शस्त्र मौथिल नहीं होते। हमारे पुरुष आराम पसन्द नहीं हो सकते, हमारी स्त्रियाँ परिश्रम से बिमुख नहीं होतीं। इसीलिये हम पश्चियों के संसर्ग से दूर रहे। आलस्य और आराम का जीवन कूत की बीमारी है।

—संसर्ग से और भी हानियाँ हैं?

—संसर्ग से बचने का पूरा प्रयत्न करने पर भी हम निलेप नहीं रह सकते, यह तो तुम्हें मालूम ही है। आर्य नारियों की इस विषय में प्रशंसा करनी चाहिए। पर, आर्य पुरुषों के बारे में वही नहीं कहा जा सकता। उन्हीं के दोष के कारण अनार्यों में आर्य-वर्ण के आदमी देखे जाते हैं। पहिले पूरी तौर से कढ़ाई नहीं बरती गयी। समझते थे, अनार्य स्त्री से हुई आर्य सन्तान आखिर अनार्य होकर उन्हीं में रहेगी। इसलिए उससे हमारी क्या हानि? पर यह विचार गलत है। एक जन में जन्मा ऐसा पुरुष दूसरे आर्य जन में जाकर अपने वर्ण को दिखाकर आर्य होने का दावा कर सकता है, ऐसा होते देखा गया है। इसीलिये आर्य स्त्री-पुरुष का अनार्य स्त्री-पुरुष से सम्पर्क किसी प्रकार भी सद्य नहीं होना चाहिए।

—लेकिन, अनार्य दास-दासियों के बिना हमारा काम भी तो नहीं चल सकता? भुजु ने कहा।

—यही तो हमारी निर्बलता है। इसी से तो भविष्य में खतरा है। लेकिन आशा रखनी चाहिए। इन्द्र अपने भक्तों की शुद्धता-बीरता को रक्षा करेंगे। उन्होंने समय-समय पर हमारी रक्षा भी की है। पुरुरवा ऐल के समय पश्चियों ने सिर उठाना चाहा। पर इन्द्र की सहायता से वह उन्हें दबाने में सफल हुआ। उसके पुत्र नहुष ने बड़ा पराक्रम दिखलाया जिसके कारण ही मनुष्यों को नाहुषी प्रजा करते हैं। नहुष-पुत्र यम्भाति और दस्युहन्ता मन्धाता अपनी बीरता और इन्द्र भक्ति के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं।

—इसीलिए आर्यों को निराश होने की जरूरत नहीं, जिनका

नेतृत्व करने के लिए आज भी इन्द्र पहिले ही की तरह प्रस्तुत है।— दिवोदास ने सन्तोष प्रकट करते हुए कहा।

\* \* \*

इन्द्र आयों को अपनी भवित्व से विमुख होते नहीं देख सकते। इसके लिए वह दंड देते हैं। दिवोदास के शृणिकुल वास के अन्तिम समय इन्द्र ने ऐसा ही किया। ग्रीष्म के आरम्भ का समय था। सूर्य का आतप कठोर हो चला था। भरद्वाज-ग्राम के पास के खेत कट चुके थे और जौ के डंठलों को भी पशु खा चुके थे। मध्याह की धूप में तपते वह भयावने लगते थे। पर उनसे थोड़ा ही आगे जंगलों में ग्रीष्म का प्रभाव कम दीख पहता था। पलाश के हरे-हरे नये पत्ते देखने में बड़े सुन्दर मालूम होते थे। अश्वत्थ, बट, जैसे विशाल और छायादार बृक्षों ने गर्मी को कम करने में सहायता करते थे। दोपहर के समय पशु चरकर बड़े बृक्षों की छाया में बैठे जुगाली कर रहे थे। गोपाल भी उनके पास निश्चन्त लेटे पढ़े थे। श्वापदों का रात के बक्क मी यहाँ डर नहीं था, दिन की तो बात ही क्या।

इसी समय ग्राम की ओर से कोलाहल सुनाई दिया। दिवोदास अपने मित्रों के साथ अरण्य के आरम्भ में एक आम्रबृक्ष के नीचे बैठा था। ग्राम में आँखें भर के हरे-हरे फल पत्तों से भी अधिक और अधिकतर गुच्छे (ध्वद) के रूप में थे। यही चर्चा चल रही थी कि अब के साल हमारे जंगलों में ग्राम के फूल को कोई नहीं पूँछेगा। मनुष्य ने अभी फलों के आकार और मिठास को बढ़ाने का काम अपने हाथ में नहीं लिया था। इसलिए प्रकृति ने जिसको मीठा बनाया, वही मीठा था।

कोलाहल सुनकर उनका ध्यान गाँव की ओर गया। फिर लोगों को नदी की ओर देखते उनकी भी नजर उधर गयी। आर्जिकीया की धार सबेरे से दूनी चौड़ी थी। निचले गोष्ठों के बेरे में पानी पहुँच चुका था। दिवोदास अपने साथियों को लिये ग्राम की ओर दौड़

पड़ा। वहाँ पहुँचते ही कानों में गायों और बछड़ों की कहण  
आवाज आई। बाड़े में पानी बढ़ता जा रहा था। गाय-बछड़े तैरते  
हुये चिल्ला रहे थे। लकड़ी की ऊँची दीवारों को फाँदकर वह मुक्त  
स्थान में नहीं जा पा रहे थे। लोग अपने-अपने घरों से चीजों को  
निकालकर ऊपर के ऊँचे स्थान की ओर ढो रहे थे। पानी बड़ी तेजी  
से बढ़ रहा था। दिवोदास और उसके मित्रों ने रस्सियों को काटकर  
गोष्ठ के फाटक को खोल दिया। गायें और बछड़े बाहर निकलने  
लगे। लेकिन तब तक पानी आधे ग्राम में पहुँच चुका था। ऋषि की  
पर्णशाला पानी में आ गयी थी। आयों के खाद्य में सत्त् और जौ को  
ही हानि पहुँच सकी। उनके पशु बच गये। पर वस्त्र, वर्तन दूसरी  
अनेक वस्तुओं के निकालने का मौका नहीं मिल सका। शुरू में वह  
जान ही नहीं सके कि क्या हो रहा है? ग्रीष्म में इस तरह की बाढ़  
कभी नहीं देखी थी। पहिले पानी को बढ़ते हुए देखकर विशेष ध्यान  
नहीं दिया। पर, जब पानी खतरे का रूप ले चुका, तो उन्हें अपनी  
वस्तुओं के बचाने का अवसर कम रह गया। वह इतने घबड़ा गये कि  
गोष्ठों के फाटकों को खोलकर गायों के मुक्त करने के बारे में भी नहीं  
सोच सकते थे। फिर तो एक और आदमी दौड़कर बचने की कोशिश  
कर रहे थे दूसरी ओर पानी विशाल अजगर का रूप लेकर उनका  
पीछा कर रहा था। विपाश (व्यास) का पानी इतनी दूर तक फैल  
गया था, जितना बरसात में भी कभी नहीं देखा गया था।

मटमैले पानी में सैकड़ों वृक्ष, कितनी झोपड़ियाँ वही जा रही थीं,  
जिनमें कुछ पर मनुष्य भी बैठे थे। कितने ही पशुओं की फूली लाशें  
उतराती वह रही थीं। कितने ही जीवित तैर कर बाहर निकलने की  
कोशिश कर रहे थे। भयानक हृश्य था। पानी को बढ़ता देखकर लोग  
आशा छोड़ बैठे। जिसे पेढ़ वह चढ़े हुए थे, उसका भी क्या ठिकाना?  
पानी उसे भी बहा ले जा सकता था। जब तक पानी के बढ़ावने का  
नाम नहीं लिया, तब तक वह कैसे ढारस बाँध सकते थे? ऋषि भरद्वाज

एक विशाल बट वृक्ष के ऊपर बैठे यह सारा हश्य देख रहे थे। उसी बट के ऊपर और भी कितने ही शिष्य और नर-नारी आश्रय लिये हुए थे। उन्हें ढाढ़स तो बँधाना ही था।

ऋषि ने कहा—

इन्द्र हमारे अपराध के लिए जरूर दण्ड देंगे। आर्य अपने पुराने धर्म-कर्म को भूल गये। इसीलिये यह अकाल में जलौघ आया। श्रीम का दिन है, आसमान नीला और निरञ्ज है। ऐसे समय में नदी में कैसे बाढ़ आयी? इन्द्र ने विपाश को दण्ड देने के लिए भेजा! अब भी आर्य चेते।

---

## ५. 'दिवोदास राजा'

( ११६५ ई० पू० )

'अग्निनरनामी वृत्रहा पुरुचेतन दिवोदासस्य सत्यतिः'

दिवोदास बीस साल का हो गया । भरद्वाज ऋषि के पास उसे जो कुछ सीखना था, सीख चुका था । ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र गर्ग भी अपने योग्य पिता की योग्य सन्तान थे । पर उनका स्नेह शिष्य और पुत्र में से किस पर ज्यादा था, यह कहना मुश्किल था । ऋषि 'ब्रह्मदण्ड' थे, मंत्र और देवता दोनों का उन्होंने साक्षात्कार किया था । वह पुरोहित मात्र नहीं थे, बल्कि युद्ध की कला में निपुण थे । साथ ही आर्यों की महत्वाकांक्षा के प्रतीक थे । आर्य आपसी फूट के कारण जर्जर हो रहे थे, जिससे पुराने या नये शत्रुओं के सिर उठाने की पूरी संभावना थी । वध्र्यश्व ने आर्य-प्रसुता को सुरक्षित रखने में बड़ी सहायता की लेकिन इस काम को वह पूरा नहीं कर सका । ऋषि को रात-दिन यही धुन थी कि कैसे सप्तसिन्धु के आर्यों में एकता स्थापित हो, कैसे उनका बल बढ़े और कैसे अपराजित शत्रुओं को नतमस्तक किया जाये । इस भाव को वह अपने शिष्यों में भर रहे थे । दिवोदास, भुज्यु, कुत्स, कुरुविन्द जैसे तत्त्वज्ञों के ऊपर उन्हें पूरा विश्वास था ।

जिस सूमय इस प्रकार गुरु और शिष्यों में आशा बढ़ रही थी, उसी समय एक अश्वारोहन ने आकर समाचार दिया—वध्र्यश्व अपने पितरों के पास चला गया । ऋषि और सारे कुल में यह

समाचार सुनकर विषाद छा गया। वसंत के सुहावने दिन काले मालूम होने लगे। दिवोदास धैर्य का पुतला था, पर यह अपने अत्यन्त प्रिय पिता का सदा के लिए वियोगी था। उसके हृदय पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। ऋषि ने सान्त्वना दी—ब्रह्मशब्द सुझसे छोटे थे, पर वृद्ध तो हो ही गये थे। आज नहीं, तो एक दिन सभी को इस संसार से विदा होकर पूर्वजों के पास पहुँचना है। तुम्हारे पिता ने वह काम किया, जिसे मनु-मन्धाता ने किया था। सारा सप्तसिन्धु उनकी वीरता और बुद्धि की प्रशंसा करता है और करता रहेगा। उन्होंने तुम्हारे जैसे पुत्र को सप्तसिन्धु के लिये प्रदान किया। पिता के वियोग का दुख कुछ समय में मिट जायेगा। तुम्हें अपने कर्तव्य का व्यान करना चाहिए और इस महान् भार को उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। तृत्सु-भरत ही नहीं, सारे आर्य तुम्हारे कष्ट में सहानुभूति रखते हैं, सभी तुम्हारे ऊपर आशा लगाये हुए हैं। तृत्सु चृद्धों ने तुम्हें शीघ्र बुलाया है और मुझे भी, जिससे कि तुम्हारा अभिषेक कराऊँ।

दिवोदास को यह जानकर और भी सन्तोष हुआ कि उसके दुख का भार बैठाने के लिए गर्ग, भुज्यु, कुत्स जैसे गुरु-पुत्र और गुरु-भाई तैयार हैं। गुरु-पत्नी सदा दिवोदास को पुत्रवत् मानती थीं। इस स्नेह में उनका भरतों की कन्या होना भी कारण था। दिवोदास के अश्रु उतनी देर तक नहीं जारी रहे, जब तक कि गुरु-पत्नी के। इसी परिस्थिति में भरद्वाज ने अगले दिन भरत-जन में जाने का निश्चय मुनाया।

गुरु, गुरु-पत्नी, पुत्र, स्तुषा, बहुत से शिष्य ही नहीं, बल्कि भरद्वाज के बंश के अनेक सूरि तथा तरुण भी अपने अश्रवों को तैयार करने लगे। उनके साथ पशुओं की देख-रेख दृश्य सेवा के लिए सैकड़ों दास-दासियों का जाना भी आवश्यक था। भरतों के राजा के अपने कुछ निश्चित निवासस्थान थे पर कहीं भी वह परिणयों

की तरह के स्थायी घरोंवाले नहीं थे। उनके इस तरह के समारोह परुष्णी रावी के किनारे ही हुआ करते थे, वश्र्यश्व का देहान्त उसी जगह हुआ, जहाँ अश्व समन रखाया जाता था। परुष्णी के किनारे पहुँचने में बहुत दिनों की आवश्यकता नहीं थी। भरद्वाज, दिवोदास तथा दूसरे प्रधान पुरुषों को लिये दूसरे ही दिन वहाँ पहुँच गये।

पौरबी के धैर्य का बन्धन ढूट गया था। दिवोदास को देखते ही वह उसको अंक में ले फूट-फूटकर रोने लगी। ऋषि ने समझाया—“शब की दाह किया और उससे भी अधिक अभिषेक का प्रबंध सबसे पहिले करना है। तुम ऐसे धैर्य को खो दोगी, तो काम कैसे चलेगा?”

इसी भूमि में किसी समय सप्तसिन्धु के सभी जनों को अश्व-समन में एकत्रित हुए हम देख चुके हैं। वश्र्यश्व का सभी सम्मान करते थे। आर्यमात्र उसकी सफलताओं को अपनी सफलता समझते थे, यह बात नहीं थी। कुछ भीतर ही भीतर इस स्थाल से जलते थे, कि वह हमसे क्यों आगे बढ़ा? जलनेवाले अधिकतर जनों के प्रमुख (राजा) ही थे।

परुष्णी (रावी) के बाम तट पर एक विशाल चिता चुनी गयी। वश्र्यश्व के शब को उठाकर दिवोदास तथा भरत सूरियों ने उस पर रखा। दिवोदास ने आग दी। भरद्वाज ने ऋचाएँ पढ़ीं।

“उन पुरुषिले पथों से (वहाँ) जाओ, जहाँ हमारे पूर्वज पितर गये। (वहाँ) तुम यम और वशण दोनों राजाओं को स्वधा से आनन्दित देखोगे। हे यम, रक्षा करनेवाले पथिरन्दी मनुष्यों की देखभाल करनेवाले चार आँखोंवाले जो तुम्हारे दोनों शवान हैं, हे राजा, इसे (मृत को) उनकी रक्षा में दो, इसे स्वस्थ और निरोग करो।” (ऋक्, १०।१४५७, ११)

कुछ ही समय में वश्र्यश्व का कलेबर भस्मसात् हो गया, पर उसका यश अब भी जीवित रहा।

X                    X                    X

सारे लोग अभिषेक की तैयारी में जुट गये। पौरवी को एक महान् विश्वाद के बाद अब महान् हृष्ट का समय देखना था। उसके ऊपर सबसे बड़ा भार था। राजपत्नी होते समय भार राजा के ऊपर अधिक था और अब वह था नवतरण अनुभवशून्य भावी राजा की माता की मा के ऊपर। भरद्वाज मार्गदर्शक थे, इसलिए सभी को सान्त्वना मिली। उन्होंने सारे सप्तसिन्धु के आर्यजनों में भरतों के राजा की मृत्यु और नये राजा के अभिषेक में आने का निमंत्रण भेजा। परिण होते, तो इस वक्त पट्टी पर लिखकर संदेश भेजते, लेकिन आर्य पश्चियों की कितनी ही उपयोगी बातों को भी अनायाँ की होने के कारण अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। भरद्वाज के भेजे सन्देश मौखिक थे। उनके बाहक तेज घोड़सवार चारों ओर छूटे। किसी का सप्तसिन्धु से पश्चिमी छोर पर रहनेवाले पख्तों और गंधारि-जनों में जाना था और किसी को पूर्वी छोर के आर्यजनों-कुशिकों के पास। चशिष्ठ और कुशिक जन के प्रधान नेता विश्वामित्र यद्यपि अभी तरुण थे, पर वह भी निमंत्रित किये गये थे।

बसन्त का अभी अन्त हो रहा था, ग्रीष्म आरंभ नहीं हुआ था, इसलिए निमंत्रितों को ऋतु की शिकायत नहीं हो सकती थी। एक बार फिर पक्ष्यस्ती के तीर के घने जंगल, दूर तक मानवों की बाणी से मुखरित हो गये। उनमें पशु विचरने लगे। हिंस्त जन्तु मानवों के डर के मारे भाग गये। पौरवी ने मुक्त हस्त हो अतिथियों के सल्कार का प्रबंध किया। सबेरे ही प्रसथों सोम, घड़ों क्षीर और मधु हरेक डेरे पर पहुँच जाते। उसी समय, बेहद, वृषभ ( पहिली गाय ) बत्सतरी, अजा और अवि सहपान का प्रबंध प्रातः माध्यनिदन और सायं-सवनों में वश्र्यश्व की गार्हपत्य भेजी जाती। इनके अतिरिक्त आर्यसुरियों के सहभोज और सहपान का प्रबंध प्रातः माध्यनिदन और सायं-सवनों में वश्र्यश्व की गार्हपत्य अग्नि की परिचर्या के समय होता। मनुष्य भी कैसा प्राणी

है। एक की मृत्यु ने सब को दुःखसागर में हुबो दिया था। अभी आँसू सखने नहीं पाया कि लोग चारों तरफ आनन्द-मंगल मना रहे थे।

पर, सभी आगत अतिथियों की यह बात नहीं थी। पुरुषकुत्स बेमन-सा आया था, यद्यपि उसके ही भाजे का यह अभिषेक था। पुरुषों का राजा होने के कारण वह पुरुषों के सभी जनों ही नहीं, बल्कि सारे आर्यजनों का अपने को जन्मजात मुखिया मानता था। वश्र्वश्व यदि अपने गुणों से प्रसिद्ध बना, तो इसमें उसका क्या दोष। वह अपने बहनोंई के सामने अधीन के तौर पर विनम्रता दिखलाता। दिवोदास भी अपने मामा के प्रति पिता से कम सम्मान नहीं दिखलाता था। इसी तरह यदु और तुर्वश जन भी शिष्टाचार दिखलाने के लिए यहाँ आये थे। उनकी पुरुषों से सदा प्रतिद्वन्द्विता रही। जब भरत आगे बढ़ गये, तो उनकी हृष्टि फिर गयी। वश्र्वश्व के प्रति असन्तोष या द्वेष वस्तुतः सारे जनों में नहीं देखा जाता था। वह उनके सूरियों-सामन्तों तक ही सीमित था। पौरव नृप का अनुकरण उसका पुत्र त्रसदस्यु नहीं करना चाहता था। वह अपने फुफेरे भाई के साथ यमल की भाँति उपस्थित रहता।

अभिषेक का दिन आया। प्रातः सबन के बाद सुख विधि की गई। काष्ठ-पीठ रखा गया। आर्य-जन अपने साथ अपनी नदियों के जल ताँचे के कलशों में लाये थे। जो वहीं रक्खे हुए थे। सातों सिन्धुओं के उसी जल से दिवोदास का अभिषेक हुआ। सूरियों ने बारी-बारी से इस विधि को समाप्त किया। दिवोदास को नया अन्तर्वासिक, नई द्रापि और नया उष्णीष पहनाया गया। ऊँची वेदी पर बिछे ताजे वृषभ चर्म पर उसे भरद्वाज ने ले जाकर बिठाया, और हाथ में पलाश का ढंड देते हुए कहा—

—तुम्हें (यहाँ) लाया, (देश के) भीतर बढ़ो, अचल और ध्रुव बने रहो। सारी प्रजाएँ तुम्हें चाहें। तुम्हारा राष्ट्र (राज्य) भ्रष्ट न ही ॥१॥

यहीं रहो पर्वत की तरह अचल रहो, च्युत मत होओ। इन्द्र की तरह यहाँ श्रुत रहो, इस राष्ट्र को धारण करो ॥२॥

श्रुत हवि द्वारा इन्द्र ने इस श्रुत को स्थापित किया। उससे सोम बोले और उससे ब्राह्मणस्पति भी (बोले) ॥३॥

द्यौ श्रुता (अचल) है, पृथिवी श्रुता यह पर्वत भी श्रुत है। यह सारा जगत श्रुत है, प्रजाओं का यह राजा श्रुत होवे ॥४॥

“तुम्हारे राजा वरण श्रुत हैं, वेव वृहस्पति श्रुत, वह इन्द्र और अग्नि श्रुत। (वे) राष्ट्र को धारण करें ॥५॥

“श्रुत हवि द्वारा, श्रुत सोम को हम मिलाते हैं। इन्द्र, तेरी प्रजा को एकता परायण और कर-प्रदाता बनायें ॥६॥ (ऋक्, १०।१७३)

दिवोदास ने आर्यविशों (प्रजाओं) के सामने शपथ दोहरायी। विश ही राजा को बनाते हैं। उन्हीं की सहायता से वह अचल रहता है।

इसके बाद नये राजा के लिए लोगों ने शुभकामनाएँ अर्पित कीं। सर्वप्रथम ऐसा करने का अधिकार पुरुकुत्स को था। यह कहना पढ़ेगा कि उस अवसर पर उसने दिल खोलकर अपने भाजे के लिए मंगल कामना की और कहा—“दिवो की योग्यता की प्रशंसा मैं विशेष पक्षपात के कारण नहीं करता। मुझे पूरा विश्वास है, वह अपने पिता के यज्ञ को आगे बढ़ायेगा। मैं उसे देखने के लिए रहूँगा कि नहीं, यह नहीं कह सकता, पर, यह हीं की बात है कि मेरा पुत्र त्रसदस्यु और दिवोदास का आपस में प्रेम सहोदरों से भी बढ़कर है।”

विशिष्ठ, विश्वामित्र आदि पौरव जनों के मुखियों के हार्दिक उद्गार प्रकट करने के बाद दूसरे आर्यजनों की ओर से भी शुभकामना प्रदर्शित की गयी। यदुओं और तुर्वशों की कुछ बातें लोगों ने पसन्द नहीं कीं। वन्न्यश्व की प्रशंसा करते हुए वह यह कहे बिना नहीं रहे, कि उस राजा ने कभी-कभी उतावलेपन का परिचय दिया।

आशा है, पुत्र पिता से अपने को अधिक दूरदर्शी और सौम्य सावित करेगा।

दिवोदास ने सभी आर्य बंधुओं के प्रति भारी आभार प्रदर्शित करते हुए नम्रतापूर्ण शब्दों में यदुओं और तुर्वशों के लिए विशेष सम्मान प्रदर्शित किया। यदु और तुर्वश हमेशा सप्तसिन्धु में सर्वश्रेष्ठ वीरों को पैदा करते रहे। दस्युओं के दमन करने में उनका सदा विशेष हाथ रहा। बल्कि कहा जा सकता है कि अन्य आर्य-जनों ने यदि प्रतापी राजाओं को पैदा किया, तो यदु-तुर्वशों ने अपने जन के एक-एक तश्शण को महावीर बनाया, उनमें स्वच्छन्दता का भाव भरा। हरेक आर्य के लिए उन्होंने अनुकरणीय आदर्श रखा। मैंने उनसे बहुत सीखा है। इन्द्र मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे इस योग्य बनायेंगे कि मैं आप लोगों के वात्सल्य और विश्वास को प्राप्त करूँ। मेरे गुरु मुझे कभी पथभ्रष्ट होने नहीं देंगे।

अभिषेक की समाप्ति के बाद सायं-सवन में इन्द्र के लिए हवन हुआ। अनेक प्रकार के पुरोडाश और स्वादिष्ट सोम से अतिथियों का सत्कार किया गया। हरेक उत्सव का अन्त होता ही है, और उसके साथ स्वजनों के वियोग का विषाद हुए विना नहीं रहता। दो ही तीन दिनों में सारे अतिथि अपने आवासों को छोड़कर चले गए। दास-दासियों और दरिद्र परिणयों ने जगह को ढूँढ़ा-टटोला। यदि किसी को कोई ताँबे की छुरी, बाण के फला या पुराने चमड़े, दूटे-फूटे काष्ठ-चपक या और कोई चीज मिल गयी, तो उसने उक्त अतिथि की प्रशंसा की। किसानों को अपने खेतों के लिए बहुत-सी खाद मिली। वह भोपड़ियों के फूस और काष्ठ को उठा के ले गए। कितने ही दिनों तक जबर्दस्ती बेगार करने का उन्हें यही लाभ मिला।

अग्निदेव दिवोदास के सत्यति (सच्चे स्वामी) थे, तो भी तश्शण राजा को अपने दायित्व का पता था। वह किसी बात को भी बिना अच्छी तरह विचारे तथा अपने गुरु की सलाह विना नहीं करता था।

उस के जैसे तरुण में इतनी नम्रता शायद ही देखने को मिले। भरद्वाज ने उसे साधारण शिष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया था; बल्कि उस पर बड़ी-बड़ी आशाएँ बाँधी थीं। एक बार उत्तर के बृहत् पर्वतों (हिमालय) की ओर से खबर आयी कि किलातों ने उस पश्चिमांग को लूट लिया, लोगों को मार डाला, जिसमें दिवोदास और उसके साथी तिंह के आखेट के समय गये थे। इसी प्रसंग को लेकर भरद्वाज ने कहा—“आज हमारे शत्रु पश्चियों में मुकाबिला करने का दम नहीं है। निषाद सिन्धु की भूमि में बहुत कम हैं। हमारे वास्तविक शत्रु यही उत्तर के पहाड़ी किलात (किरात) हैं।”

—लेकिन, किलात तो शस्त्रबल और बुद्धिबल में हमारे सामने कोई स्थान नहीं रखते।

“इन बातों में भले ही निर्वल हों, लेकिन उनमें बड़ी शक्ति है। उनका निर्भीक और संघबद्ध होने की मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊँ, कथा नहीं वास्तविक घटना। तीस वर्ष पहिले की बात है, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। शलभों (टिंडियों) की बाढ़ आयी, बाढ़ नहीं महाप्रलय! लोगों ने समझा था, अब मनुष्य या प्राणी पृथ्वी पर नहीं रह जायेगे।

—क्या इन पतिंगों का इतना आतंक छा गया था?

—हाँ, सुनो! मैं विपाशा के किनारे अपने लोगों के साथ था। तरुणों में साहस और उत्साह की कमी नहीं होती। मध्याह्न-सवन के बाद मैं कच्छ के खेतों में धूम रहा था, जौ फूट चुके थे, दाने दिखलाई पढ़ते थे, पर वह अभी पुष्ट नहीं हुए थे। फसल इतनी अच्छी थी, जिसे देखकर हमें हर्ष हो रहा था। हमें क्या, देवों को भी प्रसन्नता हो रही थी। अब के वर्ष दिल खोलकर हर रोज यवर्णिशर (जौ के खीर) का पुरोडाश तैयार किया जायेगा। मैं और मेरे साथी इसी तरह की बातें करते खेत की मेड़ों पर धूम रहे थे। इसी समय कुछ हल की-सी घरघराहट पश्चिम की ओर सुनाई दी। उधर देखा, तो

लम्बे-लम्बे शलभ पश्चिम से उड़ते आ रहे हैं। पहले वह ऊपर की ओर आकाश में दूर-दूर दिखलाई पड़ते थे, लेकिन क्षितिज की ओर इष्टिपात करने पर उनकी संख्या और अधिक मालूम हुई। योड़ी ही देर में पश्चिमी क्षितिज पर काली घटा-सी आयी। घटा धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही समय बाद सूर्य उनके भीतर छिप गया—पूर्ण ग्रहण का दृश्य था। हमने भी शलभों के उत्तातों के बारे में सुना था, लेकिन यह स्थिति कभी नहीं हुई थी। पहिले वह शत-सहस्र की संख्या में पेड़ों पर उतरे। फिर हमारे जौ के खेतों में दिखाई देने लगे। लाखों मैं हौं जौ में चिपट गये। उनके खाने की चर-चर आवाज साफ सुनाई देती थी। वह हमारे ऊपर गिरने लगे। कहीं-कहीं काटा भी। हम खेत छोड़कर घर की ओर भागे। एक-एक जौ पर सैकड़ों पड़े थे। उनके सामने जो कुछ भी आया, उसे उन्होंने उदरस्थ किया। हमारे छपरों पर पड़े, आँगन में बिछू गये। यदि दरवाजों को बन्द न करते, तो घरों में भर जाते। हम ने साधारण पतंगों को निरीह समझा था, लेकिन, ये भयंकर थे। हल्की निर्बल फूस की छुतें उनके भार से दबकर नीचे गिर गयीं।

अन्धेरा होते शलभ (टिड़ी) किसी जगह सुस्ताने के लिए बैठ जाते और सूर्योदय के साथ फिर उड़ने लगते। उनकी जुधा कभी तृप्त होने वाली नहीं थी। पहिले दिन की बाढ़ में जो सस्य या हरी पत्तियाँ बच गई थीं, वह दूसरे दिन साफ हो गईं। सायंकाल तक हरियाली कहीं देखने को नहीं रही। तीसरे दिन तो उन्होंने खूनी का रूप ले लिया। खाने के लिए पत्ते नहीं रह गये थे, इसलिए वह प्राणियों के ऊपर चिपक जाते। हमने अपनी आँखों नहीं देखा, पर अविश्वास का कारण भर्ही। उन्होंने घर से बाहर मिले मनुष्यों को भी खाकर हड्डी मङ्ग छोड़ा। हमने रक्षा के लिए अग्निदेव की शरण ली। लकड़ियों की राशि में आग लगा दी। आग के सामने शलभ की क्या हस्ती। पर, उस बक्स मालूम हुआ, निर्भीकतापूर्वक संबद्ध होने

से कितनी अपार शक्ति पैदा होती है । अग्निस्तकन्ध उनके लिए भय की चीज़ नहीं थी । वह और उत्साह के साथ उसी की तरफ बढ़ रहे थे । मुलस कर वह उसमें गिर जाते । असंख्य शलभों के सामने अग्निदेव को भी परास्त होना पड़ता । उन्होंने अग्नि को ढाँककर बुझा दिया । उनके शरीर से इतना जल निकला की वह अग्नि को शान्त करते हुए भूमि पर फैल गया ।

—सचमुच आश्चर्य की बात है ।

—आश्चर्य की ही नहीं, अविश्वास की भी है । जिसने अपनी आँखों नहीं देखा, वह कभी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा । रास्ते में जितने लोग मरे, उनका अन्दाजा करना कठिन है । पर, मरने वालों को छोड़, बाद रास्ते में महाप्रलय का चिह्न छोड़ती गयी । मनुष्य ने कायर की तरह धरों में छिपकर अपनी जान बचायी । यही कुशल था कि यह प्रलयलीला सारे सप्तसिंधु में नहीं मची । भरत, पुरु आदि कुछ ही जन इसके शिकार हुए थे । सब ने समझा, इन्द्र का कोप कितना भयंकर रूप धारण कर सकता है और इन्द्र की शक्ति पाकर पतंगा भी कितना बलवान् बन सकता है । उसी समय यह भी शात हुआ कि जिन शत्रुओं में शलभ की जैसी प्रकृति पाई जाती है, वह युद्ध में कितने भयंकर हो सकते हैं । किलात ऐसे ही हैं ।

वध्र्यश्व ने आयों की शक्ति को एकताबद्द करने का कार्य आरंभ किया था, जिसमें उसे पर्याप्त सफलता भी मिली । उसके न रहने पर उस काम को बहुत धक्का लगा । फिर सप्तसिंधु में हर जगह फूट के चिह्न दिखाई पड़ने लगे । यह बड़े सौभाग्य की बात थी, कि दिवोदास को भरद्वाज जैसा सहायक और मार्ग-प्रदर्शक मिला । \*

## ६. “गांधर्व गृहीता कुमारी”

(११६५ ई० पू०)

“अचैर्मा दीव्य : कृषिमित् कृपस्व”

अपने जन को सब तरह से सुखी और समृद्ध बनाने का निश्चय दिवोदास ने कर लिया था। अपने परिवार के लिए उसे चिन्ता नहीं थी। पिता द्वारा अर्जित पशु और धन उसके पास पर्याप्त था। अपनी स्वाभाविक रुचि तथा श्रृंगि की शिक्षा के कारण उसमें कोई व्यसन नहीं था। सरल, परिश्रमी जीवन उसे पसंद था। पर, जब तक सारा जन कष्ट से मुक्त न हो, तब तक वह कैसे चैन ले सकता था? विपाश (व्यास), शुतद्रु और पश्चणी के बीच की अपनी जन्मभूमि में वह केवल अपने पशुओं के साथ विचरण नहीं करता था। बल्कि अपने लोगों को समीप देखने, उनके साथ घनिष्ठता स्थापित करने के लिए भी ऐसे करते समय एक बार उसका ग्राम (समूह) पश्चणी (रावी) के किनारे बहुत उत्तर में पड़ा हुआ था। राजा का कर्तव्य था, लोगों के पारस्परिक झगड़े को दूर करना। प्रातः सबन की क्रिया से निवृत्त हो एक दिन वह बैठा ही था कि एक आदमी को पकड़ कर उसके सामने लावादी ने कहा—

—यह हमारा श्रृंग धारण करता है और उसे देना नहीं चाहता।

प्रतिवादी ने आर्त स्वर में उत्तर दिया—मैं इसका श्रृंग धरता हूँ अवश्य, पूँ मेरे पास देने को कुछ नहीं है।

वादी ने कहा—इसके माता-पिता हैं, सास-सुर हैं। उनके पास धन है यह चाहे तो दे सकता है।

पुरुष ने कहा—सास मुझसे द्रेष करती है, लड़ी ने मुझे छोड़ दिया है। कोई मुझे देने वाला नहीं है। जैसे मूल्यवान् बूढ़े धोड़े को लोग छोड़ देते हैं, वैसी ही मेरी दशा है।

वहाँ कितने ही और नर-नारी भी इकठा हो गये। पुरुष के संबंधी भी आ गये।

माता-पिता की ओर संकेत करके बादी ने कहा—

—यह इसके माता-पिता हैं। इनकी वस्त्र-भूपा देखने से ही जान सकते हैं कि यह दरिद्र नहीं हैं।

इस पर पिता ने कहा—हम ने कह दिया था कि इसे बाँधकर जहाँ चाहो ले जाओ, हम इसे नहीं जानते। जुआरी का कोई अपना नहीं होता।

दिवोदास को अब चात का रहस्य ज्ञात हुआ। पुरुष ने ऋण नहीं लिया था, बल्कि जुए में हारा धन उस के लिए ऋण हो गया था।

दिवोदास ने पूछा—इसकी लड़ी कहाँ है?

पुरुष की माता बीच में बोल उठी—इसी से पूछो कि मेरी स्तुषा (बहू) कहाँ है?

जुआरी ने उत्तर दिया—वह न मुझे कष्ट देती थी, न क्रोध करती थी। मेरे और मेरे मित्रों के लिए कल्याणी थी। केवल जुए के बस में पड़ने के कारण मैंने अपनी अनुरागिणी जाया को विरक्त कर दिया।

एक दर्शक बोल उठा—और आज वह दूसरे के पास चली गयी। बेचारी कब तक सहती? तंग आ गयी थी। यह उसे भी दौब पर रखनेवाला था। उस दिन छाती फुलाये कह रहा था—“आज मैं अवश्य जीतकर आऊँगा।” और आया सर्वस्व हारू कर। ऋण लेकर खेला। एक दिन किसी एक घर में चोरी करने द्वासा, पकड़ा गया। संबंधी थे। माता-पिता का स्थाल करके छोड़ दिया।

पिता ने कहा—इधर कई दिनों से यह घर से गायब था। रात को भी नहीं आता था। जुआरी ने अपना अपराध स्वीकार करते गिङ्गिङ्गाते हुए कहा—मैंने ऐसा ही किया है। फलक पर धूमते पाँसे मुझे बेवस कर देते हैं। जैसे मुजवाह पर्वत का सोम (भाँग) वैसे ही यह काठ के पाँसे मुझे उत्तेजित करते हैं। मैंने कई बार प्रतिशा की कि अब इन के साथ नहीं खेलूँगा। पर अपने जुआरी मित्रों को छोड़ने का मुझे साहस नहीं है। जब भूरे पाँसे पटरे पर खटखट शब्द करते हैं, तो व्यभिचारिणी ऋषी की तरह मैं जुआरियों के मिलन-स्थान में जाने के लिए व्याकुल हो जाता हूँ।

दिवोदास देख रहा था, इस रोग में केवल वही पुरुष नहीं फँसा है। आयों में यह दुरुण बहुत पाया जाता है। बिना अम के धनार्जन का प्रलोभन उन्हें और खीचता है। वह देखते हैं, जुए के बल पर कोई धनी नहीं होता। एक बार जीतने वाला दूसरी बार सब कुछ गँवा बैठता है। आयों में सुरा का व्यसन नहीं-सा है। स्वादिष्ट सोम (भाँग) नशा का काम भी देता है और उसमें मर्यादा का अतिक्रमण भी नहीं होता।

दिवोदास ने जुआरी को संबोधित करते हुए कहा—पाँसों से भत खेलो, खेती करो। अपनी गायें और पशुओं से सन्तुष्ट रहो। सविता स्वामी का यही आदेश है।

फिर उसने उपस्थित लोगों से कहा—जुआ खेलना पाप है। इसमें दाँव पर पशु, दास-दासी या पल्नी को रखना अमृत (सत्य धर्म) के विशद्द है। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ। इसके बारे में अमृषि, जन के सूरियों तथा वृद्धों की सम्मति लूँगा। यदि वह मेरी बात को उन्नित कहेंगे, तो अज (जुआ) खेलना दरडनीय अपराध माना जायेगा।

दिवोदास ने उस दिन अपने लोगों की एक बहुत कमज़ोरी पकड़ी। भरद्वाज और दूसरे जन-वृद्ध उससे सहमत हुए। पर अमृषि

ने यह भी कहा—खाली समय और विना मेहनत का धन कमाने का मनोभाव आयों को अच्छ की ओर खींचता है। पश्चियों में भी यह व्यसन बहुत है। आयों में अवसर न मिलने पर वह उन के पास जुआ खेलने चले जायेंगे। छिपकर खेलेंगे।

हाँ, वहाँ वह उतना ही हार सकेंगे, जितना उनके पास उस समय है।

दिवोदास ने कहा—इसके लिए क्या यह अच्छा नहीं होगा, कि लोगों को धनार्जन के काम में लगा दिया जाय।

धनार्जन के काम में बराबर लगे रहने पर आदमी का मन उकता जाता है। इसलिए वह क्रीड़ा और विनोद में अपना समय बिताना चाहता है। कृषि और पशुपालन धनार्जन ही का काम है ना?

—जुए को निषिद्ध करके हम उसके द्वारा धन हारने को बहुत सीमित कर सकेंगे। इससे कुछ तो लाभ होगा—दिवोदास ने कहा।

—कुछ क्या बहुत लाभ होगा, पशु-प्राणियों को जुए में हारा नहीं जा सकेगा। शृण ले कर भी खेलने की संभावना कम रह जायेगी पर इस व्यसन को दूर करने के लिए हमें और भी सहारे लेने हैं। नर-नारियों के विनोद के लिए अधिक अवसर प्रदान करने का प्रबंध करना चाहिये।

—वह कौन हो सकते हैं?

—मैं देर से इस पर सोचता आ रहा हूँ। शृणि ने कहा, पूर्वज शूषियों ने समन इसीलिए प्रचलित किये। नृत्य और साम गान उसी के लिए है। किन्तु, इसके लिए अवसर कम होते हैं। आयोजन भी कम होते हैं। आयोजन भी आकर्षक नहीं किया जाता। ग्राम-ग्राम, ब्राज-ब्राज में इसका प्रचार करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का प्रबंध होना चाहिए। तुम्हारे पिता ने सारे सप्तसिन्धु के लिए जो अश्व-समन जारी किया। देखा, लोग उसकी ओर कितने आकृष्ट हुए? कितने चाव से उसमें सम्मिलित होते। यह समन ग्राम और ब्राज की प्रतिद्वन्दिता से

आरम्भ होना चाहिए। श्रेष्ठ अश्वारोहों, साम-गायकों, नर्तक-नर्तकियों, को प्रोत्साहन के साथ चुनकर उपर की प्रतियोगिता में लाना चाहिए। केवल इन्हीं बातों में ही नहीं, कृषि में भी चतुराई की प्रतियोगिता होनी चाहिए। काष्ठ, पाषाण, मिट्टी और अयः (ताम्र) के शिल्प में भी प्रतियोगिता की आवश्यकता है। वही ताम्र है, पर कुशल हाथों में पड़कर उसके कितने सुन्दर उपयोगी चमू, द्रोण, कलश आदि बर्तन अथवा खनित्र, असि, ऋषित्र आदि इथियार बनते हैं। अधिष्ठवण (चक्री), उलूखल, ग्रावा (सिलबट्टा) पाषाण के ही होते हैं। पर चतुर हाथों में जाकर वह कितने सुन्दर बन जाते हैं। इसी काष्ठ से उलूखल (औखल), तारोतल (चर्म वेष्ठित प्याले), कुचक (सन्दूक), तितड (छुलनी), मंथा, मयूख, (खूँटियाँ), शंकु (कीलें) आदि बनाये जाते हैं। पर निपुण हाथों की बनावट से उनमें कितना अन्तर मालूम होता है। मिट्टी के आसेचन (सैकी), उदंचन, उपसेचनी (भारी) कलश, कांडुप (सोम का प्याला), कुंभ, द्रोण नाक्षण (दबली), वृथा (रहट की माला) बनती है। उनमें सौंदर्य और विशेषता लाना हाथों की करामात है। क्षीर, धृत, जौ, मांस, मेद (चर्वी) यहीं तो हमारी भोजन वस्तुएँ हैं। पर, सभी के हाथों में स्वादिष्ट आशिर (दूध-सहित-सोम), गवाशिर, यवाशिर (जौ की खीर), पृष्ठदाढ़िय (धृत सहित दही), पुरोडाश नहीं बनता। कुशल सूपकार साधारण मांस का इतना स्वादिष्ट यूस (जूस) बना देता है कि एक बार खाकर उसे भूला नहीं जा सकता। हमारी सभी वस्तुओं, सभी कायाँ में नये कौशल तथा अपूर्व सौंदर्य उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इस ओर प्रोत्साहित करने पर लोगों के पास विनोद की कमी नहीं रह जायेगी। इसके कारण जहाँ उनके मन और बुद्धि अधिक समर्थ होंगे, वहाँ उनका शरीर भी अधिक कर्मयोग्य होगा। वह इन्द्र के कृपापात्र भी हो सकेंगे।

—इन्द्र को हम कभी नहीं भूल सकेंगे।

—अनु-इन्द्र होने का अर्थ है, घोर पराजय। भरद्वाज ऋषि ने

कहा, “इन्द्र हमारे अश्व, मेष, अजा, गो, नारियों और नरों का कल्याण करते हैं।”

—आगे बात को जारी रखते हुए शृंखि ने कहा—इन्द्र की कृपा और अपने प्रयास से मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? बेचारी विश्वला को जानते हों ना ? वही अगस्त्य की पत्नी । उसका पैर टूट गया था । पर एक कुशल कारु ने उसके लिए आयसी (ताम्रयुक्त) जंधा (धुटने का नीचे का पैर) बनाकर दे दी । दोनों अशिवनों ने उस कारु (कारीगर) की इसमें सहायता की थी । देव उसकी सहायता करते हैं, जो कार्य-परायण होता है ।

—हाँ हमें आर्य कारुओं को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

—पश्यियों की बनायी द्रापि (कंचुक) कितनी सुन्दर होती है ? यद्यपि वह स्वयं सूत की भी द्रापि नहीं पहिनते । उनके परिधान दूसरे ही प्रकार के होते हैं । द्रापि वह केवल हमारे लिए बनाते हैं और एक-एक द्रापि के लिए हमारा सबसे अच्छा एक घोड़ा और किसी-किसी के लिए दो घोड़ा ले जाते हैं । उसे भी हमें सीखना चाहिए ।

○ ○ ○

शृंखि के साथ दिवोदास, मुज्यु और कुत्स तथा कितने ही दूसरे भरतों के लिए उत्तर की ओर आगे बढ़ते गये । किलातों ने उधर कुछ उपद्रव किया था । वस्तुतः उसी के संबंध में यह अभियान था । सार्वकाल को एक आर्यग्राम में पहुँचे । ग्राम ने अपने राजा और शृंखि का बड़े उत्साह के साथ आतिथ्य किया । अभी वह अच्छी तरह बैठ भी नहीं पाये थे, कि किसी ने भुज्यु के कान में कुछ कहा । वह दिवोदास के पास जाकर बोला—गन्धर्व-यहीता कुमारी के बारे में हमने तो सुना अबश्य है, पर कभी अपनी आँखों से नहीं देखा । यहाँ इस समय एक कुमारी गन्धर्व-यहीता है, वह विचित्र बहौं कर रही है । कभी आयों की बाखी में बोलती है, और कभी पश्यियों की । आँखों से अदृश्य वस्तुओं के बारे में भी बतलाती है ।

—तब तो उससे किलातों के बारे में भी पता लग सकता है—  
दिवोदास ने कहा—चलो चलें।

दिवोदास अपने तीन-चार साथियों के साथ ग्राम के दूसरे छोर पर एक दम (धर) में गया। भीड़ लगी हुई थी। नारियों से नरों की संख्या कम नहीं थी। सविता अस्त हो चुके थे, पर अभी अँधेरा नहीं हुआ था। कुमारी धर से बाहर वृषभ-चर्म पर बैठी थी। उसके सुनहले बाल, कपदों (जड़ों) में बैंधे रहने के कारण अधिक धूँधराले हो पीठ और सुँह को ढँके हुए थे। उसका शरीर धीरे-धीरे हिल रहा था। राजा के लिए पास जाने का रास्ता देते लोगों ने बतलाया कि कुमारी दो घड़ी से गन्धर्व-गृहीता है। पहिले अंग-प्रत्यंग को बहुत हिलाती, बातें करती तथा गीतंगा रही थी। अब लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रही है।

कुमारी ने दिवोदास की ओर देखा और एक बोल उठी—  
भरतों का राजा दिवोदास, मेरी बात पर अवश्य विश्वास करेगा। यह किलातों के अभियान पर जा रहा है। किलात (किरात) बहुत अभिमानी हो गये हैं। वह आयों के धोड़ों और गायों को ही लूट नहीं से जाते, बल्कि नरों-नारियों, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। यह उनके चीटी के पंख हैं। दिवोदास अवश्य उनका संहार करेगा—इन्द्र ने कल ही देवी के सामने कहा था। मैं भी वहाँ यह सुन रहा था।

—तुम कौन हो?—दिवोदास ने पूछा।

—मैं गन्धर्व हूँ, बड़े देवों में नहीं, पर इन्द्र का कृपा-पात्र अनुचर हूँ।

—तो तुम्हें वहाँ आने की छुट्टी कैसे मिली?—भुज्यु ने पूछा।

—इन्हूँ कैसे स्वामी नहीं हैं, कि अपने परिचारकों की सुख-सुविधा का ध्यान न रखते। मैं सात दिन से छुट्टी पर हूँ, पश्चणी (रावी) की सैर कर रहा था। वहाँ इस युवती को स्नान करते पाया। इसके

नग्न सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। इसीलिए तुम मुझे यहाँ देख रहे हो।

—तो मोहित होकर इस बेचारी को कष्ट क्यों दे रहे हो? कब तक इसे पकड़े रहोगे?

—सदा कष्ट नहीं दूँगा। जब तब यह कुमारी है, तभी तक कभी-कभी मेरा इससे संपर्क रहेगा।

आगे बढ़कर कुत्स ने पूछा—कीलात इस समय कहाँ है?

—अपने पहाड़ों पर बहुत दूर—वहीं, जहाँ के श्वेत पर्वत हमें दूर से दिखाई देते हैं। उन्हीं के नीचे वह आखेट कर रहे हैं। हाँ, अभी उनके नेता शंबर ने एक बाण मारा। वह जाकर भूरे भालू के हृदय में छुस गया। मैं यह सब उसी तरह देख रहा हूँ, जैसे यहाँ खड़े तुम लोगों को।

—यहाँ से शंबर कितनी दूर है? शंबर कौन है, कैसा है?

गंधर्व ने कहा—यहाँ से धीरे-धीरे जाने पर वहाँ बीस दिन में पहुँचेंगे। शीघ्रता से जाने पर भी दस दिन लग जायेंगे। पर, ये सारे पर्वत किरों (किलातों) के हैं। आर्य इनके भीतर छुस कर एक दिन भी नहीं चच सकते। शंबर बड़ा बलवान् है। दिवोदास से कुछ ही छोटा, पर, उसकी छाती इससे भी अधिक चौड़ी है। उसके बाहु और भी सबल हैं। उसके शरीर पर शृङ्खल-चर्म लिपटा हुआ है। सिर पर हिमवन्त के पक्षी के सुंदर पंख लगे हुए हैं।

—तेकिन हम कैसे जानें कि तुम यह बातें अपने मन से बनाकर नहीं कह रहे हो? दिवोदास ने पूछा।

—तो, परीक्षा कर लो।

—मेरा इषुधि (तरकस) अब भी मेरे घोड़े की पीठ पर है। बतलाओ, उस घोड़े का रंग क्या है? वह किस ओर सुँह किये खड़ा है? मेरी इषुधि में कितने बाण हैं?

—गंधर्व ने बिना बिलंब किये उत्तर दिया—त्रुम्हारा घोड़ा

अरुण है, उसका नाम दधिका है। तुमने अपने मरे हुए धोड़े के नाम पर उसका नाम रखता है। वह दक्षिण दिशा की ओर सुँह किये खड़ा है। तुणीर उसकी पीठ पर दाहिनी ओर लटक रहा है। उसमें सब्रह इषु हैं।

गन्धर्व ने सारी बातें सच्ची बतायीं, देखनेवालों ने जाकर वहाँ बैसा ही देखा। दिवोदास को अपनी आँखों गंधर्व का चमत्कार देखने को मिला। उसने प्रसन्न हो विनयपूर्वक कहा—गंधर्व, तुम सत्यवादी हो, तुम अवश्य हमारे इन्द्र के घनिष्ठ अनुचर हो। तुम्हें आयों की सहायता करना चाहिए। क्योंकि आर्य ही इन्द्र के सच्चे भक्त हैं।

—भक्त होने की बात छोड़ो। किलात या पश्चि की कुमारी को पकड़ने पर वह भी मेरा सम्मान इससे कम न करते। पर, मैं जानता हूँ कि वह इन्द्र-शत्रु हैं। वह अपने देवों को सबसे बड़ा मानते हैं। विशेषकर पश्चि तो अपने शिश्न देव के सामने इन्द्र को भी नहीं गिनते। इन्द्र का अनुचर होने से मैं तुम्हारा सहायक हूँ। एक बात की तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। आज से सात दिन पश्चात् किलात आयों पर आक्रमण करेंगे। तुम्हें उनके साथ कठिन संघर्ष करना होगा।

दिवोदास पहले कौतूहल-वश गंधर्वगृहीता कुमारी को देखने आया था। उसे ऐसी बातों पर उतना विश्वास नहीं था। पर, अब अविश्वास का कोई कारण नहीं था। गंधर्व ने अतीत और वर्तमान की बातें बतलाकर सच्चाई का प्रमाण दे दिया। उसकी भविष्यवाणी को झूठा कैसे माना जा सकता था? चेतावनी काम की थी। यदि वह सत्य हुई, तो, जिस उद्देश्य से यह यात्रा हो रही थी, वह भी पूरा होगा।

“अब मैं जा रहा हूँ”—कहकर गंधर्व चला गया। कुमारी शिथिल हो धरती पर पड़ गयी। वह निःसंज्ञ, निश्चेष्ट-सी थी। उसके केशों की जड़ें भीगी हुई थीं। मुख पर स्वेद-विन्दु थे। लोग उसे

उठाकर घर के भीतर ले गये । दिवोदास अपने मित्रों के साथ आवास में चला गया ।

वैसे होता तो मधुपर्क के सत्कार और सोमपान में घड़ियों बीत जातीं । पर आज शिष्टाचार के लिए ही कुछ शब्द कहे गये । दिवोदास के साथियों और ग्रामज्येष्ठों में किलातों के आक्रमण की आशंका की ही चर्चा रही । किलातों की भूमि एक दिन के रास्ते पर पहाड़ों से नीचे आरम्भ होती थी । यहाँ वह केवल जाड़ों में चरिष्णु पुरियाँ बनाकर रहते थे । जाड़ा आने में अभी महीने से अधिक देर थी, पर कभी-कभी वह कुछ आगे-पीछे भी उत्तर आते थे । भरत जन और किलातों की सीमा स्पष्ट न होते भी अशात न थी ।

X            X            X            X

गंधर्व की चेतावनी न सुनी होती, तो क्या जाने दिवोदास सीमा पर पहुँचने का निश्चय न करता, अथवा पूरी तौर से सजग होकर न जाता । आयों में सभी गंधर्व पर विश्वास नहीं रखते थे । आर्य इन्द्र के अनन्य भक्त माने जाते थे, पर कुछ इन्द्र के विषय में भी शंकालु थे । हाँ, विश्वास करने वाले अधिक थे । कुछ तो शपथ खानेवाले ऐसे भी तैयार थे कि इन्द्र मयूर जैसे रोमवाले अश्वों के रथ पर सवार होकर आता है । वह सिर पर शिप्र (मुकुट) और हाथों में बज्र रखता है । उसकी मूँछ-दाढ़ी तपे सोने जैसी पीत वर्ण की होती है । उसकी ग्रीवा मांसल और उदर मेदयुक्त होता है । आर्य इन्द्र के स्वागत में गर्गर (गगरी का बाजा) बजाते, गोधा (ढोल) की ध्वनि करते । तो भी सन्देह करनेवाले कहते—“किसने इन्द्र को देखा है, जिसकी हम स्तुति करें ?” वस्तुतः सन्देह करनेवालों की संख्या और भी अधिक होती, यदि गंधर्व-गृहीतायें देवों के अस्तित्व का प्रमाण न देतीं ।

पुरुकुत्स ने किरातों की सात पुरियों को नष्ट कर उनकी पर्वत-

सानु की समतल, गोचर-भूमि को छीन लिया था। उस समय कितना तुम्हारा युद्ध हुआ था। इसे आर्य और भी भूले नहीं थे। भरत भूमि (रावी, व्यास उपत्यका) के उत्तर की तराई के लिए भी वैसा ही संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें उन्हें सन्देह नहीं था। यहाँ भी वही किरात थे और अपने अधिक बीर सेनानी शंवर के अधीन। छिट-फुट जो दो चार लूट-पाट किरातों की ओर से हुई थी, उसका उतना महत्व न हो, पर यह असंदिग्ध था। ऊपर से किरातों की भूमि आयों के लिये अज्ञात थी, जिसके कारण वह अपने शत्रु को तुच्छ नहीं मान सकते थे। भरतों के पुरोधा ने पहिले ही कह दिया था—किलात शलभों जैसे हैं, वह मृत्यु से भय खाना नहीं जानते। मृत्यु का भय उनके लिए मृतों के साथ लुप्त हो जाता है।

किलातों की भूमि जितनी ही समीप आती जा रही थी, उतना ही आर्यग्रामों का अभाव होता जा रहा था। सीमा के पास तो आर्यवर्षा के अन्तिम मासों में ही अपने पशुओं को लेकर जाते। उस समय वह भूमि नव शस्यशयामला होती। सीमान्त के कुछ आर्यग्रामों को लूट कर किलातों ने अपने पौरुष का परिचय दिया था। पर यह हेमन्त में ही हुआ था। इससे समझा जाता था कि किलात ग्रीष्म-वर्षा में नीचे नहीं रहते। कुछ अवस्तु आर्य ग्राम रास्ते में मिले। दिवोदास तैयार होकर आया था। उसने परित्यक्त ग्रामों को फिर से बसाया। ऐसा करना आवश्यक था, क्योंकि आर्यसेना को यहीं से भोजन और युद्ध की सामग्री मिलती। यहीं पृष्ठचर सेना छोड़नी थी। परित्यक्त ग्राम ही नहीं बसाये, बल्कि सीमांत पर नये शिविर ग्राम रखे गये। पशुओं को तो किलातों की भूमि में भेजना युद्ध-घोषणा थी।

आर्य सौरा दोष किलातों पर लगाते थे, पर वस्तुतः यह बात नहीं थी। सहस्रों वर्षों से किलातों की दो विचरण-भूमि थी। एक पर्वत पर और दूसरी पर्वत के नीचे तराई में। गर्मी न सह सकने के कारण वह वर्षा और ग्रीष्म को ठंडे पर्वतों पर विताते, आगे बढ़ते-बढ़ते उन

ऊँची अधित्यकाओं में ( बुकयालों ) पहुँच जाते, जो साल के दो-तीन मास ही हिमयुक्त होतीं। जाहों में जब सदों बढ़ती, भूमि हिम से आच्छादित होने लगती, तो वन्य पशु भी सदृ स्थानों को छोड़ नीचे उतरने लगते। भूरे शृङ्खों की तरह जो नहीं उतरते, वह किसी गुहा में 'छ-मासी' निद्रा लेने लगते। किलात वैसा नहीं कर सकते थे। वह अपने शिकारों का अनुसरण करते नीचे उतरते। किलात मुख्यतः मृगयाजीवी थे। पश्यों, आयों की देखा-देखी वे भी कुछ-कुछ खेती करने लगे थे। उनकी कृषि नौसिखियों जैसी थी। पहाड़ी जंगल को काट-जला कर थोड़ी भूमि साफ करते। उसमें बीज डाल देते। दो-तीन वर्ष बाद उसे छोड़ दूसरे खेत बनाते। वह खेतों के बन्धन में चौंधने के लिए तैयार नहीं थे। यायावरी ( शुमककड़ी ) उनके रक्त में थी। यदि प्रतिदिन मृगया सुलभ होती, तो वह पशु भी न पालते।

यह कहना ठीक नहीं होगा कि गंधर्व के कथानुसार ठीक सातवें दिन ही भीषण संघर्ष हुआ। पर अन्तर एक-दो ही दिन का पड़ा। दिवोदास ने मछली फँसाने के चारे की भाँति अपने कुछ घोड़े-गायों को किलातों की ओर छोड़ दिया। किलात इसे असाधारण बात अवश्य समझ सकते थे; पर उनको यह पता नहीं था कि शत्रु पूरी तैयारी करके आया है। तो भी उनकी ओर से जलदी नहीं की गयी। उन्होंने अपने सबसे समीप के नायक शुष्ण के पास सन्देश भेजा। शुष्ण चकमें में आ गया और अपने योद्धाओं के साथ रात को तराई में पहुँचा। अगले दिन उसने चरने के लिए आये पशुओं को हँकवा लिया। चरवाहों ने भागकर दिवोदास को सूचना दी। तराई के ऊँचे हृङ्खों और लंबी घासों में होते कई सहस्र आर्य अश्वरोह दौड़ पड़े। बीच के दल का नेतृत्व दिवोदास स्वयं कर रहा था और बामपन्न में कृत्सञ्चार्जुनेय का दल था। अपनी संख्या का उन्हें पूरा उपयोग करना था, इसलिए दूर से देरा डाल वह किलातों का सर्वनाश करना चाहते थे। पहिले मुज्यु का दल दिखाई पड़ा। किलातों ने उस पर आक्रमण कर दिया।

सचमुच उनका युद्ध शलभों (टिड्डी) जैसा था। वह मरना जानते थे, हठना नहीं जानते थे। किन्तु संख्या का बल मुज्जु<sup>१</sup> के पास था और साथ ही अधिक शक्तिशाली हथियार भी आयों के थे। बाणों के उपयोग का अवसर बहुत कम ही मिला, क्योंकि वृक्ष और झाड़ियाँ बाधक थीं। वेग से छोड़ कर दोनों दल एक दूसरे के पास पहुँच गये।

एक और मुज्जु, शत्रु का संहार कर भारी ज्ञाति पहुँचा रहा था। इसी समय दिवोदास और कुत्स की सेनाएँ पीछे की ओर से दस्युओं के पीछे पहुँच गयीं। शुष्णा तब भी हताश नहीं हुआ। ज्ञात-विज्ञात होते हुए भी वह आर्यदल के छुकके छुड़ाता रहा। जब दस-बारह ही रहे गये, तो किलात नायक अपने सेनानी को बेहोश ले पीछे की ओर भागे। लड़ाई ५-६ घण्टी से अधिक नहीं हुई; पर, इतने ही में तराई की अरण्यानी ने ऐसा हश्य देखा, जो अभूतपूर्व था। इधर मानव एक दूसरे को ललकारते प्रहार कर रहे थे, दूसरी ओर जंगल के वास्तविक स्वामी उसे सुखद तमाशा नहीं मान रहे थे। सिंहों को अनायास ही अनेक अश्व मिल रहे थे, पर वह उनकी ओर लोभान्वित दृष्टि से देखने का साहस नहीं कर सकते थे। हाथियों को साने के लिए नहीं तो मारने के लिए इतने शत्रु विद्यमान थे—ऐसे शत्रु जिन्होंने उनकी विशाल भूमि को छीन कर अपनी गोचर-भूमि बना लिया था। पर, उन्होंने कुछ नहीं किया। व्याघ्र भी भागकर पास आये हरिनों की ओर दृष्टिपात न कर मानव कोलाहल की ओर ध्यान लगाये थे। छोटे-छोटे जन्तुओं की तो बात ही क्या? सभी जंगल छोड़ जिधर सींग समाये, उधर भागे जा रहे थे। पर जंगल को छोड़ जाते कहाँ? जहाँ युद्ध का कोलाहल सुनाई देता था और जितनी दूर तक भागे जाते प्राणियों के पद-चिन्ह दिखाई देते थे; वहाँ के सभी प्राणियों के पैर मानों अपने आप चलन्हड़े थे।

दिवोदास की किलातों के साथ यह पहिली भिन्नत थी और इसमें उसकी पूर्ण विजय हुई। पर इसे वह बहुत सुन चुका था। अपनों

भूमि में आकर धोखे से पीतकेशों के इस प्रहार को वह सहन करेगा; इसकी संभावना नहीं थी । युद्ध-क्षेत्र में गिरे शत्रुओं में अधिकांश मृत थे । आहत भी पास आए पीतकेशों पर धायल सिंह की भाँति प्रहार किये विना नहीं रहते थे । वह न स्वयं दया दिखलाते, न अपने शत्रुओं से उसकी आशा रखते थे । युद्ध-भूमि में शत्रुओं के बहुत से हथियार हाथ आये, और कितनी ही खान-पान की सामग्री भी ।

---

## ७. “मुज्यु की रक्षा”

(११६७ ई० पू०)

“इन्द्रस्य वूतीरिषिता चरामि मह इच्छन्ती परयाँ निवीन् वः”

—(ऋूक् १०।१०॥२)

“सरमा, क्या इच्छा कर के तुम (उस रास्ते से) आईं, जो नाना स्थानों को जाने वाला दूर का मार्ग है ? हमसे क्या चाहती हो ? कैसे तुमने रसा (नदी) के जल को पार किया ?”

—यह प्रश्न परिण लोग एक पीतकेशी नारी से पूछ रहे थे ।

सरमा यद्यपि देखने में ४०-४५ वर्ष से अधिक की नहीं ज्ञात होती थी, पर उसके बाल सारे श्वेत थे । तो भी उसके मुख पर न झुरियाँ थीं, न चमड़े पर सिकुड़न, न गात्र में कंप । ताम्रबर्ण परिणों के बीच ऊँचे आसन पर बैठी पूर्णतया स्वच्छन्द, सरमा गंभीर मुद्रा में दिखाई पड़ती थी । क्यों न हो, वह उस जाति की थी, जिस का एकद्वय राज्य सारे सप्तसिन्धु पर था । वह मुख्य आर्य निवास से बहुत दूर यहाँ आई थी, पर, परिणों के व्यवहार से ज्ञात होता था, कि वह केवल भय के कारण उसे सम्मान नहीं प्रदर्शित कर रहे थे, उनके चेहरों और आँखों के सौम्य भाव को देखने से यह जान पड़ता था ।

सरमा आर्य-नारी थी । आयों का औदत्यपूर्ण अभिमान उसमें नहीं था, यह नहीं कह सकते । वस्तुतः परिण उसके उपकार को भूल नहीं सकते थे । वह किसी बात को मुँह से बेलाग कह लेती थी, जिसमें कभी-कभी कठोरता भी होती, पर उसका हृदय बहुत कोमल था । जिस समय परिणों या किलातों पर आयों का

भीषण कोप होता, वह सैकड़ों को घास की भाँति काटने के लिए सबद्र होते, उस समय यदि सरमा वहाँ पहुँच जाती, तो सब के प्राण बच जाते। उपकृत भला इसे कैसे भूल सकते थे? दुखियों, दीनों के प्रति उसका पक्षपात था, पर अपने लोगों का अहित करके नहीं। जहाँ पचासों सैकड़ों आर्य वीरों के प्राणों को गँवा देना होता वहाँ उसका काम था। उसकी निर्भीकता का प्रमाण तो यहाँ उसकी उपस्थिति बतला रही थी।

आयों में नर-नारी परस्पर बहुत स्वच्छन्दता वर्तते थे। निःसंकोच एक दूसरे से मिलते। कन्या की इच्छा के बिना पिता-माता जिसे चाहें, उसे नहीं दे सकते थे। पर, साधारण आर्य नारी की स्वतंत्रता और सरमा की स्वतंत्रता में बहुत अन्तर था। वह अपने साथ चलने वाले समूह की अधिष्ठात्री थी, मनुष्य रूप में नहीं, प्रत्युत देव के रूप में। वह देवताओं का साक्षात् करती है, यह भी प्रसिद्ध था। उसके साथ बीसियों अनुचर होते; जिनमें दो-चार का छोड़ सभी पश्चिया निषाद होते, छी और पुरुष दोनों। उसके साथ स्वामत के लिए प्रतिस्पर्धी करते, प्रस्थान करते समय पश्चि लोग पशु या धन के रूप में भेट देते। सरमा का अस्थायी आवास जंगम था। किसी भी जाति का दीन-दीन छी-पुरुष उसके सामने हाथ पसार कर रिक्त हस्त नहीं लौटता था। आवास पर पहुँचने से पहिले ही भोजनशाला की अग्नि जल जाती और वहाँ से प्रस्थान करते समय ही वह बुझने के लिए छोड़ी जाती। बड़े-बड़े हंडों में मांस पकता, खूब उबाला जाता, अपूर्प (रोटियाँ) बनने लगती। सत्तू का ढेर लग जाता। आर्य सत्तू के प्रेमी थे। पर, सरमा के महानस में चावल भी पकता, गेहूँ की रोटियाँ भी बनती। भैस प्रेमी पश्चियों के लिए भैस का मांस भी राँधा जाता। सरमा का लंगर सबके लिये खुला रहता था। सूमा चारे सातसिन्हु में क्यों इतनी जनप्रिय थी? वह अजात शत्रु थी, इसका यह भी एक कारण था।

साठ से ऊपर होकर आज भी उसका सौंदर्य दर्शनीय था। जीवन में वह अत्यन्त सुन्दरी नारी रही होगी; इसमें सन्देह नहीं। क्या उस समय उसके सौंदर्य पर मोहित होनेवाले तरण नहीं रहे होंगे? अवश्य थे। पर, आंगिरस कुल की इस जन-कल्याणी को विवाह का संकल्प छोड़ना पड़ा। इसका कारण था—जिस तरण को वह चाहती थी, जो इसे प्यार करता था, दोनों के प्रणय में स्वजन बाधक हुए। इसी त्रीच पश्चियों की गायों की लूट में गया तरण घायल हो बन्दी बना। उसे छुड़ाने के लिए आयों का भारी दल गया। पर, वह उसे जीवित नहीं पा सका। सरमा उस समय २० वर्ष की थी। उसकी बुद्धि अपरिक्व नहीं थी। अपने प्रेमी की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसने अपने मन से विवाह का विचार सदा के लिए निकाल दिया। तभी से वह ऊपर से कठोर दिखाई देने लगी। वह अपना जीवन दुखियों की सहायता के काम में लगाती है। वह अपने दुःख से अनुभव करने लगी, काले-नोरे, पीले-ताम्र आर्य-किरात-निषाद सभी दुःख और अभाव को एक-सा ही कदु अनुभव करते हैं; दूसरे के दुःख को हटा उसे प्रसन्न देखने में सरमा आनन्द अनुभव करती। अब यही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उसका जीवन लोगों के लिये विचित्र आख्यान बन गया था। लोग उसे बढ़ा-चढ़ाकर कहते, सुनते। पश्चि अपने पैँचाड़ों में उसे महामाता, पृथिवी माता का रूप मानते थे।

सरमा सदा धूमती ही रहती। अब के वह शुत्रु और पश्चियों के संगम को पार कर सुदूर दक्षिण चली आई थी। वहाँ से धन्व (महामरम्भ) कुछ ही दिनों के मार्ग पर आरंभ होती थी। इधर आर्य-प्राम, बहुत कम थे। पर सरमा ने आना आवश्यक समझा; क्योंकि इधर आर्य और पश्चियों के सम्बन्ध बहुत बुरे हो चुके थे। वैसे पश्चि अपने शासकों के शासन का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे। पर सहन की भी एक सीमा होती है। आयों को भी बहाना मिल

गया था। वह उनके सर्वनाश पर तुले हुए थे। सर्वनाश करना उनके देवताओं के भी वस की बात नहीं थी, क्योंकि पश्चियों की संख्या लाखों थी। अकारण इतने लोगों को मारकर मांस का ढेर बनाना आसान नहीं था। ऐसा करना भारी क्षति की बात थी; क्योंकि पश्चि उनके लिए धेनु गाय से बढ़कर थे। उनकी कृषि और पशुओं में आयों का भाग था। उनके शिल्प और व्यापार में आर्य सामन्त अपने सुख-विलास की सामग्री अनायास प्राप्त करते थे। पश्चि आयुधकार सुन्दर और शक्तिशाली अच्छा-शख्स आयों के लिये तैयार करते। अतएव उनका सर्वनाश आर्य कैसे कर सकते थे? सरमा आयों के कोप को जानती थी। उसी से बचाने के लिए वह इस शरद में आई थी। यहाँ चारों ओर पश्चियों के ही ग्राम-नगर दिखाई देते थे। इन्हीं के ऐश्वर्य की कथा सुनकर आर्य आग और असिले इधर आने को उद्यत थे। सरमा ने सोचा था, आयों को यदि वांछित धन अप्रयास मिल जाये, तो वह अपनी तलबारों को म्यान से बाहर नहीं निकालेंगे।

पश्चियों का आतिथ्य स्वीकार कर यहाँ रहते सरमा को दोन्तीन दिन हो गये। उसकी सम्मति को सुनने के लिये दूर-दूर से पश्चि सरदार एकत्रित हुए थे। पर, दोनों जातियों के सम्बन्ध इतने कटु हो गये थे कि सरमा की बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सरमा “इन्द्र की दूती”—आयों की दूती—कह रही थी—

—हे पश्चियों, मैं इन्द्र की दूती होकर तुम्हारी भारी निधियों को ढूँढ़ने आई हूँ। इन्द्र के भारी भय ने मुझे बचाया। इस तरह मैं रसा के जल को पार हुई।

पश्चियों के एक बड़े सरदार ने हँस कर कहा—सरमा तुम हमारी भारी निधियों को ढूँढ़ने नहीं आई, तुम्हारे हृदय को हम जानते हैं।

—नहीं मैं उसी के लिये आई हूँ, इन्द्र की आज्ञा से आई हूँ।

—सरमा बताओ तो सही वह इन्द्र कैसा है, जिसकी दूती बनकर तुम दूर से आई? उसी को भेज दो ना, हम इन्द्र को अपना मित्र

बनायेंगे। वह हमारी गायों को चरायेगा जितनी गायें चाहिए, जितनी निधि चाहिए, सब उसे हम देंगे।

—वह इन्द्र अजेय है। उसके मार्ग को गहरी नदियाँ भी रोक नहीं सकतीं। उसके बज्र से निहित हो तुम सारे सो जाओगे—सरमा ने गंभीरता दिखलाते कहा।

सरदार ने फिर कहा—हे सुभगे, हमारी गायें दिशांत तक फैली हुई हैं। उनको ही लेने के लिये तुम्हें इन्द्र ने भेजा है न? इन्द्र का नाम तो यूँ ही लिया जाता है! लोलुप पीतकेशों ने तुम्हारे मुँह से धमकी दी है। पर युद्ध के बिना हमारी गायों को कौन छू सकता है? हमारे आयुध तीक्ष्ण हैं, अति तीक्ष्ण!

—हाँ, इसे कौन नहीं जानता? पीतकेशों के भी सबसे तीक्ष्ण आयुध तुम्हारे ही हाथों से बनते हैं, सरमा की बाणी इस समय बहुत मृदु थी। उसने आगे कहा—पर परिणामों, उन हथियारों को ठीक से उपयोग तुम नहीं ले सकते और तुम्हारे शरीर आयों के बाणों से अमेदू नहीं हैं, बृहस्पति देव भी तुम्हारे विरुद्ध आयों की सहायता करने के लिए तैयार हैं।

—कोई भी सहायता करने को तैयार हो, सरमा हमारी निधियाँ पर्वतों में छिपी हैं। हमारे अश्वों, गायों, निधियों की रक्षा हमारे योद्धा कर रहे हैं, वहाँ जा पहुँचना कठिन है। पहुँचने पर भी उन्हें कोई पा नहीं सकता।

सरमा ने विहँस कर कहा—सो तो तुम ठीक नहीं कह रहे हो। जिस अयास और आंगिरस, नवरू, और दूसरे योद्धा सोम में मस्त हो कर आयेंगे, तो कोई उनके सामने टिक नहीं सकेगा। वह तुम्हारे धन को छीन ले जायेंगे। तुम्हारा भयंकर संहार करेंगे। तुम्हारा बढ़-बढ़ कर बोलना बैकवास से बढ़ कर नहीं है।

—हे सरमा, तुम्हें पीतकेशों ने यहाँ आने के लिए बाध्य किया है। कोई बात नहीं, तुम लौट कर मत जाओ। हम तुम्हें अपनी बहिन

बनाते हैं। हे सुभगो ! जितनी चाहो, उतनी गायें हम तुम्हें देंगे। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए ? हम अनेक बार तुम्हें गायें दे चुके हैं, तुम उन्हें हमारे ही याचकों में बाँट चुकी हो। सरमा ! हमारी स्वसा ( बहिन ) बन यहाँ रहना स्वीकार करो।

—पश्यियों, मातृत्व और स्वसृत्व से कोई काम नहीं बनेगा। इन्द्र और आंगिरस तुम्हारी गायें और निधियाँ माँगते हैं। वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। मैं तो यहाँ से चली।

पश्यि दूर भागकर कहाँ जाते ? फिर वह केवल पशुओं के ही धनी नहीं थे। उनके ग्रामों और नगरों में अपार संपत्ति भरी पड़ी थी। जिसे उन्होंने वर्षों नहीं पीढ़ियों में कमाया था, विना संघर्ष के सबको छोड़कर वह खुशी से कैसे भाग सकते थे ?

\* \* \*

पश्यियों के साथ का यह संघर्ष साधारण लूट नहीं थी। यह इसी से शात होगा कि सरमा को भी समझौता कराने में सफलता नहीं मिली। सप्तसिन्धु के दक्षिण-पश्चिम अंचल में—जहाँ पश्यियों की संस्था अधिक थी—आग लग गई ! कल तक भीरु दिखाई देनेवाले आज लड़ाकू बन गये थे। मरता क्या न करता ? वह यदु-तुर्वश की भूमि के समीप पड़ते थे। असफल होने पर सभी आर्य-जन ढूट पड़े। दिवोदास उनका नेता बना। कई संघर्षों में बुरी तरह हराती अब आर्य वाहिनी यहाँ पहुँच गई थी। निम्न सिन्धु के पूर्व में कितनी ही दूर हटकर जो पहाड़ियाँ हैं, वह पश्यियों के दुर्ग का रूप धारण कर चुकी थीं। इनके पास ही पूर्व में धन्व ( मरुभूमि ) भी रक्षा का काम दे रही थी। अपने ऊँटों पर चढ़कर पश्यि मरुकान्तार में कहाँ भी भाग सकते थे। जल, बनसपतिहीन इस भूमि में आयों के घोड़ों की शक्ति व्यर्थ हो जाती। अभी भी उत्तर के ( हिमवंत ) पर्वत पर किलातों के साथ संघर्ष चल रहा था। वहाँ दिवोदास का रहना अत्यावश्यक था। आयों को उत्तर और दक्षिण दोनों मोर्चों

पर लड़ना पड़ा। उनका सौभाग्य था, जो कि पश्चियों और किलातों ने आपस में मिलकर शत्रु से लोहा लेने का प्रबन्ध नहीं किया। यह जाति-मेद और स्थानों की दूरी के कारण ही नहीं हो सका। आयों के पास बीर सेनानियों का अभाव नहीं था। दिवोदास ने अपने सबसे योग्य सेनानी श्याव-पुत्र तौग्य भुज्यु को दक्षिणी मोर्चे का सेनापति नियुक्त किया। भरतों की भूमि से दक्षिण दूर तक उससे डटकर लड़नेवाला कोई नहीं था। पर वह जितना ही आगे बढ़ता गया; उतनी ही उसकी कठिनाइयाँ बढ़ती गयीं। पश्चियों को शात हो गया कि पीतकेश जीतकर हमारे घरों की सारी सम्पत्ति लूट कर आग लगा देते हैं। इसलिये जो धन लेकर वह भाग नहीं सकते थे, उसे वह घर सहित जला देते थे। यही नहीं इस अंचल में वसे आयों को चल-अचल ग्राम भी दस्युओं की आहुति बनाने लगे। भुज्यु की सेना समय पर अपने भाइयों की सहायता के लिये नहीं पहुँच सकी। अब वह निरीह पश्चियों पर अपनी तलवार चलाकर गुस्सा शान्त करने की कोशिश करती थी। यदि पश्चि सौ मारे जाते, तो दस आर्य भी जान खोये बिना नहीं रहते।

भुज्यु की सेना को नरों का ही मुकाबिला नहीं करना पड़ रहा था। बल्कि पश्चियों ने अपनी भूमि को खाली करके उसके रास्ते में कठिनाई पैदा कर दी थी। आयों को साथ में पूरी रसद लेकर चलना पड़ता था। जंगल में छिपे पश्चि अब सर पा उन पर हमला कर देते। भोजन का ही दुःख नहीं था, पानी के लिये भी उन्हें कठिनाई थी। पश्चि अक्सर कुओं में विष डाल देते थे। इसलिये फूँक-फूँक कर पैर रखना पड़ता था। अधिकतर डेरे नदियों के किनारे पड़ते। ऐसे भुज्यु ही का काम था कि, वह इतनी कम हानि उठा दस्युओं को पीछे ढकेल रहा था। पश्चि नगरों की लूट में बहुत सा रेत और सुवर्ण हाथ में आया। कुछ को लूटनेवाले योद्धाओं में बाँटकर उनमें से कितना ही दिवोदास के पास पहुँचता, जिसे

देखकर आँखें चाँचिया जातीं। पश्चियों के पास इतना धन होगा इस पर विश्वास नहीं होता था।

सारे के सारे पश्चि आयों के अधीन नहीं थे। अभी भी समुद्र तट और सिन्धु के सुदूर पश्चिम बहुत से भूखण्ड थे, जहाँ के पश्चि, आयों को जानते भी न थे और न उनके शासन के खट्टे-मीठे का परिचय रखते थे। पीत केशों के अत्याचारों की खबर अब उनके पास तक पहुँच गई। वह अपने भाइयों की सहायता के लिए भारी संख्या में आ पहुँचे। ये सप्तसिन्धु में रहने वाले पश्चियों की तरह के दब्बू या नरम स्वभाव के नहीं थे। इनका लोहा भी बहुत मजबूत था। आयों के घोड़ों से मुकाबिला नहीं हो सकता था; पर, जहाँ नदियाँ थीं, वहाँ उनकी नावों के सामने आयों के घोड़े निर्बल थे। सौ-सौ पतवारों वाली नावों में कई सौ सैनिक बैठ कर बड़ी फुर्तीं से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते।

भुज्यु की सेना बढ़ते-बढ़ते उन पहाड़ियों के पास पहुँच गई, जहाँ सरमा के कथनानुसार पश्चियों की अपार निधियाँ रखी हुई थीं। पहाड़ पर चढ़कर देखते एक और भयावनी रेगिस्तान की निर्जन भूमि थी, दूसरी ओर खूब हरे-भरे खेत। धान कटे खेत खाली दिखते थे। पर जौ, गेहूँ और दूसरी फसलों की हरियाली देखकर आँखें खुश हो जाती थीं। सूखा रेगिस्तान और अत्यन्त हरी शस्यावली दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलटे हश्य थे। इसी हरियाली में जहाँ-तहाँ पश्चियों के विशाल गाँव थे। उनकी जनसंख्या पहिले से बहुत बढ़ गई थी। मगेलू लोग भी यहाँ शरण लिये हुए थे। गाँवों को देखकर आये बहुत प्रसन्न होते थे। क्योंकि अब तक ऐसी जगहों में उन्हें कड़े मुकाबिले की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन, पहाड़ के आरंभ होते ही उन्हें अपनी धारणा छोड़नी पड़ी। यहाँ के निहत-आहत शत्रुओं को देखकर यह मालूम हो गया कि यह दूर से आये लड़ाकू लोग हैं। पश्चि लड़ने में निर्भीक जरूर थे। पर न उनको हथियार चलाने

का उतना अभ्यास न था। नेताओं की तो उनमें और भी कमी थी। पर, अब वह नेता-रहित नहीं थे। पग-पग पर मुकाबिला करते वह जहाँ पहुँचे थे, वहाँ के किले में पश्चियों का सबसे कुशल सेनानी स्थित था। पहाड़ी दुर्ग स्थूल मजबूत था। जहाँ भी में चारबन्दी हो सकती थी, उसे ढढ़ बना दिया गया था। भुज्यु को अभी इतनी जन-हानि उठानी नहीं पड़ी थी, जितनी कि पिछले एक सप्ताह के संघर्ष में। वह देख रहा था, यदि यहाँ पश्चियों को पूरी तौर से परास्त कर दें, तब भी इस भूमि पर हम अधिकार नहीं रख सकेंगे। आर्यजनों में कोई-कोई अपनी भारी संख्या को यहाँ भेजने के लिये तैयार नहीं होगा। इसे हमें यूँ ही छोड़ के चला जाना होगा। यहाँ से यूँ ही लौट जाने का अर्थ था, हार स्वीकार करना।

आदमियों के न मिलने पर आयों ने उनके खेतों में थोड़े और पशु छोड़ दिये। खाने और दूसरे उपयोग के लिये पशु उनके पास पहुँचते रहते थे। उन्होंने देखा गिरि दुर्ग में युद्ध की ही नहीं बहुत-सी खाद्य-सामग्री भी एकत्रित है। पर, जब तक उस पर अधिकार नहीं किया जा सकता, तब तक शत्रु की कमर तोड़ी नहीं जा सकती। यह भी कठिनाई थी, शत्रु का भेद जानने के लिए उनके पास कोई अच्छा साधन न था। आयों और पश्चियों के बीचों में इतना अन्तर था, कि आर्य अपने को छिपा नहीं सकते थे। कितनी ही संकर सन्तानें थीं, पर आयों का उनके साथ जैसा बुरा बर्ताव था, उससे वह मन से उनकी सहायता नहीं कर सकते थे, न उनके ऊपर उतना विश्वास किया जा सकता था। एक से अधिक बार आर्य अश्वारोह गिरिदुर्ग के नीचे तक पहुँचे और अपने अश्वों को वहाँ छोड़ पहाड़ी पर चढ़ाने लगे। चढ़ाई ऐसी खड़ी थी कि कितने तो यों ही लुढ़क कर नीचे आ गये व दूसरों को पत्थर फेंककर मारने या भागने के लिए दस्तु बाध्य करते। रात को भी भुज्यु का प्रयास निष्कल गया।

भुज्यु ने आर्य सूरियों की बैठक में कहा—हमें संकर पश्चि शम्भू

की बात की परीक्षा करनी चाहिए। वह कहता है, मरुभूमि की ओर से चल कर दुर्ग पर पहुँचा जा सकता है।

—लेकिन, अर्द्ध-पश्चि पर विश्वास करना क्या बुद्धिमानी का काम होगा?—एक सूरि ने कहा।

—सो तो ठीक है, मरुभूमि में जाने पर क्या जाने क्या संकट हमारे ऊपर आये? पर दूसरा मार्ग भी तो नहीं है।

रास्ता एक दिन से अधिक बन्व (मरुभूमि) से होकर जाता था। वहाँ वस्तुतः रास्ते का कोई चिन्ह नहीं था और शम्बू के भरोसे उसे पार करना था। यदि वहाँ छिपे शत्रुओं के आक्रमण का ढर भी न हो, तो भी भटक जाने पर मरुकान्तार में सभी को भूख-प्यास से मर जाना पड़ता।

भुज्यु खतरे को मोल ले स्वयं ऊँट पर बैठ मार्ग-दर्शक को अपने आगे बैठा चल पड़ा। घंटा भर चलने के बाद वह मरुकान्तार की सीमा पर पहुँचे। अभी तक कभी उन्होंने अपनी आँखों से मरुभूमि नहीं देखी थी। सुनने से जो कल्पना उनके मन में उठी थी, वह सामने के हश्य से कहीं मधुर थी। पास के जंगल में उन्होंने डेरा डाल दिया। दिन में रेगिस्तान की बात्रा ठाक नहीं होती, यह मार्ग-दर्शक से मालूम था। साथ ही रास्ते का सारा प्रबंध, यहाँ तक कि पानी के मशकों को भी यहाँ से ऊँटों पर ढोकर ले जाना था। मेदन खुले, इसीलिए मार्ग-दर्शक को छोड़कर दूसरी जाति का कोई आदमी नहीं लिया गया। दिन भर लोग जहाँ-तहाँ छिपे पढ़े रहे, कोसों तक कोई बस्ती नहीं थी। इसीलिए किसी आदमी से मुलाकात नहीं हुई। दिन के तीसरे पहर धूप मुलायम हो चली। इसी समय ऊँटों का सार्थ (कारवाँ) खाना हुआ। हरेक ऊँट पर दो-दो उचार थे। घंटा भर चलने के बाद उन्हें नीचे बालू की भूमि और ऊपर केवल स्वच्छ नील आकाश दिखाई पड़ा। कहीं प्राणियों के पदचिन्ह नहीं थे। बालूहवा ने की लहरें उसी तरह बना दी थीं, जैसे वह जलाशय में

चनाती हैं। सूर्यस्त होते-होते भुज्यु और उसके साथियों को दिशा का ज्ञान नहीं रहा। क्या जाने शम्बू दुर्ग की तरफ न ले जा रेगिस्तान की ओर ले जा रहा हो। भुज्यु की हिम्मत भी विचलित होने लगी। उसने पूछा—

—हम ठीक तो चल रहे हैं ?

—बिलकुल ठीक चल रहे हैं। मैं इस रास्ते एक से अधिक बार आ चुका हूँ। और जिस ऊँट पर हम चढ़े हैं, वह कभी भटक नहीं सकता—शम्बू ने कहा।

भुज्यु सौचता था, आखिर मुझसे अधिक ऊँट के पास आँख-कान नहीं हैं, न बुद्धि ही है। ऊँट क्या सनुष्य से ज्यादा जानकार हो सकता है ? पर, अब तीर हाथ से छूट चुका था। यदि वह लौटने का प्रयास करता, तब भी शम्बू पर ही विश्वास करना पड़ता। उसे यह भी मालूम था कि शम्बू को भी अपने प्राणों का मोह कम नहीं है।

आधी रात तक चुपचाप वह उसी तरह चलते रहे। न काफिले में से कोई बोलता था, न उस प्राणीहीन भूमि में कहीं से शब्द आ रहे थे। ऊँटों के मुलायम पैर नरम बालू पर पड़कर आवाज नहीं निकाल सकते थे। यह नीरवता भी असश्य मालूम होती थी। जब शम्बू ने तारा देख ठहर कर विश्राम करने के लिए कहा, तो लोगों के हृदय पर से पृक बड़ा भार उतरा-सा जान पड़ा। मार्ग-दर्शक के कहे अनुसार दुर्ग इतना दूर था, जिसे दो घंटा रात रहते चलकर पहुँच सकते थे। उन्हें तीन घंटा खाने और विश्राम करने के लिये मिला था। आस-पास कहीं शत्रु की संभावना नहीं थी, इसलिये उनके गूँगे गले खुल गये। भुज्यु ने इसके लिये स्वयं आगवानी करके प्रोत्साहित किया। लोग हँसने-बोलने लगे। खाने-पीने की चीजें उतार दी गईं। चाँदनी रात थी, जो सफेद बालू पर और भी अधिक चमकीली मालूम होती थी। इन्द्र की महिमा गाते लोगों ने साथ लाके उबले मांस और सचू का भोजन किया। उसके बाद सोम के चषक

उठे। भुज्यु ने उसके लिये मर्यादा बाँध दी थी। इसलिएं किसी को पागल बनने की सम्भावना नहीं थी।

सब मुद्दें की तरह नींद में सो गये, पर भुज्यु बहुत कम सो सका। समय पर सारे उठ खड़े हुये। यहाँ से सबको हथियारबन्द हो चलना था। रात से लाभ उठाकर वहाँ पहुँचते ही दुर्ग पर आक्रमण कर देना था। पथ-प्रदर्शक तारों को देख कर दिशा का निर्देशन करता आगे-आगे चल रहा था। वह सीधे पश्चिम की ओर जा रहे थे। धन्व (मरु) का नजदीक का छोर उसी ओर था। अभी भी उनके हृदय को पूरा सन्तोष नहीं था। तीन घड़ी चलने के अनन्तर पश्चिमी क्षितिज पर काले बादलों की भाँति पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ी। अब शंका से झुटते हृदयों में प्राण संचार हुआ। यद्यपि शम्बू के सामने किसी ने अपने सन्देह को प्रकट नहीं किया था, पर उसे सब जात था। उसने बड़े उल्लास के साथ उस काली रेखा को दिखलाया। पूर्व निश्चय के अनुसार यहीं कितनी ही सामग्री और अनुपयोगी ऊँटों को कुछ अनुचरों के साथ छोड़ दिया गया। केवल योद्धा ही ऊँटों पर चढ़ आगे बढ़े। धन्व सचमुच दुर्ग के पास तक चला गया था। समीप पहुँचने पर बालू के गर्भ से निकली चट्टानें मिलीं। दुर्ग की दीवारें अब स्पष्ट दिखाई पड़ रही थीं। इधर की पहाड़ी अधिक ढालुआँ थीं। ऊँटों से उतर कर वह प्राकार को और बढ़े। नीरव रात्रि में पहाड़ी पर चढ़ते उनके पैरों की आहट कुछ सुनाई अवश्य पढ़ती; पर, वहाँ किसको पता था कि इस दुर्गम और अज्ञात मार्ग से शत्रु चले आयेंगे।

इस पश्चि-दुर्ग को किसी समय आयों ने जीता था, पर उस पर अधिकार नहीं कर पाये थे। उन्हें यह भी जात नहीं था कि पश्चियों ने उसे सुदृढ़ बना लिया है। तो भी इस ओर की दीवार न उतनी ढढ थी, न दुरारोह। भुज्यु और उसकी सेना को उसे फाँदने में कठिनाई नहीं हुई। दुर्ग के भीतर पर्याप्त शत्रु सैनिक थे। पता लगते ही वह ढढता के साथ सामना करने लगे। पर, स्थान संकीर्ण था,

इसलिए वह अपने संख्या-बल का अच्छी तरह उपयोग नहीं कर सकते थे। प्रातः होते समय आयों को सविता के प्रकाश की ऊंचाई की भी सहायता प्राप्त हुई। शत्रु एक-एक अंगुल के लिए लड़े। वह ललकार कर पीतकेशों पर कुन्त और असि से प्रहार करते। याम मात्र दिन चढ़ते-चढ़ते दस्यु परास्त हो गये। भुज्यु पश्चि-सेनानी का नाम पहिले से ही जानता था। उसे आशा थी कि उसे हत या आहत यहाँ पकड़ा जा सकेगा। दुर्ग में पहुँचते ही आयों ने एक ऊँचे स्थान में अपनी उपस्थिति की सूचना देते आग जला दी थी। पीछे पश्चि-सेनानी निकल भागने में सफल हुआ। भुज्यु के सैनिकों ने अपने क्रोध का बदला वहाँ-वहाँ रही जनता पर अत्याचार करके लिया।

\* \* \* \*

आर्य तब तक अपनी सफलता को विजय नहीं कह सकते थे, जब तक कि वीर पश्चि-सेनानी अपराजित, अनग्नीत था। और जब तक उसका सैन्य-बल सिन्धु-उपत्यका में विद्यमान था, भुज्यु को उसका पीछा करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। इतना समय भी नहीं था कि और कुमक की प्रतीक्षा करता। वेगवान् अश्वारोहियों द्वारा उसने दिवोदास के पास सफलता का समाचार मेजा। लूट के धन का कितना ही भाग भी उधर रखाना किया। फिर वह पश्चियों के पीछे बढ़ा। उसे पता लगते देर न लगी कि पश्चि सरदार नावों से पीछे हट रहा है। सिन्धु तीन-चार दिन के रास्ते पर थी, पर इस भूमि में घोड़ों का अच्छी तरह उपयोग किया जा सकता था। ज्यां भर की देर किये बिना आर्य घोड़सवार पश्चियों के पीछे पड़े। पश्चियों के पास भी घोड़ों का अभाव नहीं था, पर वह उतने अच्छे न थे, न उनके सवार ही आधिक चतुर्रथे। घोड़ों की टापों के चिन्ह ने बतला दिया था कि शत्रु किस रास्ते भाग रहे हैं। सारा दस्यु दल सिन्धु के तट तक नहीं पहुँचा था कि आर्य आ घमके। तो भी सेनानी नाव पर पहुँचने में सफल हुआ। उसके कुछ सैनिकों ने आयों को संघर्ष में फँसाये रखा। यह

उनका सौभाग्य था कि परिण कितनी ही बड़ी नावों को अपने साथ ले जाने में कुतकार्य न हुये न उन्हें नष्ट कर सके।

आर्य सवार सिन्धु के दोनों तटों से पीछा करने लगे। कुछ घोड़े अपने सवारों के साथ एक बड़ी नाव पर चढ़ाये गए। भुज्यु भी एक महानौका पर था। गति निरावाध नहीं हो सकती थी क्योंकि सिन्धु के किनारे के सभी नगर-निगम दुर्गबद्ध थे। उनके नष्ट किये बिना आगे बढ़ना बुद्धिमानी का काम नहीं था। परिणों ने मानों पहिले ही इसे सोच रखा था। सेनानी ने स्वयं भी जहाँ-तहाँ पीतकेशों का प्रतिरोध किया, पर उसकी नीति अब हथियार के बल पर शत्रुओं को हराने की नहीं थी। वह अपनी माया से उनका सर्वनाश करना चाहता था।

बढ़ते-बढ़ते एक दिन आर्य समुद्र तट पर बसे एक बड़े परिण-नगर में पहुँचे, कई पीढ़ियों पहिले ही एक बार आयों की ध्वजा इस नगर पर फहराई थी। उसके बाद परिण आयों के पास बलि मेजते रहे। नगर उनके लिए दूसरे लोक की बस्ती थी। उसके अपार धन की अतिरंजित स्थाति विश्वसनीय नहीं हो सकती थी, तो भी परिण महान् व्यापारी थे, स्थल और नदी के ही नहीं, बल्कि समुद्र के भी। उनके पोत, समुद्र में होते। बवेळ और आगे तक की यात्रा करते थे। वाणिज्य द्वारा द्वीपान्तर की लक्ष्मी पहिले इसी नगर में आती थीं। यहाँ सामुद्रिक सार्थवाहों के विशाल प्रासाद थे, जिनका वैभव ताम्रयुग के लिये आश्चर्य की बात थी। नगर के परिण-सेनानी ने जमकर प्रतिरोध करने का निश्चय नहीं किया था। उसका प्रयत्न इतना ही रहा कि आयों को रोक कर धन-जन को अधिकाधिक अपने साथ ले जा सके। वहाँ हजारों समुद्रगामी पोत बराबर आया-जाया करते थे। वह इतने नहीं थे कि नगर के चौथाई लोगों को भी ढो सकें। केवल धनाख्य सार्थवाहों और उनके परिवार को ही पोतों में स्थान मिला।

परिणि पीतकेशों से दया की आशा नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक-एक चरण मूल्यवान् था।

उस दिन संव्या तक घमासान युद्ध हुआ। इसे अगले दिन के लूटी संघर्ष की भूमिका समझा गया। पर, सबेरे उठकर आयों ने देखा, नगर में कहीं कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। रथ्या सूनी है। ऐसी विशाल रथ्यायें और ऐसा नगर भुजु और उसके साथियों ने अभी तक नहीं देखा था। जान पड़ता था, वह लौह युग का एक भव्य नगर है। प्रधान सड़कें २२ हाथ से भी अधिक चौड़ी थीं। छोटी-से-छोटी गलियाँ भी ६ हाथ से कम चौड़ी नहीं थीं। सड़कें और गलियाँ समकोण पर एक दूसरे को काटती सीधी चली गई थीं। हरेक सड़क और गली पर सार्वजनिक उपयोग के कूप थे। अधिकांश घरों में निजी कुर्याएँ और स्नान-कोष्ठक थे। पानी निकालने के लिये नालियों और मौरियों की सुन्दर व्यवस्था थी। अधिकांश घर पकड़ी हँटों के द्विभूमिक, त्रिभूमिक थे। हँटों की जोड़ इतनी बारीक थी कि उसमें छुरी नहीं डाली जा सकती थी। यह सुखद और स्वच्छ थे। छोटे घरों में भी दो कमरे अवश्य होते थे। बड़े तो प्रासाद जैसे जान पड़ते थे। आँगन में हँट बिछे थे। जिसके किनारे द्वार और खिड़कियाँ थीं। मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलता था। स्नान घर भी उसी ओर होता था। निचले ही तले पर नहीं, बल्कि ऊपर के तले पर भी स्नान घर थे। पाखाना छत पर था। सड़कों पर दीपस्तंभ थे, जो रात को जला करते थे। सप्तसिन्धु की भूमि के भीतर भी परिणियों के नगर थे, पर उनका वैभव आयों के कारण अनुरुण नहीं था। वह समृद्ध रहने पाते ही नहीं थे। वैभवशाली परिणि भी बाहर से अपने को बैंसा दिलाना संकट की बात समझते थे।

बड़े-बड़े प्रासाद खाली पढ़े थे। पर, दूसरे घर आदमियों से सर्वथा शून्य नहीं थे। पीतकेश भी रक्त बहाते-बहाते थक गये थे। उन्हें अधिक लाभ था, नगर की संपत्ति लूटने में। नगरवासी निहत्ये

एवं वंशवद थे। वह सहायता करने के लिये तैयार थे। आर्य सूरि चड़े-चड़े प्रासादों में ठहर गये। यही नगर की लूट—सोना, चाँदी, मणि-मुक्ता आदि ढेर—की जा रही थी। भुज्यु की दृष्टि पश्चि सेनानी पर थी। जैसे भी हो, उसे पकड़ना आवश्यक था। दूरदर्शी होता तो श्याव-पुत्र को समझ लेना चाहिये था कि हमारा प्रभुत्व स्थल के साथ समाप्त हो जाता है। समुद्र के स्वामी पश्चि हैं। आर्यों के घोड़े समुद्र को रौंद नहीं सकते।

नगर की प्रतिरक्षा का भार अपने सेनानियों पर रख कुछ सुविशाल नावों पर चढ़ भुज्यु समुद्र के भीतर बुक्सा। सप्तसिन्धु की विशाल नदियों में नाव चलाना आर्यों को ज्ञात था पर वह नदी नहीं समुद्र था। नदियों की सीमायें होती हैं। किनारे पर परिचित स्थान होते हैं। समुद्र में न कूल-किनारा होता, न परिचित स्थान ही। महा नगर में हजारों ऐसे आदमी थे, जिन्हें समुद्र यात्रा का अनुभव था, जो असुर, बवेल देशों की यात्रा के अभ्यस्त थे। पर, उन पर विश्वास कैसे किया जा सकता था? उनकी अपेक्षा आर्यों और पश्चि क्षियों की सन्तानें अधिक विश्वसनीय थीं। यद्यपि आर्य उनको नीच दृष्टि से देखते थे, पर पश्चियों के सामने वह अधिक अच्छे माने जाते थे, उन पर आर्यों का अधिक पक्षपात था। वह आर्यों की सेवा करने के लिये कितने तैयार थे, यह हम धन्व यात्रा के समय देख चुके हैं। पश्चि भी इसे जानते थे, इसलिए वह एक ही तलबार से आर्य— और अर्द्ध-आर्य दोनों को साफ करते थे। भुज्यु के पास पचास से अधिक विशाल पोत थे। अश्वों की आवश्यकता नहीं थी। सोने-चाँदी से अधिक मूल्यवान् थी, सत् आदि खाद्य-सामग्री। समुद्र के पानी में होते भी वहाँ आदमी प्यास से मर सकता था, इसलिये पानी भर के रखना आवश्यक था।

भुज्यु को समुद्र के किनारे पहुँच कर तैयारी करनी पड़ी थी जबकि पश्चि पहले से ही तैयार थे। साथियों ने बहुत समझाने की

कोशिश की, पर भुज्यु किसी की बात सुनने के लिये तैयार नहीं हुआ। वह जानता था; पण सेनानी हमारे खिसकते ही फिर यहाँ आ धमकेगा। आर्य अनिश्चित काल तक इस नगर में रुक नहीं सकते थे। जलदी-जलदी में उसने सारी तैयारी की। पण और कितने ही अर्द्ध-परिणि पथ-प्रदर्शक और नाविक अपने साथ लिये।

पोत चल पड़े, अनुकूल पछिमा बायु थी। पाल खोल दिये गये। एक-एक अरित्र (पतवार) पर दो-दो आदमी लग गये। एक आर्य और एक अनार्य। पोत पक्षी की भाँति उड़ने लगे। कुछ ही घड़ियों में तट-भूमि ओभल हो गई। चारों ओर नीचे जलराशि और ऊपर नीलाकाश था। धन्व (मरु) भूमि में कम-से-कम धरती और आकाश का वर्णन भिन्न-भिन्न होता है। यहाँ तो सब अभिन्न, ऐद केवल पोत के भीतर था। एक दिन और एक रात बीत गई, दूसरे दिन का मध्याह्न आया। इसी समय परिणियों के पोत दूर न्हितिज में दिखाई पड़े। भुज्यु को आशा हुई, अब शत्रु हाथ से नहीं निकलने पायेगा। पर, दो घड़ी बाद जिन पोतों को उन्होंने पकड़ा, वह पण सार्थवाहों के थे। सेना और सेनानी हाथ से निकल चुके थे। पोत महार्घ निधियों से भरे थे। पर, यहाँ भुज्यु को उनकी आवश्यकता नहीं थी। सारे खाद्य और हथियारों को छीनकर सार्थवाहों को उनके भाग्य पर छोड़ पीतकेश आगे बढ़े। इसी समय बायु प्रतिकूल ही चली। देखते-देखते समुद्र ज्ञुञ्ब हो उठा। ताढ़-ताढ़ भर की लहरें उठने लगीं। पोत आकाश में टैंग नीचे गिरने लगे। वरुण की बहुत प्रार्थना की गई। पर, समुद्र वरुण की आशा मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी समय एक और संकट आन उपस्थित हुआ। रात में तारे मेघ के भीतर लुप्त हो गये। डर लग रहा था, किसी समय पोत समुद्र के ग्रन्थि में विलीन न हो जाय। वैसा न होने पर भी उन्हें कुछ नहीं जान पड़ रहा था कि वह किस ओर जा रहे हैं। पथ-प्रदर्शक भी किंकर्तव्य-विमूढ़ थे।

एक और यह निराशा थी, दूसरी और अधिकांश पीतकेशों की बुरी दशा थी। वमन करते-करते उनकी अँतड़ियाँ मुँह को आ रही थीं। खानेपीने का उन्हें साहस नहीं होता था। भुज्यु और उसके थोड़े से साथी इस रोग से मुक्त थे; दूसरी रात बहुत बुरी तरह बीती। तीसरे दिन समुद्र शान्त था। पोतारोहियों ने भोजन किया। अब वह मुँह से बात कर सकते थे। सबके मुँह से वरुण देव की स्तुति निकल रही थी। वह बार-बार प्रार्थना कर रहे थे—“हे सहस्र नेत्र शुभ्र वरुण ! आप नदियों के पाथ को जानते हैं। आप ने विशाल द्यौ और पृथिवी को थाम रखा है। आप हमारे ऊपर कुधन हों। हमने कौन-सा पाप किया, जो कि आप अपने भक्तों को मारना चाहते हों”

हाँ, उन्होंने पाप किया था। समुद्रों और नदियों के राजा वरुण को उन्होंने पीछे डाल दिया था। उन के लिए इन्द्र ही सब कुछ थे। यहाँ भी वरुण से निराश हो भुज्यु ने दोनों अश्विनों की प्रार्थना की। अश्विन्द्वय में दिवोदास की भी बड़ी आस्था थी। तीसरा दिन और तीसरी रात इसी तरह बीती। ऋषु अच्छी देख निराशा कम होने लगी। चौथे दिन उषा की प्रार्थना करते भुज्यु ने चारों ओर घटिट दौड़ाई, तो उत्तर की ओर समुद्र तट स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। अश्विनों ने एक देववाहक के मुँह से पहिले ही कह दिया था—“हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। घबराओ नहीं!” योड़ी ही देर में उनकी शतारित्रा (सौ पतवारों वाली) नाव तट पर पहुँच गई। दूसरे कितने ही पोत भी सायंकाल तक वहाँ आये। छोटी नावों पर चढ़ सबसे पहिले भुज्यु कुछ सेनपों के साथ किनारे पर उतरा। पृथिवी माता को छोड़ने से अपने को वह अनाथ समझते थे। पृथिवी का स्पर्श उन्हें सचमुच दैबी शक्ति प्रदान कर रहा था। योड़ा ढूँढ़ने पर उन्हें मानव बस्ती भी मिल गई। यह भी जात हुआ कि वह महानगर से पाँच दिन के मार्ग पर हैं। यह अमित्र देश था। पीतकेशों के पास

## १०८ । दिवोदास

अपने अश्वों का बल नहीं था, तो भी उन्हें अपने असि-चर्म पर पूरा भरोसा था ।

भुज्यु समुद्र तट की भूमि को विजय करने के बाद उत्तर की ओर मुड़ा, परवणी के तट पर भरतों और उनके राजा ने विजयिनी वाहिनी और उसके सेनानी का दिल खोल कर स्वागत किया ।

## ८. अतिथि गुह (महान् अतिथि सेवी)

दिवोदासादतिथिग्वस्य राधः

—शृङ्क० ६।४७।२२

दिवोदास तृत्सुओं का राजा था जो व्यास और परुषणी (रावी) दोनों नदियों की बीच की भूमि में रहते थे। पर अब उसकी बाँह सारी सप्तसिन्धु (पंजाब) भूमि पर फैली थी। बलिक, भुज्यु की महान् विजय ने तो समुद्र को भी नहीं छोड़ा था। पश्चि श्रीब विल्कुल वह आरियों के बशांवद थे। किरात यद्यपि अभी नतशिर नहीं हुये थे और उनका नतशिर होना संभव भी नहीं मालूम होता था। आर्यों में भी आपसी फूट बढ़े जोर की थी। यद्यपि वह जन्मना ही अपने रंग रूप के कारण आर्य-भिन्न जातियों से सर्वथा भिन्न दीख पहते थे। कोयले की तरह काले निषाद मुश्किल से ही कभी आर्यों का मुकाबिला करते थे। नगर आम निवासी पश्चि की आखिरी संघर्ष कर चुके थे। लेकिन मंगोलाधिद मुख्य-मुद्रा से किलात (मोन्खमेर) पहाड़ों में रहते अब भी बड़े जोर का मुकाबिला कर रहे थे। भरद्वाज ऋषि को मालूम होते देर नहीं लगी कि किरातों पर विजय तभी हो सकती है, जब सभी आर्य एकतोबद्ध हों। आर्यों में पुरुओं—जिनका ही एक अंश तृत्सु-भरत के जन सबसे शक्तिशाली थे। परवी, शतुद्री, (सतलज) के दक्षिण में रहने वाले यदु और तुर्बसु इसीलिए उनसे जलते थे, कि सारे सप्तसिन्धु में तृत्सुओं की धाक थी। सभी जगह विश्वश्व और उसके बाद उसके पुत्र दिवोदास को बड़ा माना जाता था। यदु और तुर्बसु को अपनाने के लिये भरद्वाज ने कितने ही प्रयास किये और अन्त में वह सफल हुये।

★

★

★

दिवोदास ने केवल तृत्यु भूमि को ही स्वर्ग-सा नहीं बना दिया था। बल्कि सारे सप्तसिन्धु की काया-पलट कर दी थी। जितने बड़े मार्ग थे सभी पर दो-दो योजन के बाद आवसथ बनाये। हरेक आवसथ के लिये अज, अवि, गौ की भारी संख्या पाली हुई थी। आवस्थिक गोपालों और उनके पशुओं से जंगल गुंजायमान हो गये थे। कोई भी आर्य पथिक आवसथ पर पहुँच कर भोजन और दूध के के ग्रहण किये बिना आगे नहीं जाने पाता था। दिन के बक्त तो करम्म (सत्) और दूध-दही से काम चल जाता था। पर शाम के लिये सूप प्रचुर मांस के साथ सूप तैयार होता। फिर खादथ और पिवथ का हळा मच जाता। बधाँ के तजव्वे से मालूम हुआ कि प्रतिदिन कितने गव्यादनीय की अवश्यकता पड़ती हैं। उतनी गायों को मारकर उनका चमड़ा एक ओर जमा कर दिया जाता और बड़े-बड़े मांस खराड़ विशाल ताम्र-पात्रों में डालकर उबाले जाते। इसके कारण आवस्थों के रसोइयों को पीछे के राज्यि रन्तिदेव के सूपकारों की तरह कहना नहीं पड़ता—“सूपं भूमिष्ठं मश्नीध्व नाम मांसं यथा पूरा”

आवस्थागार बड़ी सुन्दर जगह पर बने हुये थे। जहाँ हरे-भरे बृक्ष समय पर फलों-फूलों से लदे रहते और आसपास कितने ही गायें, घोड़ियाँ चरा करतीं। वहाँ पानी के लिये प्याव और कूर्ये भी बने रहते। आवस्थ परिचारकों—जिनमें निशाद लोगों की संख्या अधिक थी—वे रहने के घर होते। आवस्थ कभी शृन्य नहीं होती। आवस्थ ग्रामणी आर्य ही हो सकते थे, क्योंकि, वही आयों का शिष्टाचार अच्छी तरह निर्वाह कर सकते। वैसे अपने अधिक गौवों के कारण हरेक आर्य कुल भरद्वाज-गोत्र, वशिष्ठ-गोत्र आदि नामों से विस्थात होता था, उसी तरह आवस्थ गोत्र भी नाम होता। उन्हें दिवोदास ने मना करने पर भी भरद्वाज आवस्थ गोत्र नाम दिया था।

यदु-तुर्बस को जहाँ दिवोदास की हरेक पश्चि-विजय में भारी

निधि भैंट की जाती, वहाँ उनके बृद्धों ने यह भी देख लिया, कि युद्ध करने से गोत्रवध के सिवाय और कुछ लाभ नहीं हो सकता। भरद्वाज स्वयं अपने शिष्य के साथ उनके पास पहुँचते और कहते। इन्द्र ने दिवोदास को गोत्रवध के लिये नहीं मेजा है। कई सालों के प्रयत्न से इन्द्र ने यदु तुर्वस के मन को जीतने में सफलता पाई। सारी सप्तसिन्धु भूमि शान्त और समृद्ध हो गई।

प्रातः और सायं सबन में हर-एक घर में स्वाहाकार का स्वर उठता। धृत-मिथित धान्य से बायु सुगन्धित और वेश्य धूमिल दिखते। हरेक यह इतना धन (पशु) धान्य संपत्ति होता कि किसी घर से अतिथि भग्नाश नहीं लौटता। सचमुच सप्तसिन्धु में दूध-दही की नदियाँ वह रही थीं, जो अधिकतर आर्यों के लिये थी। पर आर्य भिन्न जाति की स्त्री-पुरुष भी सायंकाल आवस्थ में पहुँच भूखे सो नहीं रह सकते थे।

तुग्र और उसकी स्त्री रोहिणी दोनों तरण आर्य एक दिन शाम को बहुत थके गर्मी के मारे भी परेशान बीच में एक कच्चे कुये और बन्ध आम की शीतल छाया को देखकर वहीं विश्राम करने की सोचने लगे। अभी वह टहनियों के भाड़ से जगह को साफ नहीं कर पाये थे कि गन्तव्य दिशा की ओर से दूसरा यात्री आ मिला। यात्री ने तुग्र को कहा—नहीं आर्य, यहाँ विश्राम करने की जरूरत नहीं, आवस्थ नजदीक है।

हम यक गये हैं—हमारी खाने की इच्छा नहीं है।—यात्री ने कहा।

प्यास की इच्छा तो अनिवार्य होती है। आजकल गर्मी का मौसम था। आवस्थ में मधुमिथित सोम (भांग) मिल सकती है, जो यकावट को दूर कर देगा। मढ़ा तो दिन भर चाहे जितने चघक पी लूँ।

तुग्र दम्पत्ति को इस एकान्त से स्थान पर रात बिताने में कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि एक तो दोनों यौवन के बल और पराक्रम से युक्त

थे, दूसरे वह किलात शत्रुओं की भूमि से दूर थे। लेकिन यात्री के आग्रह करने पर वह आवसाथ में गये। दोनों ने चमड़े की द्रापी टाँग दी। जिस के भीतर से उनका गौरवर्ण देह लाल-लाल दिखाई दे रहा था। उनके शिर के सुनहले लम्बे-लम्बे केश उनकी तरुणाई के सौंदर्य को निखारने का काम दे रहे थे। आवस्थिक ने मीठे-मीठे शब्दों से उनका स्वागत किया। पान पूछकर सुवर्ण वर्ण सोम को दूध और मधु में मिलाकर बढ़े चपक में दिया। दुनियाँ में इस समय उससे बढ़कर प्रिय कोई खान-पान की चीज उनके लिये नहीं हो सकती थी। सारे चपक को वह एक ही साँस में पी गये और उसके बाद ही उन्हें “इन्द्राय आयम्” यह कहने की उन्हें स्मृति आई।

आवस्थिक ने पूछा—आर्य, बहुत दूर से आये मालूम होते हैं।

—नहीं तात, यही चार-पाँच दिन के रास्ते से आये हैं, सूजयों के देश से।

पर ग्रीष्म के दिन हैं।

—ग्रीष्म के दिन में यात्रा मुश्किल होती है। जाड़े के दिन में ओढ़ने के लिये बहुत-सा कपड़ा लेके चलना पड़ता है लेकिन शूष्मि के प्रताप से हरेक आवस्थ में पर्याप्त कम्बल रहते हैं। वर्षा में भीगने का ढर रहता।

ग्रीष्म शूष्म यात्रा के लिये सर्वथा अनुकूल तो नहीं होती, पर हमने इसे ही पसन्द किया।

—कोई जरूरी काम होगा?

—जरूरी काम तो वही है जो हरएक आर्य को मालूम है। ब्रह्म-श्व-पुत्र और भरद्वाज शूष्मि ने हमारे लिये जो करणीय बनाया है।

अर्घ्य आर्य (निषाद छी और आर्य पुत्र का पुत्र) आवस्थ के एक मुखिया ने कहा—आर्य घोड़े पर आ सकते थे?

—हम दोनों ने अपने शरीर की इस प्रकार परीक्षा करनी चाही । दिवोदास राजा ऐसे ही तरुणों को पसन्द करता है ।

—हाँ, वह तो सुरि रहते समय से ही स्वयं बड़े मेहनती रहे हैं । अश्वसमन को जीतकर बाल्य में ही उन्होंने अपनी शुद्धसवारी को सिद्ध कर दिया । पैदल चलने में भी नहीं झिखकते ।

—वह कहते हैं कि हमारे सब से भयंकर और जंबर्दस्त शत्रु किरात हैं । उनकी निवास भूमि समतल धरती नहीं बल्कि पहाड़ी भूमि है, जिसमें घोड़े दौड़ नहीं सकते । हमारे तरुणों को किरातों की तरह पर्वतों पर छलांग मारने की हिम्मत होनी चाहिये ।

—आर्य और आर्या दोनों को इस समय यदि दिवोदास देखते तो बड़े प्रसन्न होते ।

इस बातचीत के सुनने से मालूम होगा कि दिवोदास और भरद्वाज ने आयों को कितना परिश्रम का अभ्यासी बना दिया था ।

\*

\*

\*

सरस्वती तट के कुशिकों को देखे या शुतुद्रिन्तट के पुरुषों को सभी आर्याजनों में दो चीजें एक समान दीख पड़ती थीं—एक तो सभी धनधान्य संपन्न थे और दूसरे सभी भरद्वाज ऋषि और दिवोदास के संकल्प को अपना संकल्प समझते थे । सभी जानते थे कि अच्छे माता-पिता की अच्छी संतान होती है । इससे उन्होंने घोड़ियों और गायों पर तजर्बा करके देख लिये । कम्बोज घोड़ों की इस प्रकार संतानें हुईं, वह करीब-करीब ब्राप के समान थी । जिस तरह घोड़ों के लिये प्रतीची (पश्चिमी) दिशा प्रसिद्ध थी, उसी तरह गायों और वृषभों के लिये सरस्वती तट प्रसिद्ध था । घड़े-घड़े भर दूध देने वाली सरस्वती पारी गायें सब जगह देखने में आती थीं । ऐसे देश में तुग्र दम्पत्ति जैसे तरुण दुर्लभ नहीं थे । दिवोदास ऐसे तरुणों का बड़ा सम्मान किया करता था । उसे हर साल किरातों से युद्ध करना पड़ता । पर किरात भी युद्ध के अन्यस्त ही गये थे । उनकी चलायमान पुरियाँ

अब पहले की तरह जाडे भर के लिये तराई में नहीं होतीं। कभी-कभी वह तराई के ऊपर कम ऊँचाई की जगह में अपने जाडे बिताते। बरफ पड़ने का डर था, जिससे पशुओं को घास मिलना भी दुर्लभ हो जाता। नहीं तो पहाड़ों ही में वह चले जाते।

तुग्र-दम्पत्ति जल्दी ही दिवोदास के शिविर में पहुँचे। शिविर बस्तुतः पर्णकुटी थी। धोड़ों, गायों और मनुष्यों के लिये अनेक पर्ण-कुटियाँ बनी थीं। अतिथियों की पर्णकुटियाँ कुछ विशेष आकर्षक और सुखद थीं। जहाँ दस हजार मनुष्यों के निवास का प्रबन्ध हो, उसे पर्णकुटियों का नगर कहा जा सकता था। यहाँ दिवोदास का अपना आवासथागार था। तुग्र दम्पत्ति को आवासथागार में ठहराया गया। समाचार पाते ही दिवोदास स्वयं उस कुटी में गया और दोनों के शिर का आप्राण करके बड़े हृष्ट से स्वागत किया—बत्स, तुम्हारे मुख देखते ही मालूम होता है कि तुम इस गर्मी में बड़ा कष्ट सहते यहाँ पहुँचे।

—नहीं आर्य, वह कष्ट कुछ नहीं है, जब हम आप और ऋषि के चरण के दर्शन करने में सफल हुये।

—पूछने पर मालूम हुआ कि वह सूंजयों की उत्तरी सीमा से आये हैं।

तुग्र ने यह भी बतलाया—हम लोगों की भूमि से दस्युओं की भूमि कुछ ही दिन के रास्ते पर है। हमें हर साल उनका प्रहार सहना पड़ता है। परिं किसी समय हमारे लिये भयंकर थे। अब उनका उपद्रव नहीं है।

दिवोदास ने कहा—परिं अब हमारे लिये उतने भयंकर नहीं हैं। हमारे मनु आदि पितरों के प्रयास से वह भय बहुत कुछ दूर हो गया। पर किरात आयों के लिये आज सबसे भयंकर शत्रु है। जब तक उनको दबा नहीं दिया जाता, तब तक हमारा जीवन सभय ही बना रहेगा।

—आर्य आप के इस दशा में जो प्रयास हो रहे हैं, उसे सारा

सप्तसिन्धु जानता है। उसी प्रयत्न में भाग लेने के लिये मैं चला, तो मेरी पत्नी रोहणी ने भी मेरा साथ दिया।

—बत्सो, यही बात है मुझे इन्द्र की प्रतिशा पर विश्वास है कि किरात अजेय नहीं है।

—इन्द्र का शत्रु होकर कोई अजेय नहीं हो सकता।

—बत्स, इन्द्र ने तुम्हारे जैसे पुत्रों को पैदा किया, इसीलिये कि वह सफेद हिमाच्छादित वृहत् पर्वत, जहाँ सब से अच्छा सोम पैदा होता है, किरातों का घर है।

—अवश्य, ऋषि की वाणी, इन्द्र की प्रतिशा पूरी होकर रहेगी। हम उसी महायज्ञ में की दो छोटी-छोटी समिधायें बनना चाहते हैं।

—बत्स, स्वागत है तुम्हारा। यहाँ तुम अपने जैसे तरुण देखोगे, जो गन्धारी और कम्बोज से भी कुशिकों के भीतर से आये हैं।

\* \* \*

तृत्सुओं की भूमि आर्य भट्टों की छावनी-सी बन गई थी। वैसे सारे सप्तसिन्धु में भरतद्वाज ने प्राण-सा फूँक दिया था। आयों में आपसी संघर्ष को वह देख नहीं सकते थे। ज्यादातर उनके और दिवोदास के मधुर वर्ताव से मेल-मिलाप हो जाता था। और मामूली सिरफूटौ-बल अधिक होने की नौबत नहीं होती और प्रतिदंदियों में मेल हो जाता। पद्मशशी (रावी), विपास (व्यास), और शुतुद्रि (सतलुज) के कछार नरवृन्दों गोवृन्दों और अश्ववृन्दों के निवास स्थान बन गये थे। वर्षा के दिनों में भोपड़ियाँ नदी की कछारों से दूर हट जातीं, नहीं तो वह जल की धारा के पास तक फैल जातीं। यद्यपि सप्तसिन्धु के किसी भाग में भी ऐसे भट्टों के सैनिक व्यायाम का प्रबन्ध था। पर तृत्सु भूमि सारे आर्य तरुणों का मिलन स्थान बन गई थी। दिवोदास स्वयं अपने शरीरिक व्यायाम, गदा-युद्ध, धनुष-युद्ध का कौशल दिखलाता। वहाँ पतले-दुबले शरीर के ऋषि भरद्वाज के मुँह से निकलती वाणी देव वाणी-सी प्राणदायक होती। जिसमें इन्द्र संकल्प और आयों के शत्रुओं के

पराजय की निश्चिन्तता की बात ही नहीं बल्कि सारे सप्तसिन्धु में कहीं भूख या घाव का दुख सभी आयों के लिये खतरे की बात कही जाती। ऋषि का कहना था—झोपड़ी एक हाथ से नहीं उठती, चाहे वह हाथ कितना ही मजबूत हो। लेकिन सौ हायों के लगाने पर बड़ी झोपड़ी भी हलके तृण-सी लगती है। सप्तसिन्धु में कोई आर्य पशु-और गवाश्व धन से हीन क्यों हो, जबकि उसके भाइयों के पास धन है। हजारों धनवाले यदि एक-एक पशु दे दें तो दस गरीब भी सौ-सौ धनवाले हो जायेंगे। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन्द्र हमारी सहायता तभी कर सकते हैं जब हम सभी एक परिवार से दिखाई पहें। इन्द्र ने हमारे खानपान (हमारी प्रपा, हमारे अन्नभाग) को समान (साभा) बतलाया है। उसकी अवहेलना करना और सिर्फ अपने स्वार्थ का ख्याल करना भारी पाप है। जो केवल अपना पेट भरने वाला (केवलादी) है वह केवल पाप करने वाला (केवलाद्या) है। ऋषि भरद्वाज के उपदेशों ने हरेक हाथ को कार्यपरायण किया वहाँ स्वार्थ की मर्यादा बाँधने के लिये मजबूर किया। पश्चणी के तट पर युद्ध विद्या में अभ्यस्त होते आयों को प्रति वर्ष उत्तर के पहाड़ों में सक्रिय युद्ध-सी देखने का मौका मिलता और वीरों की गायायें सारे सप्तसिन्धु में प्रतिवर्ष नये-नये रूप में सुनाई पड़तीं।

बान, निंबंग (तर्कश), धनुष, ज्या (प्रत्यंचा), वर्म (कवच), परशु (फरसा), वासी (वसला), शृण्ठि (लुरा), वज्र, अष्टा (आरा) और धार लगाने वाले द्वयोत्र (शान) सारे ताम्र या पाषाण के हथियार थे। यहाँ अच्छी तरह उनके उपयोग की बातें बतलाई जातीं। वहाँ हजारों कर्मार उनको बनाने में नियुक्त हो अपने कौशल का परिचय देते।

ताँबे के हथियार और अधिक प्रयुक्त होने लगे, क्योंकि ताँबे का गलाना और उससे तेज धार के हथियार बनाना आयों के लिये सुगम हो गया था। पर, कठोर पाषाण जो ठोकर लगाने पर भी जल्दी नहीं टूटते और भी वज्र के रूप में प्रयुक्त होते। शक्तिशाली योद्धा अपने वज्र के

एक प्रहार से शत्रु के शिर को टुकड़े-टुकड़े कर देता। बज्र असि से प्राण हरने में कम नहीं था।

सप्तसिन्धु की भूमि सुखी और समृद्ध और उसके तरुण युद्ध में अजेय संकल्प रखते थे। इस बल का पता प्रतिवर्ष किरातों को जाड़े में मिला करता। अभी पशुपालक अधिक नहीं थे। लेकिन आर्यों के देखा-देखी उन्होंने भी भेड़-बकरियाँ और गाय-बोड़े रखने शुरू किये, पर उनसे अधिक पसंद करते थे आखेट के पशुओं के मांस को और जंगलों के फलों को कुछु को ताजा खाते और कुछु को सुखाकर दूसरे समय के लिये रख छोड़ते। उनके खाने की चीजों के जमा करने में छियाँ जैसे सहायक थीं, वैसे ही युद्ध में भी वह सहायक होतीं। यह उनके लिये स्वाभाविक बात थी।

## ६. अबला सेना

खियो हि दास आयुधानि चक्रे । कि मा करन्नबला अस्य सेना ॥

—शृङ्‌कृ पृ. ३०६

आयों का सबसे बड़ा बल था अश्व, क्योंकि अश्व पर चढ़कर वह चार घण्टे में साठ योजन (एक सौ बीस मील) जा सकते थे। किरातों को पहले तो घोड़ों से परिचय नहीं था। अब परिचय हो गया था। तो भी वह पहाड़ी छोटे घोड़े (टाँघन) पैदा करने में सफल नहीं हुये थे। बड़े घोड़े पहाड़ों में इतमीनान से चल नहीं सकते थे। दौड़ने पर तो हमेशा गिरने का डर रहता, रास्ते आदमियों ने बनाये नहीं थे। घोड़े की कमी वह अपने निशाचरपन से दूर करते थे। निशा (रात) को दौड़कर चालिस-पचास मील चला जाना उनके लिये मुश्किल नहीं था, अर्थात् चालिस-पचास मील के दूर के आर्य ग्राम में वह रात भर चलकर सबेरे पहुँच जाते। इसमें आर्य उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिये उन्होंने निशाचर होना धृष्णा की बात समझी। दस्युओं की दूसरी निन्दा अबला-सेना कहकर वह कहते थे। आर्य कहते थे—खियों को दासों ने हथियारबन्द किया, उनकी सेना अबला (बलहीन) है, वह मेरा क्या करेगी। लेकिन जैसा आर्य कहते थे, वैसी सेना अबला नहीं थी। अनेक युद्धों में आयों को मालूम हो चुका था। विशेषकर शम्भु। शम्भर के दुहिता का उतना ही आतंकी था, जितना उनके पिता का। एक दिन सारी रात चल कर शम्भु की सेना एक आर्य गाँव के पास पहुँची। अभी सुबह का उजाला नहीं हुआ था। लेकिन कुत्तों ने भौंककर आयों को जगा

दिया था और आदमियों से पहले कुत्ते उनके ऊपर भपटे । पर, जहाँ बज्रों का दो-चार छोटा-मोटा प्रहार पड़ा वह चिल्लाकर भागे । तब तक आर्य पुरुष हथियारों को लिये पहुँचे । आर्य और किरात दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते थे, लेकिन क्रोध और हर्ष प्रकट करने के लिये भाषा को समझने के लिये कोई जरूरत नहीं थी । शम्भु की ललकार ने पता दे दिया कि कोई दस्यु स्त्री बोल रही है । शब्द और स्वर गम्भीर था और उससे भी अधिक उसके प्रहार पड़ रहे थे । शम्भु के हाथ में विशाल बज्र था जिससे उसके हाथों की शक्ति का पता लगता था । उसने धीरे-धीरे आर्य दल पर प्रहार करके कितनों को अंग-भंग कर जमीन पर गिरा दिया । अबला सेना का क्या मतलब है, इसका अर्थ अब उन्हें साक्षात् दिखलाई देने लगा । अबलाओं को लम्बे-लम्बे केश जटा के रूप में फैले थे । कमर के नीचे चमड़े का जरा-जरा सा अंतर्बासिक छोड़ उनका सारा बदन नंगा था । वह काली नहीं पारहु वर्ण की थी । शरीर उनका साँचा से ढला हुआ संतुलितावयव था, जिसे सुन्दर छोड़ और कुछ नहीं कहा जा सकता था । उनकी चिपटी और छोटी नाकों को आर्य अनास-खनास कह सकते थे । पर, किलात भी आयों को लम्बनाश, अश्वनाश कह-कर कुरुप बतला सकते थे । सूरज के उगने तक युद्ध समाप्त हो गया था । अबला सेना सबला सावित हुई । बहुत से हत या अलिअहत हुये बिना कोई नर या नारी नहीं बचे थे । आयों की भोपड़ियों में कोने-कोने में घूमकर किरात नारियों ने देखा वहाँ कोई प्रतिकार करने लायक नहीं रह गया था । शम्भु ने भोपड़ी के एक कोने में एक चार-पाँच बरस के बालक को ढर के मारे सिकुड़ा बैठा देखा । बालक की करुणापूर्ण आँखें शम्भु की आँखों की ओर एक टक़लगी थीं । शम्भु को उधर बढ़ते बालक के मुँह से एकाएक चीतकार लिकली—अम्ब पाहि । शम्भु ने कुछ आर्य भाषा जाननेवाली परिण अनुचरी से पूछा—क्या कह रही है ?

कह रहा है—माता, मुझे बचाओ ।

आर्यों के लिये अपार घृणा रखते शम्भु के हृदय में उसी समय कुछ विचित्र भाव पैदा हुआ और उसने अपने हाथों के हथियारों को एक तरफ छोड़ बच्चे को दोनों हाथों उठाकर उसका मुँह चूम लिया, पीठ थपथपायी । बालक को वहीं छोड़ना चाहा तो उसने फिर उन्हीं शब्दों को कहण स्वर में प्रकट किया । वह समझने लगा कि छोड़ने पर दूसरी कोई निशाचरी आ जायेगी, जो माता की तरह चुम्बन करना नहीं जानेगी ।

लड़ाई समाप्त होने के बाद लड़का भी शम्भु के साथ उत्तर के पहाड़ों की ओर गया । इस लड़के का नाम पीछे आर्यों ने देवक मन्यमान रखा और वह आर्यों का भयंकर शत्रु तथा दासों का जबर्दस्त समर्थक हुआ । आर्य उसके नाम से काँपते थे । वह इतना ही बलवान और युद्ध-निपुण था । जहाँ दूसरे किरात (दास) पीले वर्ण के काले केशों वाले मूछरहित होते थे वहाँ देवक के शिर पर चाँदी के वर्ण के केश और पीली-पीली घनी मूळ-दाढ़ियाँ और नीले रंग की आँखें थीं । यह रंग दासों के लिये शताब्दियों से क्रोध का भाजन था जिसको देखते ही वह खूँखार जानवर की तरह उनके ऊपर टूट पड़ते । पर देवक ने उनके दिल में इस वर्ण के प्रति भारी आत्मीयता प्रकट कर दी । बचपन में ही दासों में जाने से देवक को दासों की भाषा अपनी भाषा बन गई थी और कुछ ही वर्षों बाद उसे आर्य भाषा का कोई ज्ञान नहीं रह गया । वह अपने को दास जाति का समझता था । यदि रंगरूप में फरक था, तो उसे दासों के देव का प्रताप मानता था । दासों के लिये कम-से-कम एक पीतकेश ऐसा हो गया था, जिसे कि वह अपना समझते थे ।

शम्भु बहुत वर्षों तक देवक को अपने से एक क्षण के लिये भी अलग नहीं छोड़ती थी । पहले तो इसलिये कि कोई उसे आर्य शिशु समझ कर मार न दे । पीछे उसे वस्तुतः उसने अपना पुत्र मान

लिया। और पुत्र-स्नेह के कारण कृष्ण भर भी उसको अलग रखना असह्य मालूम होता था। कुछ बड़े होने पर शंबर ने भी उसमें शत्रु का भाव छोड़ नाती का प्रेम पैदा किया। जब-तब देवक को अपने पीले बालों और नीली आँखों से बृशा होती; पर, यह अवस्था ज्यादा दिन तक नहीं रही। क्योंकि कृष्ण केशदास देवक को अपना आत्मीय मानते थे। देवक अकेला ही पीतकेश था, जो इन वृहत् पर्वतों के भीतर बहुत दूर तक धूमा था। आर्य दो-चार योजन भी भीतर धुसे बिना जान से हाथ धोते। वह तो किलातों की भूमि थी, अतः देवक की अपनी भूमि थी।

बहुत दिनों बाद देवक ने बतलाया था इन वृहत् पर्वतों में सबसे दूर और सबसे ऊँचे वह है जिन पर सफेद बादल जैसे हिम से ढके हैं। यहाँ से जितने ही आगे को जायें, वह अधिक ऊँचे होते जाते हैं और उनके ऊपर चलने में बढ़ा परिश्रम पड़ता है। रास्ते का पता नहीं मालूम, पर किरात उसे जानते हैं। उन्होंने घासों और पेड़ों में कुछ निशान कर रखे हैं जिससे जानने में आसानी पड़ती है। अधिक-तर रास्ते नदी के किनारे से जाते हैं। यह विपासा (व्यास) नदी ऊपर कुछ कम चौड़ी होती जाती है, पर, वही सबसे बड़ी नदी वहाँ दिखाई पड़ती है। कहीं दो पहाड़ों के बीच कुछ समतल-सी भूमि में इसकी धार अधिक फैली रहती है और कहीं दो समतल पहाड़ों में बहुत पतली-पतली धोर अट्टहास करने वाली धारा का रूप ले लेती। आदमी को बराबर ऊपर के ऊपर ही जाते रहना पड़ता है, ऊपर जाने के साथ सर्दी भी बढ़ जाती है। जिन दिनों गर्मी के मारे नीचे पसीने-पसीने हो जाते, उन्हीं दिनों पहाड़ में पाँच-छः दिन जाने पर हमें गर्मी का पता नहीं लगता और वहीं कहीं जाड़े के दिन में हिम पड़कर सब को सफेदी से ढाँक देती है। वह जो दूर सफेद वृहत् पर्वत दिखाई पड़ते हैं, वह सफेद पत्थर नहीं हैं बल्कि हिम से ढके पत्थर हैं। वहाँ की सर्दी के बारे में तो पूछना ही नहीं। दास बृक् (मेहिये) के चमड़े, भालू के

चमड़े से अपने को ढाँकते हैं तो भी सर्दी के मारे बुरी दशा होती है ।

किसी श्रोता ने पूछ दिया—भालू चमड़े भी पहनते हैं ?

—हाँ, भालू चमड़े भी । और एक बात मैं और बतलाऊँ । वहाँ एक दूसरे रंग के भालू दिखाई पड़ते हैं जिनका रंग काला नहीं भूरा होता है ।

—भूरा ?

—हाँ भूरा । लाल रंग लिये हुये भूरा । और उनमें एक और भी बात है । वह सारे जाङे भर सोते रहते हैं ।

—सोते रहते हैं सारे जाङे भर ?

जब जाह्ना आता है और ऊपर के पहाड़ों पर बरफ पड़ने लगती है तो पश्चु अपने स्थान को छोड़ और गरम जगह में चले आते हैं । किरात भी तो अपने शिकारों के नीचे चले जाने पर ऊपर के पहाड़ों से उनके तलाश में नीचे चले आते हैं । भूरे भालुओं को जब सर्दी ज्यादा लगती है तो नीचे जाने की जगह वह वहीं किसी ऊँधेरी गुहा में जाके पड़े रहते हैं । उन्हें मूर्छा की तरह नींद आ जाती है और बिना हिले-हुले वह वहाँ ऊँधते रहते हैं ।

—ऊँधते रहते हैं और फिर खाये बिना छुमासी नींद में मर क्यों नहीं जाते ?

छुमासी नींद मारने की जगह उनकी रक्षा करती है । नींद में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती । मैंने उस अवस्था में उनको देखा है, मारा भी है । जैसे मूर्छित आदमी बज्र से मारने पर बिना कुछ प्रतिकार किये चुपचाप मर जाता है, वैसे ही यह भूरे भालू भी मर जाते हैं । मैंने जिस भालू को मारा था वह बसन्त के पहले दिनों में मिला था जिान पड़ता है जैसे-जैसे ऋतु गरम होती जाती है, वैसे-वैसे उनके शरीर में जीवन की गर्मी आती जाती हैं । होश में आने पर फिर वह खाने की धुन में लगते हैं । हमारे यहाँ से बृजों, बनस्पतियों की आदत वहाँ कुछ भिन्न है । वहाँ बसन्त में पतझड़ नहीं होता, बल्कि

शरद के अन्त में पेड़ नंगे हो जाते हैं। और घास मुलसी मालूम होती है। हाँ, एक ऐसा भी पेड़ है जिसके पत्ते सदा हरे होते हैं। यह भी सुनकर आप को आश्चर्य होगा। ऐसा पेड़ जिसके पत्ते सदा हरे रहते हैं।

—हाँ, इस पर विश्वास करने का मन नहीं करता।

—मैंने अपनी आँखों से उस पेड़ को देखा है हमारे लोगों ने भी कभी देखा होगा। अभी तो उन्होंने उसका नाम देवदारु (देवताओं का वृक्ष)।

—देवदारु नाम तो सुना है पर वह देवलोक का दारु (वृक्ष) होगा।

—तो, उन सफेद बड़े पर्वतों को देवलोक समझ जाओ। देवदारु वृक्षों का जहाँ अंत होता है, उसके बाद ही एक सफेद छालों वाला वृक्ष (मुर्ज गुर्ज भोज पत्र) होता है। जो वर्षा के समय भी हिम के भीतर खड़ा रहता है। वहाँ तरह-तरह के पशु-पक्षी, वृक्ष, वनस्पति दिखाई पड़ते हैं। न देखने वालों को उन पर विश्वास करने का मन नहीं करता। क्या बिना देखे भूरे भालू की छुमासी नींद का विश्वास कर सकते हैं? या पंख जैसी चिकिया की तरह एक ढाली से उड़कर दूसरी ढाली पर जाने वाली गिलहरी को हम बिना देखे ही विश्वास कर सकते हैं। पर ऐसी चीजें वहाँ होती हैं।

देवक ने अपने तीस बरस के जीवन का इस तरह वर्णन किया था, उस समय जबकि वह आर्यों से लड़ते-लड़ते मरणासन हो आइत हुआ उनकी कैद में था। वह हाथ-पैर तोड़कर चिल्कुल बेबस था। बल्कि कुछ-कुछ धाव ऐसे मर्म पर पड़े थे कि वह चारपाई से फिर नहीं उठ सका। वह कष्ट सहते वहीं मर गया। पर, अंतिम जीवन तक शम्भु माता का नाम आते ही उसकी आँखों में आँसू आ जाते और शिशु की तरह “माँ शम्भु,” “माँ शम्भु” कहने लगता। जब

कोई पूछता कि देवक, तुम्हारे यह हाथ-पैर ठीक हो जायें, तो तुम क्या करोगे ?

—एक-एक आर्य को मार डालूँगा । मेरी एक मात्र इच्छा यही है कि शम्भु माता को जिन्होंने मारा, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

पानी के दर्पण में देवक का मुँह दिखलाकर आर्य पूछते—“क्या अपने मुँह, नाक, आँख, मूँछ, दाढ़ी देखकर तुम्हें विश्वास नहीं होता कि तुम दासों जैसे नहीं हो । तुम हमारे भाई हो । कहने का भाई नहीं आर्य माता के पुत्र हो ।

देवक ने खिचकर कहा—मैं आर्य माता का पुत्र नहीं बनना चाहता । मैंने जब से होश संभाला शम्भु माता को अपनी माता समझा । उसकी हत्या का बदला लेना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

—बदला लेना तो दूर की बात है । विना हाथ-पैर के जमीन पर पढ़े तुम क्या बदला ले सकते हो ? पर, अपने मुख और वर्ण को देखकर तुम्हें आर्यों का पुत्र होने पर विश्वास होता है या नहीं ।

—इसका मुझे जबाब नहीं देना है । मेरा हृदय शम्भु माता का दिया हुआ है, यह मैं जानता हूँ ।

देवक मन्यमान कुछ ही दिनों बाद मर गया । पैर का धाव बहुत दबायें के करने पर भी अच्छा नहीं हुआ । अंत मैं यह तो उसे विश्वास हो गया और शायद किसी से कभी-कभी सुना भी कि पीतकेशी के पुत्र को शम्भु ने अपना पुत्र बनाया था ।

## २०. पूर्वज पितर

अन्ना दासम्य नमुचेःशिरो यदवर्त्तयोः, मनवे गातुमिच्छन्

—ऋक् ५।३०।७

विपाश के ऊपरी कछुआर में समिधा आदि लाने के लिये बड़े सबेरे ही सैकड़ों आर्य बालक-बालिकायें ब्रिखरे मिलते। कोई सभी की सूखी लकड़ियों को तोड़ने में लगा था, कोई हरित दूर्वा (दूब) को जमा कर रहा था, कोई आसन के लिये कुशों का संग्रह कर रहा था। बालक अधिकतर दस-पन्द्रह बरस के बीच के थे और बालिकाओं के लिये भी वही अवस्था थी। सोमश्रवा ने बात छेड़ी थी—

—भगवान् ऋषि को आजकल देखने पर मालूम ही नहीं होता कि उनकी आयु सत्तर बरस के ऊपर की है।

—हाँ, उनकी दाढ़ी और केश के सफेद बालों को न देखें, तो वह बिलकुल तश्ण से मालूम होते हैं। कैसे उत्साह के साथ आज पूर्वज ऋषिओं के बारे में सारे सप्तसिन्धु के आर्यों को ललकारते हुये कह रहे थे कि मनु ने नमुचि असुर के शिर को तोड़ डाला। हाँ, इस में इन्द्र ने सहायता की। वही इन्द्र आज क्या कर रहे हैं?

—जिस बक्त ऋषि इन बातों को बोल रहे थे उस बक्त तो मालूम होता था कि इन्द्र स्वयं उनके मुख से बोल रहे हैं। उनका सिर और सारा शरीर थर-थर काँप रहा था। \*

—हाँ, कह रहे थे आर्यों के पंच जनों ने आपस में एक होकर नमुचि और उसके आदमियों को नाश करने में एकता दिखलाई थी। इन्द्र ने कहा था—तुम एक होकर लड़ो। यह आयसी ईंटों की

पुरियाँ नमुची की रक्षा नहीं कर सकेंगी । और वैसा ही हुआ । दधीचि, अंगिरा, प्रियमेघ, करव, अत्रि हमारे पूर्वज हैं । जिन्होंने पश्चि शत्रुओं से सप्तसिन्धु को जीत कर उसे आर्य भूमि बनाया । अब तुर्वस, यदु, संजय, पुरु आपसी फूट के मारे विखरे हुये हैं । इन्द्र हमारा महान् देव कहता है—या तो तुम फूट हटाकर एक ही जाओ, नहीं तो यह बहुत पर्वतों के दास इन्द्र के बज्र बनकर तुम्हारे ऊपर गिरेंगे । तुम एक-एक करके नष्ट ही जाओगे । इसे भली प्रकार जान रखो ।

सोमश्रवा ने आज के ऋषि-वचन को स्पष्ट करते हुये कहा—

—नमुचि और उसके असुर दूसरी ही तरह के थे । यह शंबर के असुर शलभ जैसे हैं । यह मरना जानते हैं, मारना जानते हैं परन्तु हताश होना नहीं जानते हैं । लड़ाई में उनकी पंक्ति आयों के हाथों कटती भी आगे ही बढ़ती जाती है । आयों से इन्द्र रुष्ट हुये तो उनका बल और बढ़ जायेगा ।

ऋषि के कहने में ऐसी शक्ति थी कि हरएक श्रोता को विश्वास हो गया, जब तक शंबर के असुर हमारे सामने सिर उठाये खड़े हैं, तब तक इसके सिवा हमारा कल्याण नहीं कि हम सब मिलकर उनका मुकाबला करें ।

—ऋषि ने यह भी कहा—एक तरण ने बीच में बात काटते हुये कहा—किरात असुर सचमुच हमारे सामने शलभ (ठिड़ा) जैसे हैं । उनका नाटा-नाटा शरीर, पीला-पीला रंग ढीणकाय । एक आर्य तरण के सामने पाँच किरात भी कुछ नहीं । यदि हम डटकर उनका ध्वन्स करना चाहें तो चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, हरम उन्हें नष्ट कर सकते हैं । ऋषि ने कहा था—नमुचि को असुर ग्राम नगर बसाकर बड़े-बड़े प्रासादों में रहते सुख की जिन्दगी विताते थे । हम उनके सुख-साधन और युद्ध-साधन पर भी अधिकार कर लेते थे, जब हम उन्हें एक नगर में हराते । शंबर के असुर न ग्राम रखते, न नगर या खेत पर निर्भर रहते । इसलिये हारने पर भी उनके पास खोने के

लिये कुछ नहीं रहता। वहीं अपने पत्थर और योड़े से ताँचें के हथियारों को लिये वह जहाँ कहीं भागकर अपनी रक्षा करते हैं।

—और उनके पास रक्षा के लिये बृहत् पर्वत (हिमालय) जैसा साधन मौजूद है। हम तो उसके बारे में सिर्फ़ सुनी ही बात जानते हैं। उसका हमें कोई पता नहीं है। विपाश् वहीं से आती है। पर, वह हिम से गिलित पानी की धारा वहाँ बहुत सर्वी होती है, इतनी सर्वी कि आदमी जाने पर हिम बन जाये। वहाँ देवदार के वृक्ष पहिले ही खत्म हो जाते हैं जिनके लिये पतभङ्ग कभी नहीं आती, जिनके पत्ते कभी नहीं सूखते।

—हाँ, जहाँ क्रमासी निद्रा लेने वाले भालू होते हैं।

—और वह भी लाल-भूरे।

—तो, यह तो साफ़ है उनके पास भागकर रक्षा पाने का बहुत बड़ा साधन यह बृहत् पर्वत है। जिनमें हमारी गति नहीं, और असुरों की अव्याहत गति है।

—ऋषि ने कहा था कि एक बार अगर हम ऊपरी पश्चिमी और विपाश् की तराई में किरातों को रोकने में असमर्थ हुये, तो प्रलय के महोच की तरह सारे सप्तसिन्धु को बहा ले जायेंगे कोई आर्य नाम के लिये भी बच नहीं रहेगा।

—इसी पर तो यदु और तुर्वस लोगों का मन पिघल गया। उनके तरणों ने ऋषि के सामने प्रतीक्षा की—भगवन्, हमारे बृद्ध चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन हम तरणों यदु और तुर्वस उनकी बात पर चल कर पंचजन की हत्या नहीं करायेंगे। ऋषि जो आशा देंगे वही हमारा कर्तव्य होगा।

—ऋषि ने कहा था—हमारी नहीं, इन्द्र की यही आशा है कि वश्वश्व-युत्र (दिवोदास) को सारथी (सेनापति) मान किरातों से तब तक लड़ते जाओ जब तक कि एक भी किरात सप्तसिन्धु के उच्चरी सीमांत पर दिखलाई पड़े।

—ऐसा ही हो, कहा यदु, तुर्बसों और दूसरे आर्यजनों के तरण सूरियों (राजकुमारों) ने ऋषि के सामने अग्नि की शपथ करके प्रतीक्षा की। आज हमारे गोव्र में अद्भुत-अद्भुत दिखाई पड़ता है। आर्य एक माँ के जाये जैसे परस्पर मिलते हैं, हर्ष-उल्लास का कोई ठिकाना नहीं। इसको ऋषि ने भाँप लिया और कहा—अब हम शंवर के असुरों को हरा सकेंगे। अब उनकी रक्षा नहीं हो सकती।

\* \* \*

आर्यों के भीतर फूट फैलाने में सबसे प्रथम दक्षिण के आर्यजन यदु और तुर्वश थे। भरद्वाज ऋषि का पहले उन्हीं की ओर मृत गया और वह बिना सेना और बिना हथियार के वह दक्षिण की ओर यह कहते हुये चले—मेरा संकल्प अपना संकल्प नहीं है, बल्कि स्वयं इन्द्र का है। मैं अपने बन्धुओं यदु तुर्बसों को हथियार से नहीं जीतना चाहता, बल्कि बन्धु प्रेम से जीतना चाहता हूँ। वह नहीं समझते इसलिये फूट की बात करते हैं। मैं उनको समझाऊँगा कि हमारे पूर्वज ऋषि किस कारण विजयी हुये। इन्द्र ने मनु को, दधीचि को अपना प्रतिनिधि बनाकर मेजा और कहा—“इनकी आशा के अनुसार लड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूँगा।” मैं अपने बन्धुओं को समझाते थांडि उनके क्रोध का भाजन बना और मुझे उन्होंने मार डाला तो मैं इन्द्र के काज के लिये मरा। मुझको इसका कोई खेद नहीं होगा। इन्द्र इन्द्र-शत्रुओं (असुरों) को नष्ट करने के लिये दूसरे किसी को मेजेगा। उसका संकल्प पूर्ण हुये बिना नहीं रहेगा।

इस दृढ़ भावना के साथ ऋषि दक्षिण की ओर चले। उनके साथ सहस्रों आर्य तरण चले थे। जिनमें यदु तुर्बसों की संख्या अधिक थी। सभी जनज्येष्ठ-एकत्रित हुये। उन्होंने आपस में बातचीत की। उनके तरणों ने बतला दिया—हम ऋषि के साथ हैं, मरने में भी और जीने में भी। यदु ऋषि की बात नहीं मानते, तो वह प्राणों की प्रतिश्वाकरके आये हैं। हम भी उनके साथ हैं। यदु तुर्बस जन में किसी

तरुण को आप नहीं पायेंगे। हम सब उनके प्राण दे देने पर अपना प्राण दे देंगे या उनके रिक्तहस्त लौटने पर हम भी उनके साथ चले जायेंगे।

यदु-तुर्वसों के अपने मंत्र से पूर्ण सफलता प्राप्त करने के बाद फिर सारे सप्तसिन्धु में भरद्वाज की जय-जयकार होने लगी। ऋषि ने कहा कि शत्रु के हराये बिना अभी से इतनी जय-जयकार क्यों मना रहे हो। लेकिन आर्यजनों में भरद्वाज द्वारा प्रवर्तित इसी एकता के कारण पूरा विश्वास हो गया था कि अब असुरों (किरात) को हम सदा के लिये नतशिर कर सकेंगे और सोम की भूमि यह बहुत पर्वत हमारी हो जायेगी। आर्यों के ऊपर से असुरों का संकट सदा के लिये दूर हो जायेगा।

नम्रता में दिवोदास ब्रह्मयश्व से भी आगे बढ़ गया था। वह सारे आर्यजन को विश्वास दिलाने में सफल हुआ कि मैं आप के राजा का स्वामी नहीं हूँ, बल्कि रंजनकारक सेवक।

पुरुषों को ज्येष्ठ जन होने का अभिमान था, लेकिन तृतीयस्यु दिवोदास का ममेरा ज्येष्ठ भाई उसके सौजन्य से अभिभूत था। उस और तृतीय उसके कारण एक हो गये थे। जहाँ “हम बड़े”—“हम बड़े” कहकर सारे सप्तसिन्धु में वैमनस्य छाया हुआ था, वहाँ हम इन्द्र के संकल्प में आगे, ऋषि के संकल्प में आगे, उनके सेवक दिवोदास के संकल्प में आगे बढ़कर सभी दस्यु-हत्या के लिये तैयार हैं। भरद्वाज के ज्येष्ठ पुत्र गर्ग, दिवोदास के बड़े भाई के समान बराबर साथ रहते। भरद्वाज के पुत्र ही नहीं दिवोदास के मित्र कुरुक्ष आर्जुनेय आदि भी दस्यु युद्ध के लिये एक मन से तैयारी करने लगे। उस वर्ष पर्वत सहानु पर फिर असुर (किरात) जाड़ों में आये। आर्यों ने अपने सारे बल का प्रदर्शन नहीं किया। छोटी-गोटी झ़हप होती रही, जिसमें इधर-उधर की कुछ गायें हरी गईं।

## २१. सारथी कुत्स आर्युनेर

महो द्रुहो....वज्ञस्ययत्पतने शुष्णः ।

उच्च एक सरथं सारथये कुत्साम उग्रो पुरोहितः ॥

—शूक् १०।१५०

भरद्वाज ने भुज्यु जैसा एक अदम्य सेनापति पाया था । वहाँ पुरुकृत्स भी उससे कम महाशूर नहीं था । पर, साथ ही शंबर के सेनापति शुष्ण, अशुष्ठ, कुयव भी कम दुर्दम्य नहीं थे । असुरों की शारदी पुरियाँ यद्यपि केवल जाङ्गों भर के लिये होती थीं; पर, शंबर को मालूम था कि यदि पीतकेश हमारी इन पुरियों को उखाड़ सके तो फिर क्या ठिकाना है कि पहाड़ों में भी हम रह सकेंगे । यदि पहाड़ों में हमें बाकी महीनों में रहना है, तो वृहत् पर्वतों के नीचे की भूमि में हमारी शारदी पुरियों को रहना चाहिये । इसके लिये चाहे हमें कुछ भी बलिदान देना हो । शुष्ण ने असुर-राज के विचार का समर्थन किया और वह बड़ी तैयारी के साथ उस जाड़े में नीचे उतर आया । अनेक शत-सहस्र असुर उसके साथ थे । एक पूरी (मोर्चाबन्द स्थान) अशुष्प के नीचे थी दूसरी कुयव के, तीसरी पिपु इस तरह बंगृह, करंज, पर्णय, वर्चों भी भिन्न-भिन्न पुरियों के नेता थे ।

बतला चुके हैं कि युद्ध में यदि आयों का सबसे बड़ा बल अश्व था, तो असुरों का सबसे बड़ा बल था उनका निशाचर होना । रात के बक्त किसी जगह भी असुर सीमा से पचास-साठ योजन के भीतर आयों की नींद नहीं आती थी । न जाने किस बक्त असुर चढ़ आये । इस पचास-साठ योजन के बाद ही आयों के ग्राम पहुँते थे और वह भी

झोपड़े के। जरा से संकेत पर वहाँ के पश्च, मनुष्य हटा ले जाते थे। कुत्स को पता लग गया था कि शुष्ण शंबर का दाहिना हाथ है। उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे शुष्ण से विरहित शत्रु सेना को करना है। पर, इसका पता लगना आसान नहीं था कि शुष्ण किस पुरी का स्वामी है। उसने अपने मेदिये मेजे, पर मेदियों का वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं था। पीतकेश तो असुर पुरियों तक जा ही नहीं सकते थे, केवल पश्चि ये जो आर्यों और असुरों दोनों के निवास स्थान में साधारणतया पहुँच सकते थे। क्योंकि अच्छे-अच्छे ताम्र के हथियार वही बनाते थे। खाने और भोग की वस्तुओं के व्यापार का काम भी वही करते थे। अपने व्यापार के लिये वह खतरा मोल लेने के लिये तैयार थे। कुत्स ने पश्चियों को ही मेदिया का काम दे रखा था। एक दिन एक पश्चि ने कुत्स से आकर एक पुरी का वर्णन किया, जिसका स्वामी शुष्ण वह समझता था। वहाँ दससहस्र भेड़, बकरियाँ, गायें और घोड़े दिखाई पड़ते थे। पश्चि ने सनिश्चय तो नहीं कहा कि जिस पुरुष को उस पुरी का स्वामी उसने समझा था, वह शुष्ण ही होगा। लेकिन शंबर जैसा वैभव दूसरे किसी असुर सूरि को यदि हो सकता तो इसी सैनप को। पश्चि को असुर भाषा भी मालूम थी। उसने अपने कानों शुष्ण का नाम कहते सुना। यद्यपि शत-प्रति-शत निश्चय नहीं था पर, पर्याप्त कारण था कि कुत्स उस पुरी को शुष्ण की पुरी समझे।

शुष्णपुरी पर आक्रमण करने की बात सोची जाने लगी। दिवोदास भी वहाँ मौजूद था। लोगों का कहना था—असुर अपनी शीरता से उतना नहीं लड़ते, जितना कि अपनी माया से। इसलिये हम उन पर आक्रमण करेंगे, इसका उन्हें पता नहीं लगना चाहिये। और न इसका पता होना चाहिये कि हम कितनी सेना के साथ उन पर चढ़ रहे हैं।

—हाँ, दिवोदास ने कहा—नहीं तो वह भाग जायेगे।

—और हमें शुष्ण को भागने देना नहीं चाहिये। अबके कुत्स ने कहा—यदि शुष्ण और उसकी सेना को हम नष्ट कर सके तो शंबर की दाहिनी बाँह काट सकेंगे।

—इसलिये हमें ऐसे सैन्य-संचालन करना चाहिये, जिससे उसके शिर पर पहुँच जाने पर ही शुष्ण को हमारा पता लग सके। दिवोदास ने कहा।

◦ ◦ ◦ ◦

प्रस्थान करना रात को ही निश्चय हुआ। घोर अरण्यानी थी जिसमें पेहों की शाखायें कहीं-कहीं ऐसी आपस में मिल गयी थीं कि उनके भीतर से रात को रास्ता पाना आसान नहीं था। और अरण्य के हिस्पशुओं से शून्य नहीं थे। कहीं हाथियों का मुरेड मिल सकता था, कहीं बाघ और सिंह भी हो सकते थे। यदि हजारों घोड़सवारों को देखकर भयभीत होते तो जंगल में कोलाहल मच जाता और शत्रु को पता लग जाता। पथ-प्रदर्शक ढूँढ़े जाने लगे। अरण्यवासी निषाद सामने आये। पर, वह बृहत् पर्वतों की तरफ के जंगलों में नहीं रहते थे। वह दक्षिण के अरण्यों में विचरते थे, तो भी कुछ बातों में अरण्य और अरण्य-पशुओं की समानता होती। यह खाल करती एक बृद्ध निषाद ने बतलाया—हमें अरण्य में जहाँ-तहाँ से छुसना नहीं चाहिये। इसके लिये छोटी नदियों की सूखी धार अच्छी साधित होगी। विपाशा (व्यास) का किनारा पकड़ने पर रात को पानी के किनारे जन्तु भी मिलेंगे, जो डरते हुये भागकर हमारे आने का भेद खोल देंगे। एक छोटी नदी क्या बल्कि बड़ा सूखा नाला इसके लिये चुना गया। परिण के कहे अनुसार वह शुष्ण पुरी के पास से आता था।

यांत्रा की सफलता के लिये अग्नि और हन्द से प्रार्थना की गई। सारे आर्यवीर अक्षत शरीर शत्रु को हराने में सफल हों।

उस दिन सफेद घोड़ों की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका रंग रात

को भेद खोल देगा। हजारों लाल और श्याम घोड़े दुर्लभ नहीं थे। उन्हीं पर चढ़कर सभी रवाना हुये। कुत्स को दिवोदास ने स्वयं बाहों में बाँधकर आघाण किया। वह नाले के पास तक साथ-साथ आया, फिर घोड़े पर चढ़ कुत्स सारथी (सेनापति) की बाहिनी उत्तर की ओर रवाना हुई। खरगोश, लोमड़ी, सियार रास्ते से निकल भागे। पर, नाला सूखा होने से वहाँ और बढ़े जानवर नहीं मिले। हाथियों को बाँस या पेड़ों के हरे पत्ते चाहिये, वह भी नाले के किनारे नहीं थे। मृग, गवय आदि के लिये न वहाँ हरी धास थी, न पानी। उनकी ताक में छिपे सिंह और बाघ भी वहाँ न रह सकते थे। इस प्रकार यह सूखे नाले का रास्ता अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। इसमें पत्थर भी कम थे और जो थे वह भी छोटे-छोटे।

आर्य बाहिनी चलती गई और साधारण चाल से नहीं चलिक कहना चाहिये दौड़ती-सी। कुत्स के 'मन में यही हो रहा था कि आज सविता जल्दी न उमे, जिसमें अँधेरे-अँधेरे में हम शुभ्षण पुरी पर पहुँच जायें।

अब तक की निर्विज्ञ यात्रा से बहुत आशान्वित हो गये थे। निशीथ के शान्त बातावरण में शब्द के नाम पर केवल घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई देती थी। हजारों पैरों की यह आवाज निशीथ के मौन को भंग कर रही थी। लोगों के कानों में वही एक मात्र शब्द आ रहा था। इसी समय आगे चलने वाले घोड़े कान खड़े कर चौकन्ने होकर एक जगह खड़े हो गये। सवारों ने देखा दाहिने ओर कुछ दूर पर हाथियों का मुरेड बरगद की शाखाओं को तोड़कर उनकी छाल खाने में लगा हुआ था। टापों की आवाज सुन कर सबके कान इधर लग गये। एक बड़ा दन्तावल गजराज उनसे अलग होकर गौर जे देख रहा था। समय नहीं था। जल्दी किसी निश्चय पर पहुँचना था। अपने कुन्तों (भालों) को सम्हाले सवारों ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। हाथियों ने अपने से आकार में इतने छोटे आदमी के पौरुष को

पहचाना था। उनको आगे बढ़ते देखकर सभी हाथी भागे। दन्ता-बल भी उनके पीछे-पीछे चला। वह दाहिनी ओर नवी की तरफ चला गया।

हो सकता है, किरातों की जगह हाथियों से भिन्न होती। पर भिन्न होने पर हाथी भी बुरी तौर से घायल होते। और इसमें शक नहीं पीतकेशों में भी बहुत से धराशायी होते। हाथियों के मार्ग छोड़ देने पर आयों ने इन्द्र की स्तुति की। आखिर वह इन्द्र के काम के लिये ही जा रहे थे। इन्द्र क्यों न उनकी सहायता करता। अब एक मात्र यही सबके मन में ख्याल आ रहा था कि उषा का दर्शन कुछ देर और न हो। अपने स्वर को साथे चल रहे थे। घोड़ों का छीकना बन्द नहीं हो सकता था। पर कभी-कभी रात्रि की निस्तब्धता जान पड़ती थी। इसी में बानर के मुँह से निकली आवाज 'पू' हुई। पथ प्रदर्शक निषाद ने रुककर कानों से सुना। तब एक बार फिर आवाज हुई। कुत्स ने पूछा—

—क्या है?

—यह बानर की आवाज नहीं है, बल्कि किरात बानर की बोली की नकल कर रहा है।

—नकल करने का क्या मतलब, क्या इसमें कोई भय है?

—हाँ, भय है, यह पुरी के लोगों को सूचना दी जा रही है। हम पुरी से योजन से कम दूर पर हैं। पेड़ों के ऊपर ऐसी सूचना देने वाले बीच में जगह-जगह पर बैठाये हुये हैं। इसको सुनकर दूसरा 'पू'—वह देखो कुछ देर पर 'पू' की आवाज हुई। इसी तरह यह 'पू' की आवाजी का ताँता शुष्ण के पास तक लगा हुआ है। अर्थात् अब हम शुष्ण को भी बेखबर नहीं पा सकेंगे। वह जान गया है कि पीतकेश शत्रु आ रहे हैं। अब वह हमसे लड़ने के लिये सदल-बल तैयार मिलेगा।

कुत्स आर्जुनेय ने ज़रा भी घबड़ाहट न दिखलाते हुये कहा—यह अच्छा है, क्योंकि यदि शत्रु भागे तो शुष्ण लड़ने का विचार तो नहीं छोड़ सकता। उसके लड़ने और मरने पर ही हमारे मनोरथ की सिद्धि है।

थोड़ी दूर जाने पर दाहिनी ओर पूर्व दिशा में उषा की लाली दिखाई पड़ी तो लोगों को प्रसन्नता हुई कि निशाचर शत्रुओं के साथ दिन में लड़ने को मिलेगा।

कुछ दूर पर जंगल कम हो गया था। पेड़ आदमी के हाथों काठ दिये गये थे। काठों की ऊँची-ऊँची दीवारों बाले बाढ़े बने हुये थे, इन्हीं में शत्रु की गार्ये और धोड़े थे। रात के बक्क मांसाद जन्तुओं के भय से पशुओं को यहाँ रखा गया था। जैसे पशुओं को काठ के दुगों (बाढ़ों) में रखकर सुरक्षित रखा जाता उसी तरह अपनी रक्षा के लिये वह काठ के दुर्ग बनाते थे। सुविधा अनुसार काठ की जगह अनगढ़ पत्थरों को भी इस्तेमाल करते। इसी गढ़ी को पुरी कहा जाता। गढ़ी की कई पंक्तियाँ होतीं। शत्रु को हर पाँति पर मुकाबला करना पड़ता। आमने-सामने होते ही बाणों की सनसनाहट सुनाई दी। शुष्ण कुत्स बाहिनी के मुकाबले के लिये तैयार था। पीतकेश भी बाण छोड़ने लगे। बाणों में पीतकेश सबल थे। उनके सभी बाणों के फल ताँबे के होते थे, जब कि असुरों के बाणों में कड़े पत्थर के टुकड़े और हड्डियों को भी रखा जाता। वह ताँबे जैसे तीक्ष्ण नहीं होते थे। पर, विष में बुझे होने से धाव करके जरा-सा छू जाने पर भी आदमी मरने से बच नहीं सकता था। कुछ-कुछ वही बात धोड़ों के बारे में हुई थी। पीतकेशों में प्रत्येक के पास ताँबे के तार के कबच थे, जो असुरों के प्रहार को बहुत कुछ कम कर देते थे।

धोड़े पर चढ़े सबारों को दूर से नज़दीक पहुँचने में देर नहीं लगी। फिर असि-युद्ध, गदा-युद्ध, कुन्त-युद्ध, होने लगा। पीतकेशों के कुन्त भी बहुत तीक्ष्ण थे और वे सभी कुन्तधारी थे। असुरों की

गदायें कडे पत्थर की थीं। जबकि पीतकेशों की गदायें ताँबे की अनेक धारोंवाली थीं। असुरों की गदा शिर का चूर्ण कर सकती थी जबकि पीतकेशों की गदा चूर्ण करने और काटने दोनों में समर्थ थी। असि भी पीतकेशों की बहुत तेज थी। इसमें शक नहीं कि जहाँ तक हथियारों का सम्बन्ध था, पीतकेश अधिक हृदय थे। नजदीक पहुँचने पर धोड़ों को उन्होंने छोड़ दिया और हृदय होने लगा। कुल्स का पराक्रम देखने लायक था। उसकी असि से शत्रु का सिर साफ हो जाता था। पुरि के द्वार (जो यहाँ काठ का था) में पहुँचकर अब हाथ की लड़ाई हुई। आर्य अभी अपने बालों से नहीं पहचाना गया था, क्योंकि प्रकाश कम था। पर, दोनों के आकार को देखने में पता लग जाता था कि यह पाँच हाथ का पुरुष पीतकेश है और यह तीन-चार हाथ का खर्बशरीर असुर। लेकिन साहस में आर्यों से अधिक थे। इन को लड़ते देख मालूम ही नहीं होता था कि शरीर के धाव का कोई असर है। जब तक कि धाव इतना अधिक हो कि वे खड़े होने में असमर्थ हों एक पाँति पर अधिकार करने में जितना समय लगा, उतना ही अगली पाँति में। सबके अंत की पाँति में तुमल युद्ध हुआ। ललकार-ललकार कर दोनों ओर के योद्धा लड़ रहे थे। अपने-अपने देवताओं के जय बोल रहे थे। शुष्ण पीतकेश सेनापति की प्रतीक्षा में था। वह सम्भल कर खड़ा था। लेकिन अभी तक पीतकेश बाहिनी का उसके अनुचरों से ही मुकाबला था।

आखिर सूर्य उग गये, अब दोनों सेनापतियों को एक दूसरे के पास आने का मौका मिला। शुष्ण अपने बन्धुओं की तरह आकार में बहुत लम्बा नहीं था, लेकिन जान पड़ता था। वह जितना लम्बा है, उतना ही चौड़ा भी है। उसके हाथ में विशाल गदा थी जो एक प्रहार में ही शत्रु के शिर को झुट्टा कर देती थी। सारथी को कुल्स के लिए मर्य होने लगा। यदि शुष्ण की गदा एक बार भी सारथी के ऊपर पड़ती तो बच्ने की उम्मीद नहीं थी। शुष्ण सचमुच ही महान् योद्धा

था। दोनों को पास से प्रहार करते देखकर आयों के लिये यह सोचना मुश्किल था कि आज कुत्स आर्जुनेय जीवित रह सकेगा। उसका शरीर लम्बा था, पर साथ ही उसमें मांसपेशियाँ कम थीं। प्रहार करने में दोनों कम नहीं थे। और कुत्स ने अपने शौर्य का परिचय भी दिया था।

शुष्ण ने गदा का एक प्रहार किया। कुत्स ने तुरन्त उस स्थान से हटकर बचाव किया। कुत्स बड़ी शीघ्रता के साथ एक जगह से दूसरे जगह हट जाता था। उसकी ताप्तनिर्मित (आयसी) गदा शुष्ण को धायल करने में सफल हुई। शुष्ण पीले वर्ण का था अर्थात् सोने की तरह का। भार और लचक की कमी भी उसमें थी। पर उसका शरीर बज्र-सा मालूम होता। कुत्स की रक्षा तभी हो सकती थी, जबकि इन्द्र स्वयं उसकी रक्षा करना चाहें। इसी समय मालूम हुआ कि एक सुवर्ण वर्ण पुरुष कुत्स सारथी के पास आकर शुष्ण के हरेक प्रहार को विफल करने लगा। दो-चार बार चलाने पर शुष्ण की गदा टूट गई और सुवर्ण पुरुष ने इतने जोर का बज्र प्रहार किया कि दूसरे ही दृश्य शुष्ण भहराकर भूमि पर गिर पड़ा। आर्य दल में हर्षध्वनि होने लगी, पर, शत्रु का बल अभी छिन्न नहीं हुआ था इसलिये वहाँ हर्षध्वनि करने के लिये उनके पास समय कहाँ था।

कुत्स आर्जुनेय का उत्साह नया हो गया। इतने देर के युद्ध को उसने कुछ नहीं समझा और नये उत्साह के साथ शत्रु-वध करना शुरू किया। शुष्ण के बाद शुष्ण को बचाने के लिये अशुष आया था। वह और कुयव शुष्ण के बराबर थे। शृजिश्वा और दूसरे आर्य-सूरि अब वहाँ आ पहुँचे।

मध्याह्न से पूर्व ही शत्रु सेना छिन्न-भिन्न हो गई थी। पूरिचेत्र में हताहत असुरों की भारी संख्या पड़ी हुई थी। इन्द्र की सारी रक्षा होने पर आर्य भी काफी हताहत हुये। असुर अब पुरि छोड़कर भाग चुके थे। आयों ने कुछ देर उनका पीछा किया फिर पुरी की चीजें सम्हा-

लने और विश्राम करने एवं घायलों की सुध लेने को पुरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। और असुर पुरी में घायल और मृत के रूप में ही रह गये।

शुष्णा-पुरी में पशुधन बहुत मिला। अपने पशुओं के लिये ही तो युद्ध का भय मन से हटाकर वे जाड़ों में इस पुरी में आकर रहते थे। पशुओं को अभी उनके बाड़ों से छोड़ा नहीं गया था। क्योंकि सारे पुरुष युद्ध में लग्न थे, जिनमें स्त्रियाँ भी हाथ बँटा रही थीं। और बच्चे युद्ध के सामने पशुओं के चराने का स्थाल भी नहीं कर सकते थे। इसी समय पीतकेशों ने गर्गरा बाजे की ध्वनि की जिसका अर्थ था विजय धोषणा।

यद्यपि शत्रु राज कुलीतर का पुत्र दुर्दान्त शंबर अब भी जीवित था और जब तक शंबर जीवित था अब तक मायावी असुर जीवित थे। इस पर आर्य भी सन्देह नहीं कर सकते थे। पर अभी अनेक पीतकेश उनका छुकका छुड़ाने के लिये मौजूद थे।

## २२. ऋजिश्वा का युद्ध

“दिवे-दिवे सदृशीरन्यमद्दृं असेषदप सदानो जाः  
अहन्दासा वृषभोव वस्तयन्तोदबजे वर्चिना शंबरंच ।”

—ऋक० ६।३१।४

जाङ्गो में चरिष्णु पुरियाँ पर्वत-सानु पर सब जगह फैली हुई थीं। आयों के लिये इन पुरियों को समाप्त करना सबसे आवश्यक था। युद्ध से विरक्त होने का मतलब था, शत्रु की दृष्टि में पराजय स्वीकार करना। इसलिये अलग-अलग सूरि दल बनाकर असुर सूरियों को लूटने के लिये बराबर जाते रहते थे। दिवोदास ने जिस समय संघर्ष शुरू किया था, उस समय वह बीस-बाइस बरस का तरण था और शंबर को मारकर संघर्ष में विजय प्राप्त करने में उसको चालीस बरस लगे। उसकी आयु अब साठ से ऊपर हो गई थी। शंबर भी लगभग इसी उमर का था। दिवोदास के जीवन का लक्ष्य शंबर को संहार करना था।

आगले किसी शरद ( जाडा ) काल में ऋजिश्वा का अपना शौर्य, पिपू, वंशद, कंरज, परण्य, मृगयु तीन महा असुरों के सामने दिखाने का मौका मिला। पिपू आदि के साथ पचास हजार असुरसेना लड़ने के लिये तैयार थी। पर, उनको मारकर उनके पुरों को तोड़ताड़ आयों ने अधिकार जमाया। यद्यपि सभी असुर पुरियों का स्वामी और रक्तक कौलितर शंबर को कहा जाता पर ६६ या अधिक पुरियों के उतने ही पुरिनायक थे। शुष्ण के मारने के बाद वाकी असुर पुरिनायकों ने हिम्मत तोड़ दी हो, ऐसा नहीं हुआ। वह दुगुने उत्साह से अपने हार

का मूल्य चुकाता रहे। बहुत पर्वत के नीचे के छुट्र पर्वतों में मोर्चाबन्दी (पूरी लगाने) का सुभीता था। इसलिए पत्थरों की दीवारें बना के जगह-जगह असुर पुरियाँ खड़ी कर दी गई थीं।

असुरों के सामने बार-बार यही प्रश्न आता था। जाड़ों में घमतप्पी करने के लिए यहाँ नीचे के कम शीतल स्थानों में पशुओं और मनुष्यों को लेकर हम आ सकेंगे या नहीं? यदि नहीं आ सकेंगे तो ऊपर की जगहें जाड़ों में बहुत ठण्डी होती हैं। कितने ही स्थानों पर हिम पड़ जाती है, वहाँ पशुओं के लिए चारा नहीं रहता, मनुष्यों को दिन-रात काँपते रहना पड़ता है। ऐसे स्थानों में जाड़ा बिताते कितने ही बूढ़े और रोगी जीवित नहीं रह सकते। इसीलिये अपनी पुरियों के एक-एक अंगुल भूमि के लिये लड़ते रहे।

यद्यपि असुरों के मुख्य शत्रु आर्य थे। वही उनकी पुरियों पर लालच भरी निराह ढालते थे, पर पश्चि (प्राग द्रविड़) और निषाद (भील आदि अत्यन्त काले पुरुष) आर्यों को सहायता देते थे। इसलिये उनके साथ भी असुरों का सम्बन्ध खराब हो गया था। पश्चि और निषाद पीतकेशों के प्रेमपात्र नहीं थे। उनसे भी वह पशु जैसा ही व्यवहार करते थे। परन्तु लूट के धन-धान्य में उन्हें भी सम्मिलित करते थे। इसलिये सिंह के साथ सियार की तरह उनके सामने पूँछ फिलाते रहते थे। निषादों और पश्चियों से असुरों को भी बहुत काम पड़ता था। ताम्र (अयस्त) के तीक्ष्ण हथियारों के लिये असुरों को पश्चियों पर निर्भर रहना पड़ता। निषाद असुरों की तरह ही बन-चर थे, जंगल में फिरते रहने वाले लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अन्तर था। किरात असुर अपने को आर्यों से किसी तरह कम नहीं समझते थे। वह पर्वत या स्थली अरण्य के पहले से ही स्वामी थे, (यदि स्वामी समझे तो आश्चर्य क्या?) अगले शरद (वर्ष) भाग्य परीक्षा के थे। युद्ध यद्यपि पिपु, मृगयु, अशुष, कुयव से होता था, पर ऐसा माना जाता था कि सभी जगह शंबर लड़ रहा है। जिस पुरी

को भी बहुत खतरे में देखता शंबर वहाँ पहुँच जाता। यही बात कुत्स आर्जुनेय, पुरुकुत्स (पुरुवंशी कुत्स) पुरुकुत्स-पुत्र ब्रसदस्यु, श्रुतर्य, तुर्वीति, दमीति, व्वसन्ति, पुरुषन्ति आदि आर्य सूरियों के बारे में थी। वह स्वयं असुर पुरियों पर आक्रमण करते थे। पर उनकी सहायता करने के लिये दिवोदास अपनी चुनी हुई सेना के साथ हर बक्त जाने के लिये तैयार रहता, और घोड़ों के कारण वह हर जगह जल्दी ही पहुँच जाता।

बहुत हानि उठाकर पीतकेश समतल अरण्यानी से असुरों को भगा सके। अब वह पर्वत दुगाँ का आश्रय लेते थे, जिनका जीतना अधिक कठिन था। क्योंकि असुर दुर्ग दुर्गम पहाड़ों पर बने हुए थे, जहाँ ऊपर से वह पत्थर भी छुटकाते थे। स्थान ऐसा चुनते थे; जहाँ आर्य अपने घोड़ों की सहायता नहीं ले सकते थे, उनको पैदल ही जाना पड़ता था। इसलिये आश्वर्य नहीं यदि पीतकेशों को चालीस शरद (वर्ष) इन सौ दुगाँ को सर करने में लगे हों।

X

X

X

चालीसवें वर्ष अन्तिम युद्ध शंबर के साथ उद्ब्रज (पानी के गोठ) में हुआ। शंबर ने यह अजेय स्थान चुना था, जहाँ उसका ब्रज (गोठ) एक नदी के जल (उद) के किनारे पड़ता था। संभवतः वह स्थान वर्तमान काँगड़ा हो, जिसका किला १६००वीं सदी के आरम्भ तक अजेय समझा जाता रहा। जिसे रणजीत सिंह नैपालियों से आसानी से नहीं ले सके, वही बात अंग्रेजों के लिये भी हुई। इस दुर्ग में पशुओं और मनुष्यों के लिये पानी का सुभीता, भोजन-सामग्री, पशु और धन के रूप में एक से अधिक सालों के लिये जमा की जा सकती थी। आक्रमण करने वालों को एक दुरारोह पर्वत पर चढ़ना पड़ता, जबकि रक्षा करने वालों को ऊपर से पत्थर ढूँकेलने का सुभीता था। पीछे की कहावतें बतलाती हैं कि जलन्धर राज्य का स्थान यही था। और जलन्धर राज्य को इन्द्र ने मारा तो सारी

जलन्धर भूमि दस्युओं से मुक्त हो गई। जलन्धर और कोई नहीं है, उसी किरात राज शंवर की महादैत्य के रूप में कल्पना है। उस समय शंवर का पुर सिर्फ वर्तमान किला भर ही नहीं था। उसके किले में दृढ़तावद्ध पाषाण की पुरियों में रहकर शत्रुओं का मुकाबला कर रहे थे।

शंवर का दाहिना हाथ सेनापति वर्ची असुर था। ६६ पुरियों को जीतने में जितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, उससे कहीं अधिक कठिनाई उद्ब्रज को जीतने में पड़ी। यह असुर राज का अंतिम गढ़ था। वर्ची के सौ हजार योद्धाओं का युद्ध चलता है कि कितना भीषण युद्ध हुआ होगा।

\* \* \*

महान् संकट के समय भी शंवर विचलित होने वाला पुरुष नहीं था। पर, स्थिति को गम्भीरता को कम करना भी नहीं चाहता था। उसके बड़े-बड़े वीर सेनप और योद्धा हजारों की संख्या में मारे गये। रह-रहकर उनकी सूरतें इसके सामने आतीं। कभी शुष्ण की वीरता को याद करता, कभी अपने बाल मित्र कुयव का ख्याल करता। उस दिन वर्ची के साथ युद्ध की मंत्रणा करते हुए उसने कहा था—

—हमारे हरेक वीर ने ऐसा धोर संघर्ष किया कि विजय बहुत दूर नहीं रह गई। विजय और पराजय तो अंतिम समय में आधे अंगुल का अंतर भी नहीं रखती है। उतने ही में कोई पराजित हो जाता है, कोई विजयी हो जाता है। अब भी मेरी समझ में विजय और पराजय में उतना ही अंतर है।

—मैं इसूसे सहमत हूँ। हर संघर्ष में मैं उतना ही अंतर देखता हूँ। पीतकेश अपने बड़े देवता शक्र (इन्द्र) का इसमें हाथ बतलाते हैं।

—शक्र-वक्र किसी का इसमें हाथ नहीं है। हमारे असुर लड़ने

में पीतकेशों से पीछे नहीं रहे। क्या नाम था उस पीतकेश का—  
शुष्ण ने कहा।

—कुत्स ।

—हाँ, कुत्स को मार डालने में शुष्ण को कितना आसान था ?  
कहते हैं यदि शुष्ण का बज्र कुत्स के शिर पर गिरा होता तो वह  
वहीं ढेर हो जाता।

—हाँ, हल्का होने से कुत्स फट से अपनी जगह से अलग हट  
गया।

—बस, इतना ही अंतर या जय और पराजय। यदि हम कुत्स  
को उस दिन मार सकते तो पीतकेशों की हिम्मत दूर जाती।  
वह भागकर अपने नीचे के स्थानों में चले जाते।

—बच्ची, ठीक कह रहे हो। और तुम देखोगे, एक दिन  
मेरी गदा भी दिवोदास के शिर पर बैसी ही तनेगी। यदि दिवोदास  
भाग नहीं गया तो उस बज्र से रक्षा करने वाला उसका इन्द्र भी नहीं  
हो सकेगा।

पीतकेश बहुत-सी पुरियों को तोड़ चुके थे। उनकी हिम्मत बढ़ती  
ही जा रही थी। लेकिन असुरों का संघर्ष कम था। इसलिये नहीं  
बल्कि, सफलता उत्साह को बढ़ा रही थी। पीतकेश योद्धाओं की कमी  
न हो, इसके लिये ऋषि भरद्वाज ने सारा भार अपने ऊपर ले  
लिया था। इन्द्र उनके मुख से सारे सप्तसिन्धु में, सारे आर्यजनों में  
सन्देश भेज रहे थे—‘शंबर-हत्या’ समीप है। असुरों पर विजय निश्चित  
है। ऐसा अवसर बारबार नहीं मिलता। हरेक आर्य में जो पौरुष  
का रक्त वह रहा है, उसे इस देवासुर संग्राम में दिखाना चाहिये।

वस्तुतः सारे सप्तसिन्धु से लोग अपने घोड़ों पर चढ़े दौड़े-दौड़े  
आ रहे थे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि सब को भेजा नहीं  
जा सकता था। ऋषि उनको आवश्यक स्थानों के अनुसार कम से  
भेजते थे। अब बहुत से स्थान (पुर) रह भी न गये। इसलिए सबको

उदब्रज मेजते थे। असुर भी अपने सर्वस्व को उदब्रज के दाँव पर रखा चुके थे। उनकी पंक्ति शून्य नहीं होने पाती थी।

वच्ची सौ हजार असुरों के साथ उदब्रज के एक स्थान पर डटा पीतकेशों से संघर्ष कर रहा था। दिवोदास भी वहाँ पहुँच गया। रोज-न्रोज असुर-संहार हो रहा था। आयों के सारे हथियार अवस्‌(ताम्र) के थे। पर, असुरों के पास आयस् हथियारों की कमी थी। पण आयों की विजय को ब्रुव समझने लगे थे। इसलिए कि उनके कोप के डर से असुरों के पास हथियार नहीं ले जाते थे। असुरों के पास थोड़े ही से आयस् हथियार रह गये थे। बाकी की कमी वह पाषाण हथियारों से पूरा कर रहे थे।

शंबर ने कह दिया था—मरना या जीतना दो ही बातें हमारे सामने हैं। हम पराजय देखने के लिये जीते नहीं रहेंगे। जब तक जीयेंगे अपनी बीर जाति के अनुरूप जीयेंगे। दिन-दिन असुरों की मृत्यु-संख्या बढ़ती जाती और उसकी सूचना शंबर को भिलती थी। पर कुलितर के पुत्र ने बछ जैसा हृदय पाया था। उसकी हृदता में जरा भी कमी नहीं आई थी। उस हृदता की बीमारी हरेक असुर हृदय में थी। मनुष्य नहीं लड़ रहा था, बल्कि देवता मनुष्य के शरीर में आकर लड़ने का प्रोत्साहन दे रहा था।

शंबर ने अंत में पहाड़ के सारे चश्मों में विष डाल दिया था और जहाँ जल के कुण्ड ये उन्हें सुखा दिया था। आर्य विष के डर से पानी नहीं पीते थे। पीने पर अनेकों को उन्होंने अपने आँखों के सामने मरते देखा। चढ़ाई चढ़ने से प्यास और बढ़ जाती। मुख और तालू सूख जाते और कुछ तो असमर्थ हो वहीं सदा न उठने के लिये पड़ जाते थे। इन्द्र, सोम, वरुण सभी देवता हर बक्त पीतकेशों के शिरों पर आते ही रहते थे। उनके पीले बाल जोर-जोर से हिलते और मुख से शब्द निकलता—विजय दूर नहीं है। बढ़े चलो।

वह देवताओं द्वारा जबर्दस्ती खीचकर आगे बढ़ाये जा रहे थे।

हर पत्थर के पीछे हर शिला की आँड में धनुष-बाण लिये असुर छिपे हुये थे। हर कदम पर कोई-न-कोई पीतकेश लुढ़कता।

अंत में वह कुछ समतल-सी पहाड़ी अधिल्यका पर पहुँचे। संध्या राग पश्चिम की ओर फैल गया था और अन्धकार के होने में बहुत देर नहीं थी। दिवोदास ने समझ लिया—यदि और देर की तो निशा को बल शंबर को मिल जायेगा। कुछ ही पग आगे बढ़ने पर पत्थरों का स्वाभाविक द्वार मिला जहाँ असुर पंक्ति बाँधे मुकाबला कर रहे थे। पीतकेश भी दिवोदास के साथ आगे बढ़ने में नहीं रुके। उस स्वाभाविक द्वार पर असुरों की लाश पट गयी। एक मरता उसका स्थान लेने को दूसरा आता। द्वार से आगे बढ़े। फिर एक गुहा मिली। इसमें कम सन्देह था कि शंबर यहाँ होगा। दिवोदास ने ललकार कर कहा—कुलितर-पुत्र, सचमुच तू कायर है, मैं तेरा शत्रु दिवोदास तेरे सामने खड़ा हूँ, आ हम दोनों लड़ें। जो दूसरे को मारेगा, उसी की जीत होगी।

मेघ गंभीर स्वर में दिवोदास क्या-क्या कह गया। इसमें सन्देह है कि कुलितर पुत्र ने उसके एक भी शब्द को समझा होगा, परं स्वर की कठोरता और कर्कशता से यह जानने में उसको कठिनाई नहीं होगी कि उसका शत्रु क्या कह रहा है?

शंबर विशाल बज्र (गदा) हाथ में लिये कुछ कहता दिवोदास की ओर दौड़ा। दोनों में गदा-युद्ध होने लगा। साध-साधकर अरक्षित अंग पर गदा का प्रहार करते। पर दोनों बचकर हट जाते। अभी भी इतना प्रकाश था कि उनके शरीर को देखा जा सकता था। दिवोदास का शरीर अत्यन्त गौर वर्ण, शिर पर अत्यन्त पीले केश, हाथ में अयसु का विशाल बज्र, उसके विशालकाय पौरुष का अनुरूप था। किरात-राज शरीर में थोड़ा ही छोटा था और उसके दीप्तमान मुख को देखते ही बनता था। उस पर मृत्यु की छाया नहीं पड़ रही थी, बल्कि विजय की उमंग नाच रही थी।

पीतकेश और किरात योद्धा चारों ओर से घेरे हुये थे, पर अपने सेनापतियों की आज्ञा के कारण कोई उनकी सहायता के लिये प्रस्तुत नहीं होता था।

दिवोदास कह रहा था—ऐसे बराबर के शत्रु का मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है। कुलितर-पुत्र और दिवोदास में द्वन्द्व युद्ध होने लगा, इन्द्र के संकल्प की परीक्षा हो रही थी।

सब की नजरें इन्हीं दोनों बीरों के शरीरों पर केन्द्रित थीं। अपने शिर पर किये गये प्रहार को दिवोदास हर बार व्यर्थ कर देता। वही बात शंबर के बारे में भी थी। पर दिवोदास का प्रहार अचूक रहा, उसे उसने शंबर की छाती पर मारा। शंबर एकदम जमीन पर बैठ गया। जान पड़ता है, प्रहार मर्म स्थान पर पड़ा था। उसको गिरते देखकर सभी पीतकेशों ने हर्ष ध्वनि की। शंबर निःसंज हो जमीन पर लेट गया। पीतकेश किरातों पर दृट पड़े। इसी समय वर्ची शंबर के शत्रु से बदला लेने आया। पर, कुत्स ने उसे बीच में रोकना चाहा। दिवोदास ने कहा—मत रोको। इसे भी आने दो।

दिवोदास ने बहुत देर तक उसे अपने पैरों पर लड़ा नहीं रहने दिया। वर्ची भी अपने स्वामी का अनुयायी था।

X

X

X

इस प्रकार शंबर और दिवोदास का युद्ध समाप्त हुआ। इन्द्र का जन्मजयकार होने लगा। असुर युद्ध ज्येष्ठ छोड़कर भागे। पीतकेश लिङ्गों को पा सके उतनों को उन्होंने मारा। कुछ ही दिनों में सारी भूत की निम्नस्थली असुरों से शून्य हो गई। वह जाड़े के दिनों में बहुत ऊँचे स्थानों में भाग गये, जहाँ आग और चमड़े से अपनी सर्दी को रोकते।

0 32 इति





Hindi - Fiction.  
Fiction - Hindi

*"A book that is shut is but a block"*

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA  
Department of Archaeology  
NEW DELHI.

Please help us to keep the book  
clean and moving.

---